Utkarsh Small Finance Bank

Aapki Ummeed Ka Khaata

(A Scheduled Commercial Bank)

ACCOUNT OPENING FORM

FOR RESIDENT NON-INDIVIDUALS

(To be filled by applicant in BLOCK LETTERS only)
All field marked * are MANDATORY, Please ensure that all mandatory fields have been filled correctly else form is liable to be rejected

Sourcing Branch Name*		Sourcing Branch Code*	Branch Name	Branch Code
Date*				
Type of Account*	Savings Current Fixed Deposit	Others	Product Name*	Product Code*
सोर्सिंग शाखा का नाम*		सोर्सिंग शाखा का कोड*	शाखा का नाम	शाखा कोड
दिनांक*				
खाते का प्रकार*	बचत चालू सावधि जमा	अन्य	उत्पाद का नाम*	उत्पाद कोड*
উৎস শাখাৰ নাম *		উৎস শাখা কোড*	শাখাৰ নাম	শাখা কোড
তাৰিখ [*]				
একাউন্টৰ ধৰণ *	ছেভিংছ চলিত ফিক্সড ডিপজিট	অন্যান্যবোৰ	প্ৰডাক্টৰ নাম [*]	প্রভাক্ট কোড*
OR BANK'S USE ONLY:				(Mandatory for KYC updation)
CIF ID	Mandatory for Existing Cust	omer	CKYC No. To be filled by Existing Cutomer	
A/C No.		LEI No.		
PGK A/C No.				
वल बैंक के उपयोग के लि	₹:			(केवाईसी अपडेशन के लिए अनिवार्य)
सीआईएफ आईडी	मौजूदा ग्राहक के लिए अवि		सीकेवाईसी सं. मौजूदा ग्राहंक द्वारा भरा जाना है	
याता संख्या		एलईआई		
संख्या 🗀 🗀				
চৱল বেঙ্কৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে: চিআইএফ আইডি			চি.কে.ৱাই.চি. নম্বৰ। মজুত থকা গ্ৰাহকৰ দ্বাৰা পূৰণ কৰিব লাগিব	(কেৱাইটি উত্থানৰ বাবে বাধ্যতামূলক)
একাউন্ট নম্বৰ।	মজুত থকা গ্ৰাহকৰ বাবে বাধ্যতামূলক	লেই নং.		
পিজিকে একাউন্ট নম্বৰ।				
PREFIX M/s	NAME OF ENTITY*			
PREFIX M/s	ACCOUNT TITLE Account Title will be same as Entity Name	In case it is different the same needs to be mentioned	d below along with supporting documents	
Date of Incorporation*	D D M M Y Y Y	CIN No.* (Only Applicable in case of Public/Pv	t. Ltd. and LLP)	
PAN No.*			ease attach form 60 and form 49 A	Form 49A attached Y N Form 60 attached Y N
पूर्वलग्न	इकाई का नाम *			
मैसर्स				
पूर्वलग्न मैसर्स	खाता शीर्षक खाता शीर्षक इकाई के नाम के समान ह	गा, यदि यह अलग है तो इसे सहायक दस्तावेजों	क साथ नाच उल्लंख किया जाना चाहिए	
निगमन की तारीख*	D D M M Y Y Y	सीआईएन संख्या* (केवल पब्लिक/प्राइवेट लिमिटेड और एलएलपी	के मामले में लागू)	
पैन संख्या*		यदि पैन संख्या उपलब्ध नहीं है	तो कृपया फॉर्म 60 और फॉर्म 49 ए संलग्न को	t। फॉर्म 49ए संलग्न Y N फॉर्म 60 संलग्न Y N
প্রিফিক্স	প্ৰতিষ্ঠানৰ নাম*			
রী/রীমতী				
প্রিফিক্স	একাউন্ট শিৰোনাম প্ৰতিষ্ঠান নামৰ গৰে একে হ'ব:	দি এইটো বেলেগ হয় তেন্তে সমর্থনকারী নথিপারৰ সৈতে তলত উ	উল্লেখ কৰিব লাগিব	
ন্ত্ৰী/ন্ত্ৰীমতী				
অন্তৰ্ভুক্তিৰ তাৰিখ <mark>*</mark>		চিআইএন নম্বৰ* (কেৱল ৰাজহুৱা/প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু এলএলৰ্গি —		
পেন নং*		যদি পেন নম্বৰ উপলব্ধ নহয় তেন্তে অনুগ্ৰহ	কৰি প্ৰপত্ৰ 60 সংলগ্ন কৰক আৰু প্ৰপত্ৰ 49 A	প্রপত্র 49 A সংলগ্ন Y N প্রপত্র 60 সংলগ্ন Y N

A) MAILING ADDRESS OF E	NTITY:	:		Maili	ing Add	dress S	ince -			_ (Yea	rs)		(Months)																		
Flat No.* & Bldg Name*																																	
Road No./Name																												Ϊ			Ī		i
Landmark*																												T		╦	丅	╦	П
City*][]	Villag	e/PO	*]]					Di	istrict	_						
State*]	Count]		N Cod			1	1	$\overline{1}$	1	$\overline{}$
	Welcor	ne Kit,	Chequ	e book	s, state	ements	and oth	er deli	/erables	will be	delive	red to] the ma	iling add		s ment	oned a	bove						J									
Tel.																					Mobil	e Nun	nber*										
E-Mail Id																																	
—————————————————————————————————————				पत्राचा	र पता व	इतनी अ	निध से			 (वर्ष	in)		(महीने)																			
फ्लैट संख्या* और																															1		
बिल्डिंग का नाम* सड़क संख्या/नाम					╫	╫										╫		╬										╫	╬	╬	╬	╬	+
लैंडमार्क*					╫]]]]						<u> </u>				╬	╬	╬	卄
][]	ـــــــالـــــــالــــــــــــــــــــ		<u> </u>]]	اا		╠				<u></u>		
शहर*]	गांव/डा		<u></u>]		तेला .			1		_	1	\blacksquare
राज्य*				 1	9	2 11 2				-A -			 f	ल्लखित	देश*		. TT 9								fc	ान को	ਤ*				JL		
दूरभाष	Falsic	1 1470	, ५५,	जुक्त, । 		3113	104 4	રુવાર	1		Gan	יכ וויף	4()	rende	4414	नार पत	44 6	1011 011	10011		मोब	ग्रहल व	नंबर*						1		1		
					╫	╫] 							1								┢			╫	╫	╫	╬	卄	╬	₩
ई-मेल आईडी 																															<u></u> _		
A) প্ৰতিষ্ঠানৰ মেইলিং ঠিকনা:				মে	াইলিং ঠিব	চনা তেতি	য়াৰ পৰা-	_		_ (বছ	1)		(মাহ)																			
ফ্লেট নম্বৰ* আৰু বিএলডিজি নাম*																																	
পথ নং./নাম																																	
লেণ্ডমাৰ্ ক*																																	
নগৰ [*]]	গাঁও/ডা	কঘৰ*											জিলা							
ৰাজ্য*														দেশ*												পিন (কোড*				\top		\Box
	স্বাগতম বি	केंग्रे, टाव	ণ বহী, বিবৃ	তি আৰু জ	অন্যান্য বি	তৰণযোগ্য	প্রভাক্টবে	াৰ ওপৰত	চ উল্লেখ ব	ৰা অনুসৰি	মেইলিং	ঠিকনাত] প্ৰেৰণ ক											J									
টেলিফোন।																						মাবাই	ল নম্বৰ <mark>*</mark>										
ই-মেইল আইডি																																	
B) REGISTERED OFFICE ADDI	RESS	OF EI	NTITY	' :	Sam	e as ma	ailing ac	ldress		if no, fill t	he detail	s below)	Regist	ered O	ffice Ad	dress s	since _		_ (Year:	s)	(I	Vonths	;)	Regist	ered A	ddress '	Туре)wned		Rented	d/Leased
Flat No.* & Bldg Name*									Ī																				T		〒		
Road No./Name					╫											╫		╫											╫	╬	怈	╬	怈
Landmark*					╫]]			╬	╬	╬	╬	╫
City*]]	Villag][]	<u> </u>] istrict					<u>L</u>		
]]]]		N Cod					一	_	\blacksquare
State*			1	1	1	1			1					Count	iry"										PI	IN CO	1e"	Ŀ	<u> </u>	<u> </u>	뉴	<u> </u>	H
Tel.																					Mobile	e Num	ber								JL		
B) इकाई के पंजीकृत कार्यालय	काप	ाता:			पत्राः	वार पते	के स	मान		यदि नहीं,	तो नीचे	विवरण	भरें)	पंजीकृत	कार्याल	य पता इ	तनी अव	धि से		_ (वर्ष)	(i	महीने)		पंजीकृ	त पते	का प्रव	नार [1	-वामित्व		किराए प	ार/पट्टे पर
फ्लैट संख्या* और बिल्डिंग का नाम*									Ē																				T		亍		
सड़क संख्या/नाम					╫											╫		╫										╫	╫	╬	怈	╬	$\forall \exists$
लैंडमार्क*]]			╬	╬	╬	╬	╫
शहर*													<u> </u>	<u>/</u>][]	L	∟ जेला	_				<u></u>		
]	गंव/डा	भधर	<u> </u>]					1		_	1	\blacksquare
राज्य*			1	11	1	1			1				Ì	*19											ि ।	ोन क ।।	ोड* 11	Ļ	<u> </u>	_ _	뉴	<u> </u>	Щ
दूरभाष																					मोबा	इल न	बर								JL		
B) প্ৰতিষ্ঠানৰ পঞ্জীভুক্ত কাৰ্যালয় ঠিক-	सा:				মেইনি	ণঙৰ ঠিকন	াৰ দৰে এ	ক		যদি নহয়,	চলৰ বিৱৰ	াবোৰ পূৰ	ণ কৰক)	পঞ্জী	ভুক্ত কা	র্যালয় ঠিক	না তেতিয়	াৰ পৰা _		_ (বছ-	n	(মাহ)			পঞ্জীত্	চুক্ত ঠিকনা	ৰ ধৰণ	n	ালিকানাধী	я <u> </u>	ভাড়াত লে	াৱা/লীজত লোৱা
ফ্লেট নম্বৰ [*] আৰু বিএলডিজি নাম [*]																													T		屵		
পথ নং/নাম					╬][][Н	H]]][][]]				⊬	╬	╬	卝	╬	
লেগুমাৰ্ক*	\square				╬						Н					╬											╬		<u> </u>	╬	壯	╬	
													<u> </u>	لــالـ		<u></u>								<u> </u>			<u> </u>				<u></u>		
নগৰ [*]]		<u></u> তাকঘৰ	*]		জিলা				7		1	\dashv
ৰাজ্য [*]	<u></u>			1	1	1			1					দেশ <mark>*</mark>										_		পিন (কোড*	L	<u> </u>	<u> </u>	上	<u> </u>	
টেলিফোন।																						মাবাই	ল নম্বৰ										

Type of Empire Preserving	C) BUSINESS DETAIL	S:								(No	ote: LLP-Limited Liabili	ity Partı	nership, (PC-One Person Company)					
Command Server Command	1) Type of Entity*		Proprietorship	Partnership	р	Pvt. Ltd. Co.	P	ublic Ltd.	Co.		LLP		OPC		В	ank			NBFC
Society Soci			Mutual Fund Co.	Insurance	Co.	Entity under	Ħ	IUF			Self - Help Group		Non-P	rofit Orgnization	Īτ	rust		$\overline{\sqcap}$	Association (AOP Included)
1 1945			Societies	Clubs			ΪF	oreign Bo	ody	$\overline{\Box}$	University/Institute	Г	Self-E	nployed Professional	\Box_0	thers	(Please	Specify)
Proposed as award was award word flower word flowe	C) व्यापार का विवरण	:					_			(नो	ट: एलएलपी-लिमिटेड	लायबि	- लिटी पार्व	नरशिप, ओपीसी-वन पर्सन	कंपनी)				
Signate Seed	1) इकाई का प्रकार*		स्वामित्व	साझेदारी		प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	4	ब्लिक लिमिटे	ड कंपनी		एलएलपी		ओपीर्स	Ť	बैं	क			एनबीएफसी
Commonition			म्यूचुअल फंड कंपनी	== बीमा कंपर्न	ी		= हि	हेन्द् अविभक्त	न परिवार		स्वयं सहायता समूह	Г	गैर-ला	भकारी संगठन		स्ट			
1) glober geres 1946-bit 1946			सोसायटी	क्लब			_ ਰਿ	देशी निकाय			विश्वविद्यालय/संस्था	ਜ <u> </u>	स्व-नि	योजित पेशेवर	31	ान्य	(कृपया		
Solphorary period Security	C) ব্যৱসায়ৰ বিৱৰণ:									(টো	কা: এলএলপি-সীমিত দায়ব	দ্ধতা অংশ	- ণীদাৰীত্ব, ও	পচি-একক ব্যক্তিৰ কোম্পানী)					
Particular Service S	1) প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰকাৰ*		স্বত্বাধিকাৰীত্ব	অংশীদাৰীত্ব		প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী	প	াব্লিক লিমিটেড	কোম্পান	ì	এলএলপি		ওপিচি		ে	ংক			এনবিএফচি
Particulation Company Section Test Section			মিউচুৱেল ফাণ্ড কোম্পানী	বীমা কোম্পানী	ì	ছেকেণ্ড ৪/ধাৰা 25-ৰ অধীনত প্ৰতিষ্ঠান	<u>ا</u>	ইচইউএফ			স্ব- সহায়ক গোট	\Box	অলাভজ	নক সংগঠন	ৰি	শ্বাস		\Box	সংস্থা (এ.ও.পি. অন্তর্ভুক্ত)
Passend Services Corposity Desires Assentation Desires Enter Desires State Desires S			চ'চাইটীসমূহ	ক্লাবসমূহ			_ বি	দেশী সংস্থা			বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান	F	স্ব-নিয়ো	জিত পেছাদাৰী	অ	ন্যান্যবোৰ	(ভানু	গ্ৰহ কৰি নিদি	ষ্ট কৰক)
Control Colored Foll University Univer	2) Sub-Category*	—— Publi	ic Limited Company	,	As	ssociation	_	Т	rust				Go	vernment		F	Propri	etorsh	ip
Others International Others International Others International Company International Co			Financial Services C	ompany		Business Association			С	harita	ble Trust			Central		5	Self-E	mploye	ed Professional
Private Limited Company Transcript Services Company Transcript			Central/State PSU			Unregistered Association			P	ublic	Trust			State		Į	c	A/CS/I	CWA
Financial Services Company Indiso Commercial Bank Teleminism Trust Characterism Trus			Others(Please Sp	ecify)		Others(Please Specify)		_ [P	rivate	Trust			Local Authority		Ļ	_ L	awyer	
Others Provide Bask Provide Bask Provide Bask Provide Bask Others				-	Ba				R	eligio	us Trust			Board/Autonomous B	Body	Ļ	=		
Secretary Co-cyanative Bank Inclines Recoining Freign Ad Others Personal Secretary		=			Ļ	╡			E	ducat	ional Trust			Quasi Government Bo	ody	Ļ	=		
Crode Co-operative				веспу)	Ļ	≓		Ĺ	_						cify)	_	=		
Non Credit Cooperative Others Phene Double Others Others Phene Double Others					L	╡ .		Ļ			0 0	n Aid	Pa	¬ ·		L		-	
Others Present Greater			·	ative	F	≓ Ť		L	0	thers	(Please Specify)		F			S	elf Er		
विकास स्थापिक संपारी विकास स		=				Utners (Flease Specify)		-					F		cify)	L	-		(I lease openity)
िस्तीय सेता बंगानी	2) उप-श्रेणी*	पब्लि	क निमिटेड कंपनी		ਹਰ	मोमिएशन		ਰ	æc.				_ ਸ਼ਾ				-वामि	त्व	
केट्यार पेशस्य	_,	_			Γ	_		Ĩ	_	रेटेबल	Z#Z		Г						त व्यावसायिक
प्रदेश सिमिट कंपनी किरोप केल कंपनी किराप कर करवार किरोप करवार किरोप कर करवार किराप कर करवार किरोप करवार किरोप कर करवार किरोप कर करवार किरोप कर करवार किरोप करवार किरोप कर करवार किरोप कर करवार किरोप करवार किरोप कर करवार किरोप करवार कर			केंद्र/राज्य पीएसयू			== अपंजीकृत एसोसिएशन		Ī						╡ ¨			Ŧ	रीए/सीप	रस/आईसीडब्ल्यूए
िवितीय दीवा संपत्नी जारण प्रणाणिका के वितिया दीवा संपत्नी जारण प्रणाणिका के वितिया दीवा संपत्नी जारण प्रणाणिका के वितिया दीवा संपत्नी वित्या संपत्नी			अन्य(कृपया निर्वि	ष्ट करें)		अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	_	Ī	नि	जी ट्रस	न्ट			= स्थानीय प्राधिकरण		Ĺ	a	कील	
अस्य (प्रथम विदेश की किस) सिदेशों की सिदेशों की अस्याप्त मारि ट्रंटर अस्याप्त मारि च्रंचर अस्याप्त मारि च्राप्त अस्याप्त मारि च्राप्त मारि च्		—			बैंद	<u>क</u>			धा	र्मिक द	इस्ट		Ē	बोर्ड/स्वायत निकाय		Ĺ	ਤ	ाक्टर	
स्विधारित					L	=			एउ	नुकेशन	ल ट्रस्ट			अर्ध सरकारी निकाय		Į	_	•	
केरिट को-अपिरेटिय केरिट को-अपिरेटिय केरिट को-अपिरेटिय अस्य प्रमाण विकास अस्			* .	ष्ट्र करें)	Ļ	=			<u></u> អា	विष्य वि	नेधि ट्रस्ट				करें)	_	=	-	
जार बहित को आंपरिटत अस्त्र क्षावाचित को अस्त्र क्षावाच के अस्त्र क्षावच के अस्त्र क्षावच के अस्त्र क्षावच के अस्त्र क्षावच के					L	╡ `			वि	देशी स	ाहायता प्राप्त करने वा	ली इका	ईयाँ सा	_		L			
अस्य क्षावा विदेश कर्णा क्षावा विदेश				टेव	F	╡		L	अ	न्य _	(कृपया निर्दिष्ट करें)		F	≓ ĭ		ā Г	त्र्यवसा	य में र	
2) উপ-যোগি পাঠিক লিখিটেত বেশশানী নহয় পাঠিক লিখিটেত বেশশানী কিন্তা দেৱা কেন্দলী কিন্তা দেৱা কৰি কিন্তা কালাবেৰ ক্ষেত্ৰৰ কৰি কৰি কৰি কৰি কৰি কৰি কৰি কৰি কৰি ক						अन्य (कृपया निद्ध कर)		-					F	╡ ँ	करें)	L			(कृपया ानादष्ट कर)
विशेष तथा दरणामी विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष	2\ উপ_দেগলী *	ত্র পারির	চ লিমিটেড কোম্পানী		সং	?স্বা		ล	ਰਿਸ				 5a			-	তা ধিক	ারীত	
बाह्म के दिवा करण क्षात्र करण कि विकास करण का का का का का का करण	2, - 1 34				Γ	_		ſ	_	তব্য ন্য	াস		Ē						ছাদাৰী
ब्राह्म के विभिन्न हिम्म के विभिन्न विभिन्न हिम्म विभाव कर्मा के विभिन्न विभिन्न विभिन्न विभिन्न विभिन्न विभिन्न विभिन्न विभन्न विभिन्न विभिन्न विभिन्न विभिन्न विभिन्न विभन्न			কেন্দ্ৰীয়/ৰাজ্যিক পিএচইউ			পঞ্জীভুক্ত নকৰা সংস্থা		Ī	<u></u> ৰা	জহুৱা নি	বিশ্বাস			ৰাজ্য			ि	টএ/চিএছ/	আইচিডব্লিউএ
हिल्लिक स्था च्याप्तास्थ च्याप्तास्य			অন্যান্যবোৰ এনুগ্ৰহ ক	ৰ নিৰ্দিষ্ট কৰক)		অন্যান্যবোৰ অনুগ্ৰহ কৰি নিৰ্দিষ্ট কৰ	(*	_ [ব্য	ক্তিগত	বিশ্বাস			স্থানীয় কর্তৃপক্ষ			ত	মধিবক্তা	
अवानाहार विशेष व्यक्त विशेष व्यक्त विशेष व्यक्त विशेष व्यक्त विशेष व्यक्त व		প্রাইতে	ভট লিমিটেড কোম্পানী		বে	ংক			4 ²	ৰ্মীয় বিশ্ব	াস			বোর্ড/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা		Į	fi	টকিৎসক	
চাহাইটি সন্ধায় বেছ (জডিট কো.জপাৰেটিছ আছিলিক প্ৰাম্ বেছ আছিলেক প্ৰাম্ বিষ্ট কল আছিলেক প্ৰাম্ বিষ্ট কল আছিলেক প্ৰাম্ বিষ্ট কল আছিলেক প্ৰাম্ বিষ্ট কল আছিলেক প্ৰাম্ বেছ আছিলেক প্ৰাম্ বিষ্ট কল আছিলেক প্ৰাম্ বিষ্ট কল আছিলেক প্ৰাম্ বেছ আছিলেক প্ৰাম্ বিষ্ট কল আছিলেক প্ৰাম্ বিষ্ট কল আছিলেক প্ৰাম্ বেছ আছিলেক প্ৰাম্ বিষ্ট কল আছিলেক প্ৰাম্ বেছ আছিলেক প্ৰাম্ বিষ্ট কল আছিলেক প্ৰাম্ বেছ আছিলেক প্ৰাম্ বিষ্ট কল আলাবেৰ ভ্ৰেছ কৰি বিষ্টা কল আলাবেৰ ভ্ৰেছ কৰি বিছ কল আলাবেৰ ভ্ৰেছ কৰি বিষ্টা কল আলাবেৰ ভ্ৰেছ কৰি বিষ্টা কল আলাবেৰ ভ্ৰেছ কৰি কল আলাবেৰ ভ্ৰেছ কৰি বিষ্টা কল আলাবেৰ ভ্ৰেছ কৰি কল আলাবেৰ ভ্ৰেছ কৰি বিষ্টা কল আলাবেৰ ভ্ৰেছ কৰি বিষ্টা কল আলাবেৰ ভ্ৰুল বিষ্টা কল আলাবেৰ ভ্ৰুল বিষ্টা কল আলাবেৰ ভ্ৰুল কৰি বিষ্ট কল আলাবেৰ ভ্ৰুল বিষ্টা কল আলাবেৰ ভ্ৰুল বিষ্ট কল আলাবেৰ ভ্ৰুল বিষ্টা কল আলাবেৰ ভ্ৰুল কৰি বিজ্ঞ কল আলাবেৰ ভ্ৰুল বিষ্টা কল আলাবেৰ ভ্ৰুল বিষ্ট কল আলাবেৰ ভ্ৰুল কৰি বিজ্ঞ কল আলাবেৰ ভ্ৰুল কৰে বিটিছকল আলাবেৰ ভ্ৰুল বিষ্ট কল আলাবেৰ ভ্ৰুল ব					L	=			ئ	ণক্ষিক -	ন্যাস			অৰ্ধ চৰকাৰী সংস্থা		Ļ	=		
তেনি কান্যবাহিত আঞ্জিলিক প্রান্ধা ব্যবহন আঞ্জিলিক ক্ষা ব্যবহন আল্জিক প্রান্ধা ব্যবহন আল্জিক ক্ষা ব্যবহার বিশ্ব ব্যবহার বিশ্ব ব্যবহার বিশ্ব ব্যবহার বিশ্ব ব্যবহার বিশ্ব ব্যবহার ব্যবহার ব্যবহার বিশ্ব ব্যবহার বিশ্ব ব্যবহার বিশ্ব ব্যবহার ব্যবহার ব্যবহার ব্যবহার বিশ্ব ব্যবহার ব্যবহা		Щ		নিৰ্দিষ্ট কৰক)	Ļ	=			প্র	ভিডেন্ট	ফাণ্ড ট্রাষ্ট				নীষ্ট কৰক)	Ļ	=		
अन्नामादाव (अनुसा की दिवी करण) अनुसा की दिवी करण) अन्नामादाव (अनुसा की दिवी करण) अनुसा का दिवी करण) अनुसा की दिवी करण) अनुसा का दिवी करण) अनुसा की दिवी करण) अनुसा का दिवी करण) अनुसा का दिवी करण का दिवी करण का दिवी करण) अनुसा का दिवी करण) अनुसा की दिवी करण का दिवी करण) अनुसा की दिवी करण का दिवी करण) अनुसा कि दिवी करण) अनुसा कि दिवी करण) अनुसा कि दिवी करण) अनुसा कि दिवी करण) अन		চ'চাহ —			Ļ	=		Ĺ	বি	দেশী স	াহায্য প্ৰাপ্ত কৰা প্ৰতিষ্ঠান	সমূহ	অং	¬ '		L			
3) Industry Type* Automobile Retail Jewellery Fisheries/Poultry Transportation/Logistics Textiles/Garment Fertilizer/chemicals/Seeds/Pesticides Petrol Pump Furnitures/Timber Cement/Paint II/Software/BPO Printing/Publishing Electronics/Computer Hardware Contractor Broking (Equity) Engineering Goods Media/Entertainment Travel/Tour Agency Issue & Portfolio Management Oil Advertising Agency Pharmaceutical Construction Marble/Granite Hospital/Nursing Home/Clinic Consultancy Restaurant Hotels/Resort Steel/Hardware Agricultural Commodities Fast Moving Consumer Goods (FMCG) Education Forex Dealer/Bullion Consumer Durables Dairy/Food Processing Leasing & Hire Purchase Term Lending Institution NBFC Money Lender Shroff/ Money changer Consumer Loan Finance Others (Please Specity) 3) उदयोग का प्रकार अंदिमोबाइल खुदरा आअष्रण मतस्य पालना/कुक्कुट पालन परिवहन/ लॉजिस्टिक वस्त्र/ परिधान उर्वरक/रसायना/बीजाकीटनाशक इकेट्रांत पंप फर्नाचर/इमारती लकड़ी सीमेंट/पेंट आईटी/सॉफ्टवेयर/बीपीओ मुद्रण/प्रकाशन इकेट्रांत होनेयर सामान मीडिया/मनोरंजन यात्रा / यात्रा एजेंसी निर्गम और पोर्टफोलियो प्रवंधन कन्माल्टेसी रेस्टोरेट होटल/रिजोंट स्टील/हाईवेयर कृषि जिंस फास्ट मूर्विंग कंत्र्यूमर गुइस (एफएमसीजी) शिक्षा विदेशी मुद्रा डीकर / बुलियन उपभोकता टिकाऊ वस्तुर्ए डेयरी/खाद्य प्रसंस्करण पट्टे पर देना और किराए पर खरीदना साविए ऋण इकाई					F	╡		L	অ	ন্যান্যবে	গ্ৰাৰ অনুগ্ৰহ কৰি নিৰ্দিষ্ট কৰব	P)	F	= -		م 1	্যৱসায় —	ত স্ব-নি	
3) Industry Type* Automobile Retail Jewellery Fisheries/Poultry Transportation/Logistics Textiles/Garment Fertilizer/chemicals/Seeds/Pesticides Petrol Pump Furnitures/Timber Cement/Paint IT/Software/BPO Printing/Publishing Electronics/Computer Hardware Contractor Broking (Equity) Engineering Goods Media/Entertainment Travel/Tour Agency Issue & Portfolio Management Oil Advertising Agency Pharmaceutical Construction Marble/Granite Hospital/Nursing Home/Clinic Consultancy Restaurant Hotels/Resort Steel/Hardware Agricultural Commodities Fast Moving Consumer Goods (FMCG) Education Forex Dealer/Bullion Consumer Durables Dairy/Food Processing Leasing & Hire Purchase Term Lending Institution NBFC Money Lender Shroff/ Money changer Consumer Loan Finance Others (Please Specify) 3) उद्योग का प्रकार अॉटोमोबाइल खुदरा आधूषण मत्स्य पालन/कुक्कुट पालन परिवहन/ लॉजिस्टिक वस्त्र/ परिधान उर्वरक/रसायन/बीज/कीटनाशक इंलेक्ट्रॉनिक्स/कंप्यूटर हार्डवेयर पेट्रोल पंप फर्नॉचर/इमारती लकड़ी सीमेंट/पेंट आईटी/सॉफ्टवेयर/बीपीओ मृद्धण/प्रकाशन इंलेक्ट्रॉनिक्स/कंप्यूटर हार्डवेयर केकेदार बीकिंग (इक्विटी) इंजीनियरिंग सामान मीडिया/मनोरंजन यात्रा / य			অন্যান্যবোৰ (অনুগ্ৰহ কৰি	নিৰ্দিষ্ট কৰক)		অন্যান্যবোধ (অনুগ্ৰহ কৰা নাগত কৰ	97)	_					F	⊒	নীষ্ট কৰক)	L	-		(0475 44 14140 444)
Petrol Pump Furnitures/Timber Cement/Paint IT/Software/BPO Printing/Publishing Electronics/Computer Hardware Contractor Broking (Equity) Engineering Goods Media/Entertainment Travel/Tour Agency Issue & Portfolio Management Dil Advertising Agency Pharmaceutical Construction Marble/Granite Hospital/Nursing Home/Clinic Consultancy Restaurant Hotels/Resort Steel/Hardware Agricultural Commodities Fast Moving Consumer Goods (FMCG) Education Forex Dealer/Bullion Consumer Durables Dairy/Food Processing Leasing & Hire Purchase Term Lending Institution NBFC Money Lender Shroff/ Money changer Consumer Loan Finance Others अंदिगोन का प्रकार* अंदिगोन का प्रकार* अंदिगोन का प्रकार* अंदिगोन का प्रकार अंदिगोन प्रकार। विज्ञाप का प्रकार अंदिगोन प्रकार। विज्ञाप का प्रकार अंदिगोन प्रकार। विज्ञाप का प्रकार अंदिगोन प्रकार विज्ञाप का प्रकार अंदिगोन प्रकार। विज्ञाप का प्रकार अंदिगोन का प्रका	3) Industry Type*																		
Contractor Broking (Equity) Engineering Goods Media/Entertainment Travel/Tour Agency Issue & Portfolio Management	Automobile		Retail Jewel	lery		Fisheries/Poultry		Tran	sporta	tion/l	ogistics	Te	extiles/0	arment	[Fer	tilizer,	/chemi	cals/Seeds/Pesticides
Oil Advertising Agency Pharmaceutical Construction Marble/Granite Hospital/Nursing Home/Clinic Consultancy Restaurant Hotels/Resort Steel/Hardware Agricultural Commodities Fast Moving Consumer Goods (FMCG) Education Forex Dealer/Bullion Consumer Durables Dairy/Food Processing Leasing & Hire Purchase Term Lending Institution NBFC Money Lender Shroff/ Money changer Consumer Loan Finance Others (Please Specify) 3) उद्योग का प्रकार* अॉटोमोबाइल खुदरा आभूषण मत्स्य पालन/कुक्कुट पालन परिवहन/ लॉजिस्टिक वस्त्र/ परिधान उर्वरक/रसायन/बीज/कीटनाशक पेट्रोल पंप फर्नीचर/इमारती लकड़ी सीमेंट/पेंट आईटी/सॉफ्टवेयर/बीपीओ मृद्धण/प्रकाशन इलेक्ट्रॉनिक्स/कंप्यूटर हार्डवेयर ठेकेदार ब्रोकिंग (इक्विटी) इंजीनियरिंग सामान मीडिया/मनोरंजन यात्रा / यात्रा एजेंसी निर्गम और पोर्टफोलियो प्रबंधन तेल विजापन एजेंसी औषध निर्मण संगमरमर/येनाइट अस्पताल/नर्सिंग होम/क्लिनक कन्सल्टेंसी रस्टोरंट होटल/रिजॉर्ट स्टील/हार्डवेयर कृषि जिंस फास्ट मृविंग कंज्यूमर गुइस (एफएमसीजी) शिक्षा विदेशी मृद्रा डीकर / बृतियन उपभोकता टिकाऊ वस्तुएं डेयरी/खाद्य प्रसंस्करण पट्टे पर देना और किराए पर खरीदना साविंध ऋण इकाई	Petrol Pump		Furnitures/T	imber		Cement/Paint		IT/S	oftwar	e/BP0	0 [Pı	rinting/F	ublishing	[Ele	ctroni	cs/Cor	nputer Hardware
Consultancy Restaurant Hotels/Resort Steel/Hardware Agricultural Commodities Fast Moving Consumer Goods (FMCG) Education Forex Dealer/Bullion Consumer Durables Dairy/Food Processing Leasing & Hire Purchase Term Lending Institution NBFC Money Lender Shroff/ Money changer Consumer Loan Finance Others (Please Specify) 3) उद्योग का प्रकार* अॉटोमोबाइल खुदरा आश्र्षण मतस्य पालन/कुक्कुट पालन परिवहन/ लॉजिस्टिक वस्त्र/ परिधान उर्वरक/रसायन/बीज/कीटनाशक क्षेत्रदां पंप फर्नीचर/इमारती लकड़ी सीमेंट/पेंट आईटी/सॉफ्टवेयर/बीपीओ मुद्राण/प्रकाशन इतेक्ट्रॉनिक्स/कंप्यूटर हार्डवेयर ठेकेदार बोकिंग (इक्विटी) इंजीनियरिंग सामान मीडिया/मनोरंजन यात्रा / यात्रा / यात्रा एजेंसी निर्गम और पोर्टफोलियो प्रबंधन निर्मण संगमरमर/येनाइट अस्पताल/नर्सिंग होम/क्लिनिक कन्सल्टेंसी रस्टोरेंट होटल/रिजॉर्ट स्टील/हार्डवेयर कृषि जिस फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुइस (एफएमसीजी) शिक्षा विदेशी मुद्रा डीलर / बुलियन उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं डेयरी/खाद्य प्रसंस्करण पट्टे पर देना और किराए पर खरीदना साविंध ऋण इकाई					=		L	=			iment	_			ļ				
Education Forex Dealer/Bullion Consumer Durables Dairy/Food Processing Leasing & Hire Purchase Term Lending Institution NBFC Money Lender Shroff/ Money changer Consumer Loan Finance Others (Please Specify) 3) उद्योग का प्रकार* अगेंटोमोबाइल खुदरा आअपूषण मत्स्य पालन/कुक्कुट पालन परिवहन/ लॉजिस्टिक वस्त्र/ परिधान उर्वरक/रसायन/बीज/कीटनाशक केत्वर पंट्रोल पंप फर्नीचर/इमारती लकड़ी सीमेंट/पेंट आईटी/सॉफ्टवेयर/बीपीओ मुद्राण/प्रकाशन इलेक्ट्रॉनिकस/कंप्यूटर हार्डवेयर केत्वर बिजापन एजेंसी इंजीनियरिंग सामान मीडिया/मनोरंजन यात्रा / यात्रा एजेंसी निर्गम और पोर्टफोलियो प्रबंधन निर्मण संगमरमर/येनाइट अस्पताल/नर्सिंग होम/क्लिनिक कन्सल्टेंसी रस्टोरेंट होटल/रिज़ॉर्ट स्टील/हार्डवेयर कृषि जिंस फास्ट मूर्विंग कंज्यूमर गुइस (एफएमसीजी) शिक्षा विदेशी मुद्रा डीलर / बुलियन उपओकता टिकाऊ वस्तुएं डेयरी/खाद्य प्रसंस्करण पट्टे पर देना और किराए पर खरीदना साविध ऋण इकाई			\mathbf{H}	Agency	=		Ļ	=			Į	_			ļ	=			•
NBFC				/D II:	=		Ļ	=			<u>_</u>	=							
3) उद्योग का प्रकार* ऑटोमोबाइल खुदरा आभूषण मत्स्य पालन/कुक्कुट पालन परिवहन/ लॉजिस्टिक वस्त्र/ परिधान उर्वरक/रसायन/बीज/कीटनाशक पेट्रोल पंप फर्नीचर/इमारती लकड़ी सीमेंट/पेंट आईटी/सॉफ्टवेयर/बीपीओ मृद्रण/प्रकाशन इलेक्ट्रॉनिक्स/कंप्यूटर हार्डवेयर ठेकेदार ब्रीकिंग (इक्विटी) इंजीनियरिंग सामान मीडिया/मनोरंजन यात्रा / यात्रा एजेंसी निर्गम और पोर्टफिलियो प्रबंधन तेल विज्ञापन एजेंसी औषध निर्मण संगमरमर/ग्रेनाइट अस्पताल/नर्सिंग होम/क्लिनिक कन्सल्टेंसी रेस्टोरेंट होटल/रिज़ॉर्ट स्टील/हार्डवेयर कृषि जिंस फास्ट मूर्विंग कंज्यूमर गुड़स (एफएमसीजी) शिक्षा विदेशी मृद्रा डीलर / बुलियन उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं डेयरी/खाद्य प्रसंस्करण पट्टे पर देना और किराए पर खरीदना सावधि ऋण इकाई					=		Ļ	_			· ·		-		L	ler	m Ler	nding Ir	istitution
अॉटोमोबाइल खुदरा आभूषण मत्स्य पालन/कुक्कुट पालन परिवहन/ लॉजिस्टिक वस्त्र/ परिधान उर्वरक/रसायन/बीज/कीटनाशक पेट्रोल पंप फर्नीचर/इमारती लकड़ी सीमेंट/पेंट आईटी/सॉफ्टवेयर/बीपीओ मुद्रण/प्रकाशन इतेक्ट्रॉनिक्स/कंप्यूटर हार्डवेयर ठेकेदार ब्रोकिंग (इक्विटी) इंजीनियरिंग सामान मीडिया/मनोरंजन यात्रा / यात्रा एजेंसी निर्गम और पोर्टफोलियो प्रबंधन तेल विजापन एजेंसी औषध निर्मण संगमरमर/ग्रेनाइट अस्पताल/नर्सिंग होम/क्लिनिक कन्सल्टेंसी रेस्टोरेंट होटल/रिज़ॉर्ट स्टील/हार्डवेयर कृषि जिंस फास्ट मूर्विंग कंज्यूमर गुइस (एफएमसीजी) शिक्षा विदेशी मुद्रा डीलर / बुलियन उपओकता टिकाऊ वस्तुएं डेयरी/खाद्य प्रसंस्करण पट्टे पर देना और किराए पर खरीदना साविध ऋण इकाई		r*	Ivioliey Lend	CI	Ш	omon/ woney changer	L	Lons	sumer	LUBII	i mance		mers _	, spoon, /					
पेट्रोल पंप फर्नीचर/इमारती लकड़ी सीमेंट/पेंट आईटी/सॉफ्टवेयर/बीपीओ मृद्धण/प्रकाशन इलेक्ट्रॉनिक्स/कंप्यूटर हार्डवेयर ठेकेदार ब्रीकिंग (इक्विटी) इंजीनियरिंग सामान मीडिया/मनोरंजन यात्रा / यात्रा एजेंसी निर्गम और पोर्टफोलियो प्रबंधन तेल विज्ञापन एजेंसी औषध निर्माण संगमरमर/येनाइट अस्पताल/निर्सेंग होम/क्लिनिक कन्सल्टेंसी रेस्टोरेंट होटल/रिज़ॉर्ट स्टील/हार्डवेयर कृषि जिंस फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुइस (एफएमसीजी) शिक्षा विदेशी मुद्धा डीलर / बुलियन उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं डेयरी/खाद्य प्रसंस्करण पट्टे पर देना और किराए पर खरीदना सावधि ऋण इकाई		. "	खटम भाधवा	л		मतस्य पालन/कक्कट पालन	Г	चित्र	हिन्/	ऑजि	Ica [म्ब्र/ प्री	ੰ ਗਜ	Γ	र्तग	क/उग्रा	यन/बीः	न/कीटनाशक
ठेकेदार ब्रोकिंग (इक्विटी) इंजीनियरिंग सामान मीडिया/मनोरंजन यात्रा / यात्रा एजेंसी निर्गम और पोर्टफोलियो प्रबंधन तेल विज्ञापन एजेंसी औषध निर्माण संगमरमर/येनाइट अस्पताल/नर्सिंग होम/क्लिनिक कल्सल्टेंसी रेस्टोरेंट होटल/रिज़ॉर्ट स्टील/हार्डवेयर कृषि जिंस फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुइस (एफएमसीजी) शिक्षा विदेशी मुद्रा डीलर / बुलियन उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं डेयरी/खाद्य प्रसंस्करण पट्टे पर देना और किराए पर खरीदना सावधि ऋण इकाई					=		F	=				=			I I	=			
तेल विज्ञापन एजेंसी औषध निर्माण संगमरमर/ग्रेनाइट अस्पताल/निर्संग होम/क्लिनिक कन्सल्टेंसी रेस्टोरेंट होटल/रिज़ॉर्ट स्टील/हार्डवेयर कृषि जिंस फास्ट मूर्विंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) शिक्षा विदेशी मुद्रा डीलर / बुलियन उपभोकता टिकाऊ वस्तुएं डेयरी/खाद्य प्रसंस्करण पट्टे पर देना और किराए पर खरीदना साविध ऋण इकाई					=		F	= '				= ĭ	•						•
	=				=	•	F	=		,	Ī	_			ļ	=			
िशिक्षा विदेशी मुद्रा डीलर / बुलियन उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं डियरी/खाद्य प्रसंस्करण पर्टे पर देना और किराए पर खरीदना साविध ऋण इकाई	\vdash		\vdash		\vdash		F	=		यर	Ţ	_		•	Ì	=			
	शिक्षा		विदेशी मुद्रा इ	डीलर / बुलियन		उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	Ī	डेयरी	/खाद्	य प्रसं	स्करण -	= ~		देना और किराए पर खर्र	रीदना	_			
	एनबीएफसी		= -	-		सर्राफ / मुद्रा परिवर्तक		उपभ	ोक्ता	ऋण	वित्त [- ਤ	ान्य	(कृपया निर्दिष्ट करें)		-			

3) উদ্যোগৰ প্ৰকাৰ*				
গাড়ী ৰিটেইল জুৱেলাৰী	মীন পালন/কুকুৰা পালন	পৰিবহন/লজিষ্টিক	বস্ত্ৰ/পোছাক	সাৰ/ৰাসায়নিক পদাৰ্থ/বীজ/কীটনাশক
পেট্রুল পাম্প আচবাব/কাঠ	চিমেন্ট/পেইন্ট	আইটি/ছফ্টৱেৰ/বিপিও	মুদ্রণ/প্রকাশন	ইলেক্ট্ৰনিক্স/কম্পিউটাৰ হাৰ্ডৱেৰ
ঠিকাদাৰ ব্ৰোকিং (ইকুইটি)	অভিযান্ত্ৰিক প্ৰডাক্ট	মিডিয়া/মনোৰঞ্জন	ভ্ৰমণ/যাত্ৰা সংস্থা	ইছ্যু আৰু পৰ্টফলিঅ' মেনেজমেন্ট
তেল বিজ্ঞাপন সংস্থা	ফার্মাচিউটিকেল	নিৰ্মাণ	মাৰ্বল/থেনাইট	চিকিৎসালয়/নার্চিং হোম/ক্লিনিক
পৰামৰ্শ বিষ্টুৰেন্ট	হোটেল/ৰিজট	ষ্টীল/হার্ডৱেৰ	কৃষিজাত প্রডাক্ট	দ্রুত গতিত চলি থকা উপভোক্তা প্রডাক্ট (এফএমচিজি)
শিক্ষা ফৰেক্স ডিলাৰ/বুলিয়ন	উপভোক্তা দীর্ঘম্যাদী	দুগ্ধজাত/খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ	লীজত আৰু ভাড়াত ক্ৰয়	টার্ম লেণ্ডিং ইনষ্টিটিউছন
এনবিএফচি ধন ঋণদাতা	শ্ৰফ/ মানি চেঞ্জাৰ	উপভোক্তা ঋণ বিত্ত	অন্যান্যবোৰ (অনুগ্ৰহ কৰি নিৰ্দিষ্ট কৰক)	
4) Nature of Business* Manufacturing	Service Provider Stock Brok	ker Real Estate Tradir	g (Retail/Wholesale) Jewellery/B	ullion Others (Please Specify)
,	सेवा प्रदाता शियर दलाव		र (खुदरा / थोक) अभूषण/बृलि	
	সেৱা প্ৰদানকাৰী টিক ব্ৰোকাৰ		খুচুৰা/পাইকাৰী) গহনা/বুলিয়ন	অন্যান্যবোৰ (অনুগ্ৰহ কৰি নিৰ্দিষ্ট কৰক)
4) Variat 43/10		110.11 (000	200200	-10106111
5) Whether involved in Export Y	Import Y N	IEC Code (If yes)		
5) क्या इसमें शामिल है निर्यात 📉 🔃	आयात 📉 🔃	आईईसी कोड (यदि हाँ)		
5) ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত আছে নে নাই ৰপ্তানি Y N	আমদানি Y N	আইইচি কোড (যদি হয়)		
				<u>'</u>
6) Annual Turnover (₹in Lakhs)*: Upto 25	25 to 50	50 to 100	100 to 500 Abov	e 500
6) वार्षिक कारोबार ('लाख में)* : 25 तक	25 社 50	50 社 100	100 社 500 500	से ऊपर
6) বাৰ্ষিক টাৰ্ণজ্ঞাভাৰ ('লাখত)*: 25 লৈকে	25 ৰ পৰা 50	50 ৰ পৰা 100	100 ৰ পৰা 500 500-ৰ	ওপৰত
7) No. of years in Business*: <1 Year	1 to <3 Years	3 to <5 Years	5 to <10 Years ≥10	Years
7) व्यवसाय में रहने के वर्षों की संख्या*:	ी से <3 वर्ष	3 से <5 वर्ष	5 से <10 वर्ष ≥10	
7) ব্যৱসায়ত বছৰৰ সংখ্যা*: <	1 ৰ পৰা <3 বছৰ	3 ৰ পৰা <5 বছৰ	5 ৰ পৰা <10 বছৰ ≥10 ব	
				<u> </u>
8) Source of funds*: Business Income	Donations/Grants	Others (Please Specify	<u> </u>	
8) निधियों का स्रोत*: व्यावसायिक आर	व दान/अनुदान	अन्य (कृपया निर्दिष्ट	करें)	
8) পুঁজিৰ উৎস*: ব্যৱসায়িক উপাৰ্জন	দান/অনুদান	অন্যান্যবোৰ (অনুগ্ৰহ কৰি নিৰ্দিষ্ট :	P(Ф)	
D) CONTACT DETAILS & CHANNEL REGISTRATION:				
Mobile Number*				
E-Mail ld				
Channel Registration* Retail Internet Bank Access for the following channel: ^ Subject to Terms ar		Corporate Internet Banking (Relevant CIB form to be filled)	Debit Card* (Relevant Debit Card form to be filled)	Y N Cheque Book Required* Y N
SMS Alerts		Mobile Banking ^	Email Statement required	YN
(All accounts linked to the CIF ID of my/our account will be regi				t on E-mail statement registration. I/We confirm on others
terms/conditions applicable to e-mail statement Registration. I/we hereby confirm that all communications to this account			communicate with us on the same.	
In case of any change in the contact details, the same will be				
D) संपर्क विवरण और चैनल पंजीकरण:				
मोबाइल नंबर*				
ई-मेल आईडी				
^{२-नल जा२ठा}			डेबिट कार्ड*	
निम्नलिखित चैनल की उपलब्धता: ^ नियम एवं शर्तों के 3	Y I IV	(संबंधित सीआईबी फॉर्म भरना होगा)	(संबंधित डेबिट कार्ड फॉर्म भरना होगा)	Y N चेक बुक आवश्यक है* Y N N
एसएमएस अलर्ट		मोबाइल बैंकिंग ^	ईमेल स्टेटमेंट आवश्यक है	Y
(मेरे / हमारे खाते की सीआईएफ आईडी से जुड़े सभी खातों को संपर्क ि अन्य नियमों / शर्तों पर पुष्टि करते हैं। बचत खाते के लिए, केवल त्रैम		स्टेटमेंट के लिए पंजीकृत किया जाएगा)। हम ज	ानते हैं कि ईमेल स्टेटमेंट पंजीकरण होने पर कागजी	विवरण नहीं भेजे जाएंगे। मैं/हम ईमेल स्टेटमेंट पंजीकरण पर लागू
मैं / हम इसके द्वारा पुष्टि करते हैं कि इस खाते के सभी संचार	उपर्युक्त संपर्क विवरणों पर भेजे जाएंगे।		द करने के लिए अधिकृत करते हैं।	
पर्क विवरण में किसी भी बदलाव के मामले में, आवश्यक दस्तावे	जा क साथ उपयुक्त रूप स इसका सूचना	दा जाएगा		
D) যোগাযোগৰ বিৱৰণ আৰু চেনেল পঞ্জীয়ন:				
মাবাইল নম্বৰ*				
ই-মেইল আইডি				
চেনেল পঞ্জীয়ন* ৰিটেইল ইন্টাৰনেট বেঙ্কিং	Y I IV	কৰ্পোৰেট ইন্টাৰনেট বেঙ্কিং প্ৰাসঙ্গিক চিআইবি প্ৰপত্ৰ পুৰণ কৰিব লাগিব)	ডেবিট কাৰ্ড* (প্ৰাসঙ্গিক ডেবিট কাৰ্ড প্ৰপত্ৰ পুৰণ কৰিব লাগিব)	Y N চেক বহীৰ প্ৰয়োজন* Y N
নিম্নলিখিত চেনেলৰ বাবে প্ৰৱেশাধিকাৰ: ^ চৰ্ডাঞ্জী আৰু নিয়মাঞ্জী সা SMS সতৰ্কবাৰ্তা		মাবাইল বেঙ্কিং ^ স্বিশ কাৰৰ লাগৰ) \[\]	(খ্ৰাসাঙ্গক ডোবচ কাভ প্ৰপত্ৰ পূৰণ কাৰব লাগিব) ই-মেইল বিবৃতিৰ প্ৰয়োজন	
(মোৰ/আমাৰ একাউন্টৰ চিআইএফ আইডিৰ সৈতে সংযোজিত সকলো একাউন্ট যো			। এইল বিবৃতি পঞ্জীয়নত ভৌতিক বিবৃতি প্ৰেৰণ কৰা নহ'ব। মই/আমি	——। ই-মেইল বিবৃতি পঞ্জীয়নৰ বাবে প্ৰযোজ্য আন চৰ্তাৱলী/নিয়মাৱলী নিশ্চিত কৰো।
মই/আমি ইয়াৰ দ্বাৰা নিশ্চিত কৰো যে, এই একাউণ্টলৈ সকলো যোগাযোগ ওপৰো যোগাযোগৰ বিৱৰণত কোনো পৰিৱৰ্তন হ'লে, প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰৰ সৈতে ইয়াক উ		ক্ষক এই বিষয়ে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ কৰ্তৃত্ব	প্ৰদান কৰোঁ।	

E) INITIAL FUNDING DETAILS: Mode of Payment* Cash Cheque Direct Debit from own USFB A/C NEFT/RTGS (from own A/C with other bank) (To open account with cash, customer must deposit the cash in person in A/c opening branch only) Amount (*)* (In words)
Cheque Date D D M M Y Y Drawn on D D M M Y Y Bank Name Branch
Account No. & Name* *USFB a/c in case of direct transfer/ Account No. Account No. Account No.
other own bank a/c in case of NEFF/RTGS RTGS/NEFT UTR No. Date of Transaction* in case of Casts/NEFT/RTGS/Direct debit Applicant(s) Signature only for Direct Debit from own A/c
E) प्रारंभिक वित्त पोषण विवरण: भुगतान का तरीका* ि नकद ि चेक ि अपने यूएसएफबी खाते से प्रत्यक्ष डेबिट ि एनईएफटी/आरटीजीएस (अन्य बैंक में धारित अपने खाते से) (नकदी से खाता खोलने के लिए, ग्राहक को केवल खाता खोलने वाली शाखा में व्यक्तिगत रूप से नकद जमा करना अनिवार्य होगा) राशि (₹)*
चेक संख्या चेक की तारीख D D M M Y Y इस पर आहरण D D M M Y Y बैंक का नाम शाखा
खाता संख्या और नाम* 'धन्यव अंतर्ग के मानते में यूपसण्डवी बात संख्य' खाता सं. खाता नाम
"पर्व्यव्योक्षादेजीएस के ममने में स्वयं के खता आरटीजीएस/एनईएफटी यूटीआर संख्या* लेन-देन की तारीख* केश्यन्वंश्यदेजीएस/प्रमुख्य डेबिट के मामने में
E) প্ৰাৰম্ভিক পূঁজিৰ বিৱৰণ: পৰিশোধৰ মোড*
এই এক ট্ৰ. থকেৰত জনান নিয়া বেজ একটন আনট্টিজএছ্য এনই একট ইউটিআৰ নম্বৰ লেনদেনৰ তাবিষ* নম্পা এনই একটা আন্টিজিএছ ভাইনেই ভেন্টিৰ কেৱল নিজৰ একটন্টৰ পৰা পোনপটীয়া ভেবিটৰ বাবে স্বাহ্মৰ
F) TERM DEPOSIT ACCOUNT: (Note: Applicable only for new to Bank (NTB) customer, giving the request for standalone FD creation. Not applicable along with acount opening request.) Instruction for Term Deposit FD Type: Callable Non-callable Product Code Deposit Amount (₹) Rate of Interest % Period: Months Days Amount in words
Auto renewal : Y N (If yes) Maturity Instruction: Renew Principal & Interest Payout: At Maturity Monthly Quarterly
Repayment Details: Through DD Incase the maturity/interest payout opted through demand draft, it will be delivered to communication address of entity. Value Date D D M M Y Y Y Y Account with Other Bank
(Copy of passbook/cancelled cheque should be enclosed) IFSC Bank Name Branch Name TDS Detail: Deduct TDS Y N (If no please submit the TDS exemption document) Form 15G Income tax exemption letter Y N Validity of exemption letter Note: 1) Interest payment is subject to RBI guidelines from time to time. 2) Please refer the latest interest rate chart at the branch or visit www.utkarsh.bank. 3) Interest payment is subject to tax deduction at source.
F) साविध जमा खाताः (नोट: स्टैंडअलोन एफडी निर्माण के लिए अनुरोध देने वाले केवल बैंक के लिए नए (एनटीबी) ग्राहक के लिए लागू। खाता खोलने के अनुरोध के साथ लागू नहीं है।) साविध जमा के लिए निर्देश साविध जमा कॉल करने का प्रकार: योग्य योग्य योग्य योग्य व्याज की दर % अविध: महीने दिन
शब्दों में राशि
पुनर्भुगतान विवरण: डीडी के यदि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से परिपक्वता/ब्याज भुगतान का विकल्प चुना जाता है, तो इसे इकाई के संचार पते पर भेजा किया जाएगा। मूल्यन तिथि 🔘 🔘 📉 🤘 📉
अन्य बैंक में खाता

ম্যাদী ছেভিংছ একাউ-ট েটোকা: একক এফডি সৃষ্টিৰ বাবে অনুৰোধ প্ৰদান কৰি কেৱল কেৱ (এনচিবি) গ্ৰাহকৰ বাবে নতুনৰ বাবে প্ৰযোজ্য। একাউ-ট খোলাৰ অনুৰোধৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহয়।)	
ম্যাদী জমাৰ বাবে নিৰ্দেশনা এফডি প্ৰকাৰ: কল কৰিব পৰা কল কৰিব নোৱাৰা প্ৰভাক্ট কোড	
জমাৰ পৰিমাণ (₹)	সময়: মাহ
আখৰত পৰিমাণ	
স্বয়ং নৱীকৰণ : 🛛 🔃 🔃 (যদি হয়) ম্যাদপূৰ্তিৰ নিৰ্দেশনা: মূলধন আৰু সূত নৱীকৰণ কৰক: 🔃 মূল নৱীকৰণ কৰক	সূত পৰিশোধ: ম্যাদপূৰ্তিৰ সময়ত 📗 মাহিলী 📗 বৈমাসিক 📗
পৰিশোধৰ বিৱৰণ:	
ভিডিৰ জৰিয়তে 🔃 যদি ভিমাণ্ড ড্ৰাফ্টৰ জৰিয়তে ম্যাদপূৰ্তি/মৃত পৰিশোধ বাছনি কৰা হয়, ইয়াক প্ৰতিষ্ঠানৰ যোগাযোগ ঠিকনালৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব।	মান তাবিখ DD MM MYYYY
অন্যান্য বেঙ্কত থকা একাউন্ট একাউন্ট	
(পাছবুজ-বাতিল কৰা চেকৰ প্ৰতিনিপি সংক্ষা কৰিব লাগে)	
আইএফএচটি বিংকৰ নাম	শাখাৰ নাম
টিভিএছ বিৱৰণ:টিভিএছ কৰ্তন কৰক 🛛 🔃 (যদি নহয় অনুগ্ৰহ কৰি টিভিএছ বেহাই দন্তাবেজ দাখিল কৰক) প্ৰপত্ৰ 15G 💮 আয়কৰ বেহাই পত্ৰ 📉	ৰেহাই পত্ৰৰ বৈধতা
টোকা: 1) সময়ে সময়ে ভাৰতীয় বিজ্ঞাৰ্ভ বেষৰ নিৰ্দেশনা সাপেক্ষে সূত পৰিশোধাজনুগুহ কৰি শাখাত শেহতীয়া সূতৰ হাৰৰ চাউখন চাঙক বা www.utkarsh.bank ত ভিজিট কৰক। সূত পৰিশোধ উৎসত কৰ কৰ্তন সাপেক্ষে।	

G) TERMS & CONDITIONS:

We have read and understood the below T&C and understand that any changes to the T&C will be available on the website www.utkarsh.bank only. These terms and conditions apply to and regulate the operations of the Savings & Current, Fixed deposit. Non-Individual Account (here in after mentioned as "Non-Individual Account/s") offered by the Bank to Customers. These terms and conditions ("Terms) shall be in addition and subject to any other terms as stipulated by the Bank from time to time.

1. Definitions: In these terms and conditions, the following words and phrases have the meaning stated here under unless indicated otherwise:

- a) "Account" refers to the Non-Individual Account by eligible entities i.e., Savings Account (Non-Individuals/Trusts/eligible Government bodies)& Current account (Other than Individual Current Accounts).
- b) "Account Opening Form" (AOF) refers to the respective relationship forms for Non-Individual Account products.
- c) "Customer refers to any person/entity/authorized signatory holding an Account.
- d) "Month" shall mean a month reckoned according to the British calendar.
- e) "Quarter" shall mean a financial quarter i.e. April June, July—September, October— December, January—March in any financial year.
- Services" shall mean the various services that may be offered by the Bank in connection with the Account and are more particularly referred to/described in these Terms and/or on the website.
- g) "Services Directory" shall mean and include the media by which details about the charges and the rates at which the services are provided for the respective types of Account available.
- h) "Website" refers to the website owned, established and maintained by Bank at the URL www.utkarsh.bank.

Interpretation:

- a) All references to singular include plural and vice versa and the word "includes" should be construed as "without limitation".
- b) Words indicating any gender include the other gender.
- c) Reference to any statute, ordinance or other law includes all regulations and other instruments and all consolidations, amendments, re-enactments or replacements for the time being in force.
- d) All headings, bold typing and italics (if any) have been inserted for convenience of reference only and do not define limit or affect the meaning or interpretation of these Terms.
- e) Words "Utkarsh Bank", "the Bank", refer to Utkarsh Small Finance Bank Limited.

2. Applicability of Terms:

The terms and conditions ("Terms") set out below, together with the AOF, account charges and any other conditions which may be implied by law shall govern the operation of the Non-Individual account and other related services offered by the Bank to the Customer. By applying for opening the Account, the Customer acknowledges that he / she has read, understood and accepted these terms and conditions, which form a part of the Customer's application to the Bank.

Tax deduction at source

- a) In case of renewed deposits, the new deposit amount consists of the original deposit amount plus interest less Tax Deducted at Source (TDS) if any, less compounding effect of TDS. For reinvestment deposit, the interest reinvested is post TDS recovery and hence the maturity amount for reinvestment deposits would vary to the extent of tax and compounding effect on tax for the period subsequent to deduction till maturity. If Deposit is opened under Monthly/Quarterly Interest Payment Mode, then the renewed deposit shall not comprise of the interest part.
- b) No deduction of tax shall be made for taxable interest in the case of Non-individual resident in India, if such Non-individual furnishes to the Bank, a declaration in writing in the prescribed form 15G (as applicable, with PAN CARD details) to the effect that the tax on his/her estimated total income for the year in which such interest income is to be included in computing his/her total income will be NIL. TDS rates will be as applicable from time to time as per the Income Tax Act, 1961 and Income Tax rules (which are subject to change as per directives of Ministry of Finance, Govt. of India). If TDS is not to be deducted, please submit Income Tax Exemption letter along with this Form.
- c) Form 15G is required to be submitted separately for each financial year.
- d) The Bank shall not be liable for any consequences or loss arising due to delay or non-submission of form 15G.
- e) As per section 139A(5A) of the income Tax Act, every person receiving any sum of income or amount from which tax has been deducted under the provision of income tax act shall provide his/her PAN number to the person responsible for deducting such tax. In case the PAN number is not provided the Bank shall not be liable for the non availment of the credit of tax deducted at source.
- f) PAN is required to be submitted to the Bank for Fixed deposit of ₹50,000/- or more.
- g) PAN is required to be submitted to the Bank at a time of Term Deposit of amount exceeding ₹5,00,000 or once and/or the aggregate Term Deposit amount (including accrued interest) in a financial year exceeds ₹5,00,000/- with the Bank. In case, the PAN number is not provided to the Bank, the Bank shall not be liable for the non-availment of credit of Tax deducted at source and non-issuance of TDS certificate
- h) As per section 206 AA introduced by Finance (no.2) Act. 2009 w.e.f. 01.04.2010, every person who receive income on which TDS is deductible shall furnish his/her PAN falling which TDS shall be deducted as at the rate of 20% in case of domestic deposits "Please further note that the absence of PAN, form 15G and other exemption certificate will be invalid even if submitted & penal TDS will be applicable."
- i) The above terms and conditions are subject to change as per regulatory guidelines issued from time to time.
- j) A new section 206AB introduced in the Finance Bill, 2021 w.e.f. 01. 07.2021 for deduction of tax at source at higher rates i.e 20% (for interest on deposit where prevailing TDS rate is 10%) if an amount is paid or payable to the specified person who did not file the income tax return for respective year as mentioned in said section.
- k) The extant TDS law requires tax to be deducted in case the projected interest exceeds threshold limit (₹50,000/- for senior citizens and ₹40,000/- for others). This threshold limit is to be calculated at the time of payment/credit of interest. Subsequently, in case the total interest falls below the threshold limit due to premature withdrawal of one or more FDs, the TDS deducted on earlier occasions will not be refunded. The deposit holder can claim the credit for TDS while filing his/her income tax return.

Note- the above is subject to change as per directives of Ministry of Finance, Govt. of India. Above points shall not be applicable in case of Partnership firms and Corporates.

Account opening/service provision: All services, including opening of the account are subject to verification of information/documents provided by us. In the event of non-opening of the account, initial funding if any made by cash shall be refunded by means Demand Draft (or) as per extant guidelines. Existing Customer ID: In case of existing customers, the Bank reserves the right to tag the new account with the existing customer ID without any prior intimation.

Services: The complete list of services available to me/us will be available on www.utkarsh.bank and changes if any will also be updated in the bank's website. Fees & Charges: We consent to pay the charges as levied by the bank and applicable levies and taxes (stipulated by Govt. of India) and communicated by the Bank from time to time. The Bank shall be at liberty to deduct the said amount from the Customer's account without any notice. Change in Fees, Charges & Services: Any change/discontinuation of Fees & Charges, Services, or Interest Rate will be intimated to us well in advance through letter/SMS/website/email or other means.

Recovery: If no sufficient balance is available in the account to pay fees/charges, we authorize Utkarsh Small Finance Bank Ltd. to set off against any sanctioned facility and shall have the first right of such set off from any credit into the said account. The Bank shall have the right to suspend the operations of the account without notice in accordance with the provisions of the accepted Banking Law and practice in the case of any regulatory dictum and/or violation of the Laws and regulations and/or due to any suspicious transactions of any nature in the view of the Bank. The Bank shall have the right to close the Account without notice if the account remains inoperative and if there is no balance as stipulated by the Bank from time to time as stipulated and agreed upon. The Bank has also the right to demand a closure of the account if the conduct of the account is not found to be satisfactory by the Bank. In such an event the Bank shall not be liable for any loss, damages which we may occur directly or indirectly. The Bank is under obligation to honour all statutory requests/demands and they override all services/facilities being provided by the Bank. The Bank/branch is under obligation to debit/freeze/ close the account if stipulated/mandated by the statutory authorities in writing and the bank/branch will not be responsible for any cheque returns/loss of business for complying with such statutory requests.

Transactions: We are aware that the Bank is not bound to take note of any instructions with regard to the account or ancillary to the account as received by the Bank from any non-registered and/or unauthorized channels. In the event of any such rejection based on any instructions so received from any non-registered or unauthorized channels the Bank shall not be liable for any loss, damages which we may occur directly or indirectly on account of the rejection.

Cheque Book: The Bank reserves the right to suspend the issuance of fresh cheque books if the Bank is of the opinion that the conduct of the account is not satisfactory and instruments are dishonoured for want of funds. Cheque books will be couriered directly to the mailing address given by the Customer provided all formalities are completed. Subsequent cheque books can be requisitioned through the requisition leaf available in the cheque book or through ATMs subject to satisfactory conduct of the Account. Cheque books are normally issued free of cost, however, Bank reserves the right to refuse payment of cheques that have been altered in any way unless the alteration is authenticated by the drawer under full signature as per specimen on record with Bank. Cheques should be drawn in such a way as to prevent alteration after issue and the drawer's signature should be uniform with that on record. Bank will record and accept instructions from the drawer for stopping payment requests against cheque/s that are lost, stolen, or not required to be paid against, only if such instructions are received from the drawer by the Bank, prior to presentment of such cheques at the Bank or in the case of e-cheques, only if the stop payment requests are logged prior to payment of moneys against the same, and Bank shall not be responsible in any manner whatsoever for any losses caused, or payments made, if the cheques are presented for payment to Bank prior to receipt of instructions, if any, from the drawer of the case of e-cheques, if the stop payment requests are logged after payment against such cheques has been initiated by Bank. Bank may charge Service charge for such countermanding instructions. Bank may dishonour and/or return cheques unpaid which are altered, if considered by the Bank to be ambiguous or suspicious in any way, or if received for payment more than three months after the date the cheque is drawn. Customer should issue cheque is may be levied by Bank. If any cheque deposited by the Customer is returned unpaid,

Corporate Internet Banking: For Corporate Internet Banking (as and when made available by the bank), the workflow rules would be common for all transaction type. Corporate Internet Banking will be given to every user who have applied for Corporate Internet Banking. View Access: View access option on Corporate Internet Banking includes Account related information and all other access option introduced from time to time as may be decided by the Bank. Transaction Access: Transaction access option on Corporate Internet Banking includes transfer between own accounts, Inter Bank Fund Transfer (for e.g. non Utkarsh Small Finance Bank Account Holder through RTGS/NEFT), Salary upload etc. and other services offered by the Bank. The bank/branch will not be held responsible for the misuse of any such facility. Further, We understand that the security of such information lies with the account Holder/s.

Retail Internet Banking (For proprietorship firms): Please note that the terms acconditions pertaining to retail internet banking as mentioned below will be applicable in case of proprietorship concerns. Disclaimer for Utkarsh Small Finance Bank Internet Banking: "I/We acknowledge that the issue, usage of Utkarsh Small Finance Bank Internet Banking facility is governed by terms a conditions in force from time to time as set forth on the www.utkarsh.bank and agree to abide by the same. I/We am/are aware that Utkarsh Small Finance Bank Ltd does not seek any information relating to login ID/Password/PIN/CVV/OTP etc. in any form including through e-mails from its customers. I/We further agree and confirm that Utkarsh Small Finance Bank shall not be liable for any losses arising from my/our sharing/disclosing of login ID, password, cards, card numbers or PIN (Personal Identification Number) to anyone, nor shall make claims on the bank for any unauthorized use. I/We shall take all precautions to protect my/our account details so as to avoid any unauthorized use.

Transaction Access. Statement via E-mail (Free): In case if the customer has opted for Email statement it will be sent once a month and shall be sent to registered E-mail ID. And in all such cases no physical statement shall be couriered/dispatched. Alerts on Mobile (SMS Banking): SMS Banking will be given by default at the time of account opening. This service is free for initial One month which ceases on the last day of the month. Please refer to the schedule of charges as the SMS Banking is a Chargeable Service.

Important Note: Escrow, Dividend, IPO, Settlement, or any other account decided by bank as applicable from time to time cannot be given Transaction access on channel Services.

G) नियम एवं शर्तै:

हमने नीचे दिए गए नियम एवं शर्तों को पढ़ा और समझा है और समझते हैं कि नियम एवं शर्तों में कोई भी बदलाव केवल वेबसाइट www.utkarsh.bank पर उपलब्ध होगा। ये नियम एवं शर्तें बचत और चालू, सावधि जमा के संचालन पर लागू होती हैं और 🛛 इन्हें विनियमित करती हैं। गैर-ट्यक्तिगत खाता (यहां "गैर-ट्यक्तिगत खाता" के रूप में उल्लिखित) बैंक द्वारा ग्राहकों को पेश किया जाता है। ये नियम एवं शर्ते ("शर्ते) बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किसी भी अन्य शर्तों के अतिरिक्त और अधीन होंगी।
1. परिभाषाएँ इन नियमों और शर्तों में, जब तक कि अन्यथा इंगित न किया गया हो, निम्नलिखित शब्दों और वाक्यांशों का अर्थ यहां बताया गया है:

- "खाता" पात्र इकाइयाँ द्वारा गैर- व्यक्तिगत खाते को संदर्भित करता है अर्थात बचत खाता (गैर- व्यक्तिगत / ट्रस्ट / पात्र सरकारी निकाय) और चालू खाता (व्यक्तिगत चालू खातां के अलावा)।
- "खाता खोलने का फॉर्म" (एओएफ) गैर-व्यक्तिगत खाता उत्पादों के लिए संबंधित संबंध रूपों को संदर्भित करता है। b)
- "ग्राहक. खाता रखने वाले किसी भी व्यक्ति / इकाई / अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को संदर्भित करता है। c)
- "महीने" का अर्थ ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार माना जाने वाला महीना होगा। d)
- "तिमाही" का अर्थ किसी भी वितीय वर्ष में एक वितीय तिमाही यानी अप्रैल-जून, जुलाई-सितंबर, अक्टूबर-दिसंबर, जनवरी-मार्च होगा। e)
- f) "सेवाओं" का अर्थ उन विभिन्न सेवाओं से होगा जो बैंक दवारा खाते के संबंध में प्रदान की जा सकती हैं और इन शर्तों और / या वेबसाइट पर विशेष रूप से संदर्भित / वर्णित हैं।
- "सेवा निर्देशिका" का अर्थ होगा और इसमें ऐसा मीडिया शामिल होगा जिसके द्वारा शुल्कों और उन दरों के बारे में विवरण दिया जाएगा जिन पर, उपलब्ध संबंधित प्रकार के खाते के लिए सेवाएं प्रदान की जाती हैं। g)
- "वेबसाइट" बैंक के स्वामित्व वाली, स्थापित और अन्रक्षित वेबसाइट को संदर्भित करती है जो यूआरएल www.utkarsh.bank पर है। h)

- एकवचन के सभी संदर्भों में बहवचन और इसके विपरीत शामिल हैं और शब्द "शामिल" को "बिना सीमा के" माना जाना चाहिए। a)
- किसी भी लिंग को इंगित करने वाले शब्दों में अन्य लिंग शामिल हैं। b)
- किसी संविधि, अध्यादेश या अन्य विधि के संदर्भ में उस समय प्रवर्तित सभी विनियम और अन्य लिखत तथा सभी समेकन, संशोधन, पुन: अधिनियमन या प्रतिस्थापन शामिल हैं।
- सभी शीर्षक, बोल्ड टाइपिंग और इटैलिक (यदि कोई हो) केवल संदर्भ की सुविधा के लिए डाले गए हैं और इन शर्तों की सीमा या अर्थ या व्याख्या को परिभाषित या प्रभावित नहीं करते हैं। d)
- शब्द "उत्कर्ष बैंक", "बैंक", उत्कर्ष लघु वित बैंक लिमिटेड को संदर्भित करते हैं। e)

खाता खोलने के फॉर्म (एओएफ), खाता शुल्कों और किसी भी अन्य शर्तों के साथ नीचे निर्धारित नियम एवं शर्ते "शर्त") जो कानून द्वारा निहित हो सकती हैं, गैर-व्यक्तिगत खाते के संचालन और बैंक द्वारा ग्राहक को दी जाने वाली अन्य संबंधित सेवाओं को निर्यात्रित करेंगी। खाता खोलने के लिए आवेदन करके, ग्राहक स्वीकार करता है कि उसने इन नियमों और शर्तों को पढ़ा, समझा और स्वीकार किया है, जो बैंक के लिए ग्राहक के आवेदन का एक हिस्सा हैं।

स्रोत पर कर कटौती

- a) नवीनीकृत जमाराशियों के मामले में, नई जमा राशि में मूल जमा राशि और स्रोत पर ब्याज रहित कर कटौती (टीडीएस) यदि कोई हो में से टीडीएस के चक्रवृद्धि प्रभाव को घटाने पर आने वाला परिणाम हैं। पुनर्निवेश जमा के लिए, पुनर्निवेशित ब्याज का परिकलन टीडीएस वसूली के बाद किया जाता है और इसलिए पुनर्निवेश जमा के लिए परिपक्वता राशि, परिपक्वता राशि, परिपक्वता तक कटौंनी के बाद की अवधि के लिए कर और कर पर चक्रवृद्धि प्रभाव की सीमा तक परिवर्तनशील 🛮 होगी। यदि जमा मासिक / मैमासिक ब्याज भुगतान मोड के तहत खोला जाता है, तो नवीनीकृत जमा में ब्याज का हिस्सा शामिल नहीं होगा।
- b) भारत में गैर-व्यक्तिगत निवासी के मामले में कर योग्य ब्याज के लिए कर की कोई कटौती नहीं की जाएगी, यदि ऐसा गैर-ट्यक्ति बैंक को निर्धारित फॉर्म 15 जी (जैसा कि लागू हो, पैन कार्ड विवरण के साथ) में लिखित में एक घोषणा प्रस्तुत करता है कि उसकी अनुमानित कुल आय पर कर, उस वर्ष के लिए कर जिसमें ऐसी ब्याज आय को उसकी कुल आय के परिकलन में शामिल किया जाना है, शून्य होगा। टीडीएस दरें आयकर अधिनियम, 1961 और आयकर नियमों (जो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं) के अनुसार समय-समय पर लागू होंगी। यदि टीडीएस नहीं काटा जाना है, तो कृपया इस फॉर्म के साथ आयकर छूट पत्र जमा करें।
- c) फॉर्म 15 जी प्रत्येक वितीय वर्ष के लिए अलग से प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- त) बैंक फॉर्स 15 जी के देरी में जमा होने या ग्रैर-जमा करने के कारण उत्पन्न होने वाले किमी भी परिणाम या हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- e) आयक्त अधिनियम की धारा 139 ए (5 ए) के अनुसार, आयक्त अधिनियम के प्रावधान के तहत आय की कोई भी राशि या राशि जिसमें से कर काटा गया है, प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, अपना पैन संख्या उस व्यक्ति को प्रदान करना होगा जो इस तरह के कर की कटौती के लिए जिम्मेदार होगा। यदि पैन संख्या प्रदान नहीं किया जाता है तो बैंक स्रोत पर काटे गए कर का क्रेडिट ग्राहक को प्राप्त नहीं होने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- f) ₹50,000/- या उससे अधिक की सावधि जमा के लिए बैंक को पैन प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- त्र रेठ,000 भी अधिक की सावधि जमा के समय या एक वार और/या किसी वितीय वर्ष में कुल सावधि जमा राशि (अर्जित ब्याज सहित) बैंक के पास ₹5,00,000/- से अधिक हो जाती है तो पैन बैंक में जमा करना आवश्यक है। यदि बैंक को पैन संख्या प्रदान नहीं किया जाता है, तो सोत पर काटे गए कर का क्रेडिट ग्राहक को प्राप्त नहीं होने और टीडीएस प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
- h) वित (सं.2) अधिनियम, 2009 दुवारा दिनांक 01.04.2010 से शुरू की गई धारा 206 एए के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर टीडीएस कटौली योग्य है, उसे अपना पैन प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर जिसमें घरेलू जमाओं के मामले में 20% की दर से टीडीएस काटा जाएगा। कृपया आर्ग ध्यान दें कि पैन की अनुपस्थिति में, फॉर्म 15जी और अन्य छूट प्रमाण पत्र अमान्य होंगे, भले ही वे जमा किया गए हों और दंडात्मक टीडीएस लागू होगा। i) उपर्युक्त नियम एवं शर्ते समय-समय पर जारी विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं।
- .j) 01. 07.2021 से वित विधेयक, 2021 में एक नई धारा 206एबी पेश की गई हैं जिसके अनुसार यदि यदि उक्त धारा में उल्लिखित संबंधित वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने वाला निर्दिष्ट व्यक्ति को राशि का भृगतान किया जाता है या देय है तो उच्च दरों अर्थात 20% (जमा पर ब्याज के लिए जहां प्रचलित टीडीएस दर 10% है) पर स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी।
- k) वर्तमान टीडीएस कानून में अनुमानित ब्याज सीमा (विरष्ठ नागरिकों के लिए रॅ50,000/- और अन्य के लिए रॅ40,000/-) से अधिक होने की स्थिति में कर कटौती की आवश्यकता होती है। इस सीमा की गणना ब्याज के भुगतान/क्रेडिट के समय की जानी होती है। इसके बाद, यदि एक से अधिक सावधि जमा की समय पूर्व निकासी के कारण कुल ब्याज सीमा से नीचे चला जाता है, तो पहले के अवसरों पर काटा गया टीडीएस वापस नहीं किया जाएगा। जमा धारक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते समय टीडीएस के लिए केडिट का दावा कर सकता है।

नोट- उपर्युक्त प्रावधान वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार परिवर्तन के अधीन है। उपर्युक्त बिंदु साझेदारी फर्मों और कॉपीरेट कंपनियों के मामले में लागू नहीं होंगे।

खाता खोलमे/सेवा का प्रावधानः खाता खोलने सहित सभी सेवाएं हमारे दवारा प्रदान की गई जानकारी / दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन हैं। खाता नहीं खलने की स्थिति में, प्रारंभिक वितपोषण, यदि कोई नकद दवारा किया गया है, तो डिमांड इाफ्ट के माध्यम से (या) मौजदा दिशानिदेशों के अनुसार वापस कर दिया जाएगा। मौजूदा ग्राहक आईडी: मौजूदा ग्राहकों के मामले में, बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के नए खाते को मौजूदा ग्राहक आईडी के साथ टैंग करने का अधिकार सरक्षित रखता है।

सेवाएँ. मेरे/हमारे लिए उपलब्ध सेवाओं की पूरी सूची www.utkarsh.bank पर उपलब्ध होगी और यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसे बँक की वेबसाइट में भी अपडेट किया जाएगा। शुल्क और प्रभार: हम बँक द्वारा लगाए गए और समय-समय पर बँक द्वारा सूचित किए प्रभारों और लागू शुल्कों और करों (भारत सरकार द्वारा निर्धारित) का भृगतान करने के लिए सहमत हैं। बैंक बिना किसी सूचना के याहक के खाते से उक्त राशि काटने के लिए स्वतंत्र होगा। शुल्कों, प्रभारों और सेवाओं में परिवर्तन: शुल्कों और प्रभारों, सेवाओं, या ब्याज दर के किसी भी बदलाव / बंद होने के बारे में हमें पत्र / एसएमएस / वेबसाइट / ईमेल या अन्य माध्यमों से पहले से सूचित किया जाएगा।

बसुती: यदि शुल्कों / प्रभारों का भुगतान करने के लिए खाते में कोई पर्याप्त शेष राशि उपलब्ध नहीं है, तो हम उत्कर्ष समांल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को किसी भी स्वीकृत सुविधा के खिलाफ सेट ऑफ करने के लिए अधिकृत करते हैं और उक्त खाते में किसी भी क्रेडिट से इस तरह के सेट ऑफ का पूला अधिकार होगा। बैंक को किसी विनियामक आदेश और/या कानूनों और विनियमों के उल्लंघन और/या बैंक की हष्टि में किसी श्री प्रकार के संदिरध लेन-देन के मामले में बैंकिंग के स्वीकृत नियमों और व्यवहार के प्रावधानों के अनुसार बिना कोई सूचना दिए खाते के संचालन करने का अधिकार होगा। यदि खाता निष्क्रिय रहता है और यदि बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित और सहमति के अनुसार कोई शेष राशि नहीं है तो बैंक को बिना किसी सूचना के खाता बंद करने का अधिकार होगा। बैंक के पास यह श्री अधिकार है कि यदि बैंक द्वारा खाते का संचालन संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो खाते को बंद करने की मांग की जा सकती है। ऐसी स्थिति में बैंक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तो लिक्सी भी हानि, क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। बैंक सभी वैधानिक अनुरोधां/मांगों का सम्मान करने के लिए बाध्य है और वे बैंक द्वारा प्रदान की जा रहीं सभी सेवाओं सुविधाओं को ओवरराइड करते हैं। बैंक/शाखा वैधानिक प्राधिकारियाँ द्वारा लिखित रूप में निर्धारिता/अधिदेशित किए जाने पर खाते को डेबिटा/फीज/बंद करने के लिए बाध्य है और ऐसे वैधानिक अनुरोधों का अनुपालन करने के लिए बैंक/शाखा किसी भी चेक रिटर्न/व्यवसाय के नकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

के निवादेत : हमें जानकारी हैं कि बैंक किसी भी गैर-पंजीकृत और/या अनिधकृत चैनलों से खाते या सहायक खाते के संबंध में बैंक द्वारा प्राप्त किसी भी अनुदेश पर ध्यान देने के लिए बाध्य नहीं हैं। किसी भी गैर-पंजीकृत या अनिधकृत चैनलों से प्राप्त किसी भी निर्देश के आधार पर ऐसी किसी भी अस्वीकृति की स्थिति में, अस्वीकृति के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो सकने वाले किसी भी नुकसान, क्षति के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
चेक बुक: यदि बैंक की राय है कि खाते का संचालन संतोषजनक नहीं है और धन की कमी के कारण लिखतों को अस्वीकृत किया जाता है तो बैंक को नई चेक बुक जारी करने को निलंबित करने का अधिकार प्राप्त है । सभी औपचारिकताएं पूरी होने पर चेक बुक सीधे ग्राहक द्वारा दिए गए

पत्राचार पते पर क्रियर की जाएंगी। खाते का संचालन संतोषजनक होने पर, चेक ब्क में उपलब्ध मांग पत्र के माध्यम से या एटीएम के माध्यम से बाद की चेक बुक मांगी जा सकती हैं। चेक बुक आमतौर पर मुफ्त में जारी की जाती हैं, हालांकि, बैंक के पास मांगी गई चेक बुक की लागत वसूलने का अधिकार सुरक्षित है। चेक पर परिवर्तन, यदि कोई हो, तो ऐसे प्रत्येक परिवर्तन के खिलाफ चेक आहरणकर्ता के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। वैंक उन चेकों का अनुगतान करने से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जिन्हें किसी भी तरह से बदल दिया गया है जब तक कि बैंक के रिकॉर्ड पर उपलब्ध नमूने के अनुसार पूर्ण हस्ताक्षर के तहत चेक आहरणकर्ता द्वारा परिवर्तन को प्रमाणित नहीं किया जाता है। चेक इस तरह से तैयार किए जाने चाहिए कि जारी होने के बाद परिवर्तन को रोका जा सके और आहरणकर्ता के हस्ताक्षर बैंक के रिकॉर्ड पर मौजूद उसके हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए। जो खो गए हैं, चारी हो गए हैं, या जिन्हें भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, बैंक उन चेकों के विरुद्ध भुगतान अनुरोधों को रोकने के लिए आहरणकर्ता से निर्देशों को केवल तभी रिकॉर्ड और स्वीकार करेगा, जब ऐसे निर्देश ऐसे चेकों को बैंक में प्रस्तुत किए जाने से पहले प्राप्त होते हैं या ई-चेक के मामले में उनके खिलाफ बैंक द्वारा धन का भुगतान किए जाने से पहले स्टॉप पेमेंट अनुरोध लॉग किए जाते हैं। और यदि चेक के आहरणकर्ता से निर्देश, यदि कोई दिया गया है, प्राप्त होने से पहले बैंक को भुगतान के लिए चेक प्रस्तुत किए जाते हैं या ई-चेक के मामले में निर्देश प्राप्त होने से पहले यदि ऐसे चेक के खिलाफ भुगतान के खिलाफ भुगतान के बाद स्टॉप पेमेंट अनुरोध लॉग किए जाते हैं तो बैंक किसी भी तरह से नुकसान या किए गए भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। बैंक ऐसे प्रत्यायोजन निर्देशों के लिए सेवा प्रभार वस्त्र सकता है। बैंक उन चेकों को अनादिरत कर सकता है और/या लौटा सकता है, जिनमें किसी प्रकार का बदलाव दिखाई देता है, यदि बैंक द्वारा जिन्हें किसी भी तरह से अस्पष्ट या संदिग्ध माना जाता है, या यदि चेक तैयार होने की तारीख के तीन महीने से अधिक समय बाद भृगतान के लिए प्राप्त किया जाता है। ग्राहक को रिटर्न/अनादर से बचने के लिए खाते में धन की पूर्व व्यवस्था करने के बाद ही खाते में चेक जारी करना चाहिए। यदि किसी ग्राहक दवारा जारी चेक को खाते में अपर्याप्त शेष राशि होने या चेक की राशि व्यवस्थाओं से अधिक होने के कारण वापस किया जाना आवश्यक हो जाता है, तो बैंक द्वारा जुर्माना / प्रभार लगाया जा सकता है। यदि ब्राह्म द्वारा जमा किया गया कोई चेक बिना भूगतान के वापस कर दिया जाता है, तो ब्राहक से लागू करों सहित सेवा शून्क वसूल किया जा सकता है। खाते में बड़ी संख्या में रिटर्ना/अनादर के मामले में, बैंक विशिष्ट खातों के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है। यदि कोई/कई चेक अपयोप्त निधियों के कारण वापस कर दिया जाता है/कर दिए जाते हैं तो बैंक उत्तरदायी नहीं है क्योंकि बैंक/शाखा ने वैधानिक अनुरोधों का अनुपालन किया है।

कॉपिरट इंटरनेट बैंकिंग: कॉपिरट इंटरनेट बैंकिंग के लिए (जब भी बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जाता है), वर्कप्तलो नियम सभी लेनदेन प्रकारों के लिए एक जैसे होंगे। कॉपिरट इंटरनेट बैंकिंग हर उस उपयोगकर्ता को दी जाएगी जिसने कॉपीरेट इंटरनेट बैंकिंग के लिए आवेदन किया है। एक्सेस देखें: कॉपीरेट इंटरनेट बैंकिंग पर एक्सेस विकल्प देखें में खाते से संबंधित जानकारी और बैंक द्वारा समय-समय पर शुरू किए गए अन्य सभी एक्सेस विकल्प शामिल हैं। ट्रांजेक्शन एक्सेस: कॉपीरेट इंटरनेट बैंकिंग पर एक्सेस विकल्प में स्वयं के खातों के बीच ट्रांसफर, इंटर बैंक फंड ट्रांसफर (उदाहरण के लिए आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से गैर-उत्कर्ष लघू वित बैंक खाता धारक के लिए), वेतन अपलोड आदि और बैंक दवारा दी जाने वाली अन्य सेवाएं शामिल हैं। ऐसी किसी भी सुविधा के दुरुपयोग के लिए बैंक/शाखा को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। इसके अलावा, हम समझते हैं कि ऐसी जानकारी की स्रक्षा की जिम्मेदारी खाताधारक की होती है।

बुदरा इंटरनेट बैंकिंग (स्वामित्व फर्मों के लिए) कृपया ध्यान दें कि खुदरा इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित नीचे उल्लेख की गई नियम एवं शर्ते स्वामित्व संबंधी चिंताओं के मामले में लागू होंगी। उत्कर्ष लघु वित बैंक इंटरनेट बैंकिंग के लिए अस्वीकरण: "मैं / हम स्वीकार करते हैं कि उत्कर्ष लघु वित बैंक इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग समय-समय पर लागू नियमों और शतौं दवारा शासित होता है जैसा कि www.utkarsh.bank पर निर्धारित किया गया है और इसका पालन करने के लिए सहमत हैं। हमें जानकारी है कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ई-मेल सहित किसी भी माध्यम से किसी भी रूप में अपने ग्राहकों से लॉगिन आईडी/पासवर्ड/पिन/सीवीगीओटीपी आदि से संबंधित कोई सूचना नहीं मांगता है। मैं/हम आगे सहमत हैं और पुष्टि करते हैं कि उत्कर्ष लघु वित बँक मेरे/हमारे द्वारा किसी को लॉगिन आईडी, पासवर्ड, कार्ड, कार्

लेन-देन एक्सेस। ई-मेल के माध्यम से विवरण (नि: शुल्क): यदि ग्राहक ने ईमेल स्टेटमेंट का विकल्प चुना है तो इसे महीने में एक बार भेजा जाएगा। और पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा। और ऐसे सभी मामलों में कोई कागजी विवरण क्रियर / प्रेषण के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। मोबाइल पर अलर्ट (एसएमएस बैंकिंग: खाता खोलते समय एसएमएस बैंकिंग डिफॉल्ट रूप से दी जाएगी। यह सेवा प्रारंभिक एक महीने के लिए मुफ्त है जो महीने के अंतिम दिन समाप्त हो जाती है। कृपया शुल्कों की अनुसूची देख क्योंकि एसएमएस बैंकिंग एक शुल्क योग्य सेवा है।

महत्वपूर्ण नोट : एस्क्रो, डिविडेंड, आईपीओ, निपटान (सेटलमेंट), या बैंक द्वारा समय-समय पर तय किए गए किसी अन्य खाते को चैनल सेवाओं पर लेनदेन पहुंच नहीं दी जा सकती है।

G) চৰ্তাৱলী আৰ নিয়মাৱলী:

অমি তলৰ চৰ্তাৰলী আৰু নিয়মাৱলী পঢ়িছোঁ আৰু বুজি পাইছো যে চৰ্তাৰলী আৰু নিয়মাৱলী -ত যিকোনো পৰিৱৰ্তন কেবল ৱেবছাইটতছে উপলৱ হ'ব। এই চৰ্তাৱলী আৰু নিয়মাৱলী জমা আৰু চলিত, ফিব্লড ডিপজিটৰ কাৰ্যকলাপত প্ৰযোজ্য আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয়। বেক্লে গ্ৰাহকসকলক আগবঢ়োৱা অ-ব্যক্তিগত একাউন্ট (ইয়াত "অ-ব্যক্তিগত একাউ-ট/বোৰ" বুলি উল্লেখ কৰাৰ পিছত)।এই চৰ্তাৱলী আৰু নিয়মাৱলী ("চৰ্তাৱলী) সময়ে সময়ে বেঙ্কে নিৰ্ধাৰণ কৰা আন যিকোনো চৰ্তাৱলীৰ উপৰিও আৰু সেই অনুসৰি হ'ব।

1. সংজ্ঞা: এই পৰিভাষা আৰু নিয়মাৱলীত, নিম্নলিখিত শব্দ আৰু বাক্যাংশবোৰৰ অৰ্থইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যদিহে অন্যথা সূচিত কৰা নহয়:

- a) "একাউন্ট" হৈছে যোগ্য প্ৰতিষ্ঠানৰ দ্বাৰা অ-ব্যক্তিগত একাউন্ট অৰ্থাৎ, ছেভিংছ একাউন্ট (অ-ব্যক্তি/ন্যাস/যোগ্য চৰকাৰী সংস্থা)আৰু চলিত একাউন্ট (ব্যক্তিগত চলিত একাউন্ট ৰাহিবে)।
- b) "একাউ-ট খোলা প্ৰপত্ৰ" (এ.ও.এফ.) হৈছে অ-ব্যক্তিগত একাউ-ট প্ৰভাক্টৰ সংশ্লিষ্ট সম্পৰ্ক প্ৰপত্ৰ।
- c) "গ্ৰাহক" বলিলে একাউ-ট থকা যিকোনো ব্যক্তি/প্ৰতিষ্ঠান/কৰ্তৃত্বপ্ৰাপ্ত স্বাক্ষৰকাৰীক বুজায়।
- d) "মাহ"ৰ বুলিলে ব্ৰিটিছ কেলেণ্ডাৰ অনুসৰি গণনা কৰা এক মাহক বুজায়।
- e) "কোৱাৰ্টাৰ"ৰ বুলিলে এক বিত্তীয় তিনিমাহ অৰ্থাৎ যিকোনো বিত্তীয় বৰ্ষত এপ্ৰিল জুন, জুলাই-ছেপ্টেম্বৰ, অক্টোবৰ- ডিচেম্বৰ, জানুৱাৰী-মাৰ্চক বুজায়।
- "সেৱাসমূহ"ৰ বুলিলে একাউণ্টৰ সন্দৰ্ভত বেঙ্কে আগবঢ়োৱা বিভিন্ন সেৱা আৰু এই চৰ্ডাৱলী আৰু বা ৱেবছাইটত অধিক বিশেষভাৱে উল্লেখ/বৰ্ণনা কৰা হৈছে। f)
- g) "সেৱা ডাৰেক্টৰী"ৰ বুলিলে সেই মাধ্যম অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব যাৰ দ্বাৰা উপলব্ধ সংশ্লিষ্ট প্ৰকাৰৰ একাউন্টৰ বাবে সেৱাবোৰ প্ৰদান কৰা মাচুল আৰু হাৰৰ বিষয়ে বিৱৰণ দিয়া হ'ব।
- h) "ৱেবছাইট" বলিলে www.utkarsh.bank ত বেন্ধৰ দ্বাৰা মালিকানাধীন, প্ৰতিষ্ঠিত আৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰা ৱেবছাইট।

वत्राश्चतः

- a) একবচনৰ সকলো প্ৰসংগত বহুবচন আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে আৰু "অন্তৰ্ভুক্ত" শব্দটোক "সীমাবদ্ধতা অবিহনে" বুলি গণ্য কৰিব লাগে।
- b) যিকোনো লিংগ সূচিত কৰা শব্দবোৰৰ ভিতৰত আছে অন্যান্য লিংগ
- c) যিকোনো আইন, অধ্যাদেশ বা অন্যান্য আইনৰ প্ৰসংগত সকলো নিয়ম আৰু অন্যান্য সঁজুলি আৰু সকলো একগ্ৰীকৰণ, সংশোধন, পুনৰ-প্ৰণয়ন বা প্ৰযোজ্য সময়ৰ বাবে সলনি অন্তৰ্ভুক্ত থাকে।
- d) সকলো শিৰোনাম, বোল্ড টাইপিং আৰু ইটালিক (যদি থাকে) কেৱল প্ৰসংগৰ সুবিধাৰ বাবে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আৰু ই চৰ্ভাৱলীৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ নকৰে বা ইয়াৰ অৰ্থ বা ব্যাখ্যাক প্ৰভাৱিত নকৰে।
- e) "উৎকর্ষ বেঙ্ক", "বেঙ্ক" শব্দবোৰে উৎকর্ষ স্মাল ফাইনেন্স বেঙ্ক লিমিটেডক বুজায়।

তলত নিৰ্মাৰণ কৰা চৰ্তাৱলী আৰু নিয়মাৱলী ("চৰ্তাৱলী") এওএফ্, একাউ-উ মাচল আৰু আইনৰ দ্বাৰা বুজাব পৰা আন যিকোনো চৰ্তাৱলীৰ সৈতে বেল্লে গ্ৰাহকক আগবঢ়োৱা অ-বাজ্ঞিগত একাউ-উ আৰু অন্যান্য সম্পৰ্কিত সেৱাৰ পৰিচালনা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব। একাউ-উ খোলাৰ বাবে আৱেদন কৰি, গ্ৰাহকে স্বীকাৰ কৰে যে তেওঁ এই চৰ্তাৱলী আৰু নিয়মাৱলী পঢ়িছে, বুজি পাইছে আৰু গ্ৰহণ কৰিছে, যি বেঙ্কলৈ গ্ৰাহকৰ আবেদনৰ এক অংশ।

উৎসত কৰ কৰ্তন

- b) ভাৰতত অ-ব্যক্তিগত আৱাসীৰ ক্ষেত্ৰত কৰমোগা সূত্ৰ বাবে কৰ কৰ্তন কৰা নহ'ব, যদি এনে অ-ব্যক্তিয়ে বেঞ্চক প্ৰদান কৰে, নিৰ্ধাৰিত প্ৰপন্ন 15Go (প্ৰযোজ্য অনুসৰি, পেন কাৰ্ডৰ বিৱৰণৰ সৈতে) লিখিতভাৱে ঘোষণা কৰা হ'ব যে তেওঁৰ/তাইৰ মুঠ আয় গদানাত তেওঁৰ আনুমানিক মুঠ উপাৰ্জন অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। আয়কৰ আইন, 1961 আৰু আয়কৰ নিয়ম অনুসৰি সময়ে সময়ে টিভিএছ হাৰ প্ৰযোজ্য হ'ব (যিবোৰ ভাৰত চৰকাৰৰ বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি পৰিৱৰ্তন সাপেকে)। যদি টিভিএছ কৰ্তন কৰিব নালাগে, অনুপ্ৰহ কৰি এই প্ৰপন্নৰ সৈতে আয়কৰ বেহাই পত্ৰ দাখিল কৰক।
- c) প্ৰপত্ৰ 15G প্ৰতিটো বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে পথকে দাখিল কৰিব লাগিব।
- d) প্ৰপত্ৰ 15G-ত পলম বা দাখিল নকৰাৰ ফলত উদ্ভৱ হোৱা যিকোনো পৰিণাম বা লোকচানৰ বাবে বেঙ্ক দায়বদ্ধ নহ'ব।
- e) আয়কৰ আইনৰ ধাৰা 139A(5A) অনুসৰি, আয়কৰ আইনৰ ব্যৱস্থাৰ অধীনত যিকোনো পৰিমাণৰ উপাৰ্জন বা পৰিমাণৰ প্ৰাপ্ত কৰা প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে এনে কৰ কৰ্তনৰ বাবে দায়বন্ধ নাপেন মন্ত্ৰ প্ৰদান কৰা নহয় তেন্তে উৎসত কৰ্তন কৰা কৰ ক্ৰেডিট প্ৰাপ্ত নকৰাৰ বাবে বেঙ্ক দায়বন্ধ নহ'ব।
- f) 50,000/- বা অধিক ফিক্সড ডিপজিটৰ বাবে বেন্ধৰ ওচৰত পেন দাখিল কৰিব লাগিব।
- g) এক বিত্তীয় বৰ্ষত '50,000 বা এবাৰ আখুবা মুঠ ম্যাদী জমাৰ পৰিমাণ (জমা কৰা সূত সহ) বেন্ধৰ সৈতে 5,00,000/- অতিজম কৰাৰ সময়ত বেন্ধৰ ওচৰত ম্যাদী জমাৰ সময়ত পেন দাখিল কৰিব লাগিব। যদি, পেন নম্বৰ বেন্ধক প্ৰদান কৰা নহয়, বেন্ধ উৎসত কৰ্তন কৰা কৰ জেডিট প্ৰাপ্ত নকৰা আৰু টিভিএছ প্ৰমাণপত্ৰ জাৰী নকৰাৰ বাবে দায়বন্ধ নামবা
- h) বিত্ত (নং 2) আইনৰ দ্বাৰা প্ৰৱৰ্তন কৰা ধাৰা 2006 AA অনুসৰি। 2009 চনৰ পৰা 01.04.2010 তাৰিখে, যিসকল ব্যক্তিয়ে টিভিএছ হ্ৰাস যোগ্য উপাৰ্জন প্ৰাপ্ত কৰে তেওঁলোকে তেওঁৰ পেন পৰিশোধ কৰিব যিটো ঘৰুৱা জমাৰ ক্ষেত্ৰত 20% হাৰত টিভিএছ কৰ্তন কৰা হ'ব "অনুগ্ৰহ কৰি আৰু মন কৰিব যে পেন, প্ৰপন্ত 15G আৰু অন্যান্য বেহাই প্ৰমাণপত্ত ৰখাৰ নাথাকিলে, সেইয়া দঙনীয় হ'ব।"
- i) সময়ে সময়ে জাৰী কৰা নিয়ামক নিৰ্দেশনা অনুসৰি ওপৰোক্ত চৰ্তাৱলী আৰু নিয়মাৱলী সলনি সাপেক্ষে হ'ব।
- jj) বিত্তীয় বিধেয়ক, 2021 অৰ্থাং 01 তাৰিখে এক নতুন ধাৰা 206AB উত্থাপন কৰা হৈছে। উচ্চ হাৰত উৎসত কৰ কৰ্তনৰ বাবে 07.2021 অৰ্থাং 20% (জমাৰ সূতৰ বাবে য'ত প্ৰচলিত চীউএছ হাৰ 10%), যদি নিৰ্দিষ্ট বাক্তিজনক পৰিশোধ কৰা হয় বা পৰিশোধ কৰিব লগা হয় যিয়ে উল্লেখ কৰা শাখাত উল্লেখ কৰা অনুসৰি সংশ্লিষ্ট বছৰৰ বাবে আয়কৰ বিটাৰ্গদেখিল কৰা নাছিল।
- k) প্ৰত্যাশিত সূত্ৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিলে (জ্যাষ্ট নাগৰিকৰ বাবে 50,000/- আৰু আনৰ বাবে 40,000/- টকা) হ'লে কৰ কৰ্তন কৰিব লাগিব। সূত পৰিশোখকেউটৰ সময়ত এই প্ৰেছহোল্ড সীমা গণনা কৰিব লাগিব। পৰৱৰ্তী সময়ত, যদি এক বা একাধিক একভি অকালতে প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ বাবে মুঠ সূত্ৰ সীমাৰ তললৈ যায়, আগৰ সময়ত কৰ্তন কৰা চিভিএছ ঘূৰাই দিয়ানহ'ব৷ জমা ধাৰকে তেওঁৰ আয়কৰ বিটাৰ্গ দাখিল কৰোঁতে টিভিএছৰ বাবে ক্ৰেডিট দাখী কৰিব পাৰে।

টোকা- ভাৰত চৰকাৰৰ বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি ওপৰোক্তবোৰ পৰিৱৰ্তন সাপেক্ষে হয়। অংশীদাবী প্ৰতিষ্ঠান আৰু কৰ্পোৰেটৰ ক্ষেত্ৰত ওপৰৰ বিষয়বোৰ প্ৰযোজ্য নহ'ব।

একাউ-ঠি খোলাদেবাৰ ব্যৱস্থা: একাউ-ঠি খোলাকে ধৰি সকলো সেৱা আমাৰ হাৰা প্ৰদান কৰা তথ্যনেথিপত্ৰৰ প্ৰমাণীকৰণ সাপেকে হয়। একাউ-ঠিটো নোখোলাৰ ক্ষেত্ৰত, যদি নগদ ধনৰ দ্বাৰা কৰা যিকোনো ধন প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট (বা)ৰ উপায়েৰে ঘূৰাই দিয়া হ'ব। বিদামান গ্ৰাহক আইডি: বিদামান গ্ৰাহক ৰ ক্ষেত্ৰত, বেক্কে কোনো আগতীয়া খবৰ অবিহনে বৰ্তমানৰ গ্ৰাহক আইডিৰ সৈতে নতুন একাউ-ঠিটো টোগ কৰাৰ অধিকাৰ সংৰক্ষিত বাখে।

সেৱাসমূহ: মোৰ আমাৰ বাবে উপলব্ধ সেৱাসমূহৰ সম্পূৰ্ণ তালিকা খন www.utkarsh.bank ত উপলব্ধ হ'ব আৰু যদি কোনো এটা বেশ্বৰ বেবছাইটত আপডেট কৰা হ'ব তেনেহ'লে পৰিৱৰ্তন হ'ব। মাচুল আৰু শুৰ্ক; আমি বেশ্বৰ দ্বাৰা আৰোপ কৰা মাচুল আৰু প্ৰয়োজা শুৰু আৰু কৰ্ ভোৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত) পৰিশোধ কৰিবলৈ সমাতি দিওঁ আৰু সময়ে সময়ে বেছে যোগাযোগ কৰে। বেশ্বৰ কোনো জাননী অবিহনে গ্ৰাহকৰ একাউন্টৰ পৰাউক্ত পৰিমাণটো কৰ্তন কৰাৰ হাগীনতা থাকিব। মাচুল, শুৰু আৰু পৰিৱৰ্তন- মাচুল আৰু শুৰু, সেৱা, বা সূতৰ হাৰৰ যিকোনো পৰিৱৰ্তন-ৰক্ষ আমাক পঞ্চাপ্ৰস্তাৰ বিশ্বৰ আমাক বিশ্বৰ আমাক

পুনৰুষ্কাৰ: যদি মাচুল'শুল্ক পৰিশোধ কৰিবলৈ একাউন্টত পৰ্যাপ্ত বেলেপ উপলৱ নহয়, আমি উৎকৰ্ষ সাল ফাইনেপ বেন্ধ লিমিটেডক যিকোনো অনুমোদিত সুবিধাৰ বিপৰীতে ছেট অফ কৰিবলৈ কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰোঁ আৰু যিকোনো ঞেডিটৰ পৰা উক্ত একাউন্টলে এনে ছেট অফৰ প্ৰথম অধিকাৰ থাকিব। যিকোনো থকুতিৰ সন্দেহজনক লেনদেনৰ বাবে অনুশীলনৰ ব্যৱস্থা অনুসৰি জাননী অবিহনে একাউন্টৰ কাৰ্যকলাপ স্থণিত ৰখাৰ অধিকাৰ বাধিব বাধিব কাইন আইন আইন আইন আইন আইন অনুসৰি সময়ে সময়ে বেঙ্কে নিৰ্ধাৰিত কৰা অনুসৰি বেলেপ নাথাকে তেনেহ'লে বেন্ধৰ জাননী অবিহনে একাউনটো বন্ধ কৰাৰ অধিকাৰ থাকিব। বেন্ধৰ দ্বাৰা একাউন্টৰ পৰিচালনা সন্তোখজনক নহ'লে একাউনটো বন্ধ কৰাৰ দাখী কৰাৰ অধিকাৰও বেন্ধৰ আছে। এনে পৰিস্থিতিত আমি প্ৰতাজ বা পৰোকভাৱে হ'ব পৰা যিকোনো লোকচান, কৃতিৰ বাবে বেন্ধ দাখা কৰাৰ বাধ্য বিশ্ব কৰাৰ বাধ্য বাধ্য কৰাৰ বাধ্য বিশ্ব কৰাৰ বিশ্ব কৰাৰ বাধ্য বিশ্ব কৰাৰ বিশ্ব কৰাৰ বিশ্ব কৰাৰ বিশ্ব কৰাৰ বাধ্য বিশ্ব কৰাৰ বাধ্য বিশ্ব কৰাৰ বাধ্য বিশ্ব কৰাৰ বিশ্ব কৰাৰ বাধ্য বিশ্ব কৰাৰ বাধ্য বিশ্ব কৰাৰ বি

লেন্দেনসমূহ: আমি অৱগত যে বেছে যিকোনো অনা-পঞ্জীভুক্ত আধু বা অননুমোদিত চেনেলৰ পৰা প্ৰাপ্ত কৰা একাউ-উৰ আনুজিক সন্দৰ্ভত কোনো নিৰ্দেশনা মন কৰিবলৈ বাধ্য নহয়। যিকোনো অনা-পঞ্জীভুক্ত বা অননুমোদিত চেনেলৰ পৰা প্ৰাপ্ত কৰা যিকোনো ওপৰত আধাৰিত কৰি এনে ধৰণৰ যিকোনো প্ৰত্যাখ্যানৰ ক্ষেত্ৰত বেছ কোনো লোকচান, ক্ষতিৰ বাবে দায়বন্ধ নহৰ যিবোৰ আমাৰ প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে প্ৰত্যাখ্যানৰ বাবে ঘটিৰ পাৰোঁ।

চেক ৰহী: বেছে নতুন চেক বহী জাৰী কৰা স্থাপিত ৰখাৰ অধিকাৰ সংৰক্ষিত ৰাখে যদি বেছে সত পোখণ কৰে যে একাউ-টটোৰ পৰিচালনা সপ্তোখজনক নহয় আৰু পুঁজিৰ অভাৱত সঁজুলিবাৰ অসন্মানিত কৰা হয়। সকলো আনুষ্ঠানিকতা সম্পূৰ্ণ হ'লে গ্ৰাহকে দিয়া মেইলিং চিক নহীলৈৰ সোনা নাম কৰে কৰি লাকি। চেক বহী বাৰুল চিক কৰি লাকি। চেক বহী কৰা হয়। তেলে চেক বহীৰ মূল পুনৰুজন কৰাৰ অধিকাল সংৰক্ষিত কৰা কে পৰিচালনা সাপেলক এটিএমৰ জৰিয়তে দুখাৰৰ স্বাক্ষৰ কৰিব পাৰি। চেক বহী নাম কৰিব লাবি। চেক বহী নাম কুল কৰিব পাৰি। চেক বহী কৰা হয়। কৰিব লাবি। চেক বহীৰ মূল পুনৰুজন কৰাৰ অধিকাল সংৰক্ষিত কৰিব লাবি। কৰিব লাবি। চেক বহীৰ মূল পুনৰুজন কৰাৰ অধিকাল সংৰক্ষিত কৰিব লাবি। বছল কৰিব লাবি লাবু ভ্ৰমাৰৰ হাল কৰে কৰ্ভত কৰিব পাৰি লাবু ভ্ৰমাৰৰ হালৰ বেক তৰ্ভত কৰিব পাৰি লাবু ভ্ৰমাৰৰ হাল কৰে কৰিব লাবে। বছল কৰিব লাবি। বছল ক

কপোনেট ইন্টাৰনেট বেঞ্জিং; কপোনেট ইন্টাৰনেট বেঞ্জিং লাবে, যেতিয়াই বেজে উপলব্ধ কৰে), সকলো লেনদেনৰ প্ৰকাৰৰ বাবে বৰ্কফ্লো নিষম সচৰাচৰ হ'ব। কপোনেট ইন্টাৰনেট বেংকিংৰ বাবে আবেদন কৰা প্ৰতিজন ব্যৱহাৰকাৰীক কপোনেট ইন্টাৰনেট বেংকিং দিয়া হ'ব। ভিউ এক্সেছ; কপোনেট ইন্টাৰনেট বেঞ্জিং প্ৰকাষ বিকল্প চাওক বেজে সিল্লান্ত লোৱা অনুসৰি সময়ে সময়ে একাউন্ট সম্পৰ্কীয় তথ্য আৰু আন সকলো প্ৰৱেশাধিকাৰ বিকল্প অনুষ্ঠিজিএছ/এনইএফটিৰ জৰিয়তে অ-উৎকৰ্ষ ক্ষুদ্ৰ বিত্ত বেজ একাউন্ট ধাৰক), দৰমহা আপলোভ ইত্যাদি। আৰু বেজে আগবঢ়োৱা অন্যান্য সেৱা। এনে কোনো সুধিধাৰ অপব্যৱহাৰৰ বাবে বেজপোষাক দায়ী কৰা নহ'ব।লগতে, আমি বুজি এনে এনে তথ্যৰ সুৰক্ষা একাউন্ট ধাৰক), কলৰ ওচৰত আছে।

লেনদেনৰ প্ৰৱেশাধিকাৰ। ই.মেইলৰ জৰিয়তে বিবৃতি (বিনামুলীয়া); যদি গ্ৰাহকে ইমেইল বিবৃতি বাছনি কৰিছে তেন্তে ইয়াক মাহত এবাৰ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব আৰু পঞ্জীভুক্ত ই.মেইল আইডিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। আৰু এনে সকলো ক্ষেত্ৰত কোনো ভৌতিক বিবৃতি কুৰিয়াৰ/প্ৰেৰণ কৰা নহ'ব। ম'বাইলত সতৰ্কবাৰ্তা (SMS ৰেঞ্চিং); একাউট্ট খোলাৰ সময়ত SMS ৰিঞ্চিং টিক্ষণ্টভাৱে প্ৰদান কৰা হ'ব। এই সেৱাটো প্ৰাৰম্ভিক এক মাহৰ বাবে বিনামুলীয়া যি মাহৰ অন্তিম দিনটোত বন্ধ হয়। অনুগ্ৰহ কৰি মাচলৰ সময়ত চিচাৰ কিয়তে নিমাহল কিয়তে কিয়তে কৰি মাচলৰ সময়ত সিজ

গুৰুত্বপূৰ্ণ টোকা : সময়ে সময়ে প্ৰযোগ্য হোৱা অনুসৰি বেচ্ছে নিৰ্ধাৰণ কৰা এক্ক্ৰ', ভিভিডেণ্ড, আইপিঅ', ছেটেলমেন্ট, বা আন যিকোনো একাউন্টক চেনেল সেৱাত লেনদেনৰ প্ৰৱেশাধিকাৰ প্ৰদান কৰিবনোৱাৰি।

Declaration

We have read, understood and here by agree to the terms stated in this Application Form as well as the Terms and Conditions governing the Non-Individual Account and the various facilities/services such as mobile banking, corporate internet banking, Debit cum ATM card and such other services available under Utkarsh Small Finance Bank Non-Individual account and as displayed on www.utkarsh.bank and agree to abide by the same. We understand that the said terms and conditions are subject to revision from time to time and we agree to keep ourselves updated of such changes and be bound by the terms and conditions as are in-force from time to time. We confirm that the authorised signatories as approved by me/our Board/all the partners of the firm/all members of the Managing Committee, are authorised to operate the account. We agree and understand that Utkarsh Small Finance Bank Ltd/Affiliates reserves the right to reject any application without providing any reason. We agree and understand that Utkarsh Small Finance Bank Ltd. reserves the right to retain the Application, and the documents provided therewith, including photographs, and will not return the same to us. We further agree that any false/misleading information given by us, or suppression of any material fact will render our account liable for closure and further action. We also here by agree to indemnify Utkarsh Small Finance Bank and their successors or assignees if any of the representations and declarations made here under by us is incorrect, false or misleading in any of its particulars. We here with confirm/agree; a) that all the particulars and information given in the Application form and all documents referred or provided there with) are true, correct, complete and upto date in all respects and we have not withheld any information. We agree and Under take to provide any further information that Utkarsh Small Finance Bank Ltd./its Affiliates may require, b) That we have had no insolvency initiated against us nor have we ever been adjudicated insolvent, c) that we have not at any time defaulted under any loan taken by us from any other bank/institution, or been in non-compliance of the applicable rules/regulations/guidelines in force from time to time, as framed by the Reserve Bank of India, d) that we have read and agree to the charges applicable to Non-Individual account and all other facilities to be availed by us and hereby agree to bear the charges as revised from time to time by the Bank.. e) We have read and understood the facilities available under Utkarsh Small Finance Bank Non-Individual Account as listed on the Utkarsh Small Finance Bank Website. We have also gone through the schedule of charges and understand that to be eligible for the concessions, we have to maintain the minimum average balance, as indicated in the Schedule of Charges and agreed upon by us on a Monthly/Quarterly/half yearly basis and in the event we fail to do so, we shall be liable to pay a fee every Month/Quarter as indicated in the schedule of charges. We also understand that continuation of the account is at Utkarsh Small Finance Bank's sole discretion and in case the Bank is dissatisfied with the conduct of the account, Utkarsh Small Finance Bank has the right to close the account after giving me/us 15 days' notice or withdraw the concessions in all or any service charges granted to us and/or charge Utkarsh Small Finance Bank's applicable rates for services availed by us. I/W e here by declare that in case of being professional after by occupation, the said account will be used exclusively for our own transactions and not on behalf of our clients. *(not applicable for regulated and supervised individuals and entities). I/We shall solely be responsible for ensuring full compliance with all the FEMA rules, regulations or notifications there under, applicable laws and regulations in any relevant jurisdiction in connection with establishment of my/our relationship with Bank and for any/ all the transactions undertaken by me/us under the various Non-Individual account products offered by Bank and shall indemnify and keep indemnified Bank from all actions, proceedings, claims, losses, damages, costs and expenses (including legal costs on a solicitor and client basis) which may be brought against or suffered or incurred by Bank in connection with any failure to comply with any such applicable laws/regulations. We here by authorize Utkarsh Small Finance Bank to exchange, share or part with all the information/data provided here in including personal and business information with financial institutions/credit bureaus/agencies/statutory bodies/other such persons to the extent it is necessary, in order to facilitate the Bank to comply with its obligations under various applicable laws, regulations, and standards. We shall not hold Utkarsh Small Finance Bank Ltd. or its agents/representatives liable for using/sharing information provided here in for the said purpose. We shall keep Utkarsh Small Finance Bank informed at all times, regarding any changes/alteration in our communication address that the Bank may be informed of by me and/or is brought to the notice of the Bank and here by authorize Utkarsh Small Finance Bank to contact us on such changed/altered address. We shall be solely responsible to ensure that Utkarsh Small Finance Bank has been informed of the correct address for communication within two weeks. We agree to indemnify Utkarsh Small Finance Bank against any fraud or any loss of damages suffered by Utkarsh Small Finance Bank due to our providing of any incorrect communication address and/or failure on our part to communicate the change/alteration in our communication address. The Applicant/s has/ have no objection to Utkarsh Small Finance Bank Limited, its group companies, agents/representatives to provide us information on various products, offers and services provided by Utkarsh Small Finance Bank / its group companies / other entities through any mode (including without limitation through telephone calls / SMS / E-mail} and authorize Utkarsh Small Finance Bank / its group companies/its agents/ its group companies/ its group companies / other entities through any mode (including without limitation through telephone calls / SMS / E-mail}). the above purpose. We understand that Utkarsh Small Finance Bank is under obligation to share all information including KYC of the customer and Entity with CKYC Registry. Further we understand that irrespective of whatsoever committed by the bank/branch, the bank/branch is under obligation to honor all Statutory requests/demands provided in writing and we will not hold bank/branch responsible for any cheque returns/loss of business due to such compliance with statutory requests.

Force Majeure: Bank's obligations contained here in will be subject to any occurrence resulting in prevention from or delay or interruption in performing its obligations if such prevention, delay or interruption is due to Force Majeure event, [which would include any event beyond the reasonable control of Bank, including, without limitation, unavailability of any communication system, sabotage, fire, flood, explosion, acts of God, civil commotion, strikes or industrial action of any kind, riots, insurrection, war or acts of government, changes in legislation and other allied acts of regulatory nature] then Bank shall not be deemed to be in default so long as any such cause or the effect there of persists (provided that this shall not prevent the accrual of interest on any outstanding amount which would have been payable but for this provision)and during a reasonable period there after with in which any such obligations are not capable of being fulfilled. Bank shall not be liable for any action or claim, from any party, arising out of its inability to perform the obligations for the reasons stated here in.

Indemnity: The Customer here by agrees that it shall, at his/its own expense, indemnify, defend and hold harmless Bank from and against any and all liability, any other loss that may occur arising from or relating to the operation or use of the Account or the Services or breach, non-performance or inadequate performance by the Customer of any of these Terms or or the acts, errors, representations, misrepresentations, misre

No Encumbrances: The Customer shall not create or permit to subsist, any encumbrance or third party interest over or against any Account(s) with Bank or any monies lying therein without Bank's prior written consent. The Customer/s shall not associate their name/s with the Bank without the prior written approval of the Bank.

Bankers lien and set off - Marking of lien on deposit / advances accounts A banker has a general lien on securities / deposits held by it unless there is a contract, expressed or implied, to the contrary. The banker's right of lien is not barred by the law of limitation which sets a particular time period for filing a suit. As such banker's lien continues over the security irrespective of the fact that the period of limitation has expired. A banker may, therefore, retain the security. It may be mentioned here that a banker does not have lien over the credit balance lying in a customer's SB/CD/CC account. The banker's right of "set off". The banker's right of lien can be exercised on the monoey lying with him so long as it is earmarked. Where it has ceased to be such a separate earmarked sum, the banker's right of lien" is converted into the "right of set off". Lien may be marked in the deposit/ advances account/s in the following events: On term deposit receipts/ accounts for the purpose of availing advance against them. On the term deposit receipt for hiring of locker. On term deposit receipt for nargin on letter of credit/letter of guarantee. In CC limit lien should be marked for (a) Invocation of a letter of guarantee (b) Cheque returned in BP (c) Release/replacement of securities (d) Payment under letters of credit (e) Interest recovery for any other purpose as per instructions of Branch Manager/Zonal Office/Central Office.

Governing Law: The laws of India shall govern these Terms. The Parties here by agree that any legal action or proceedings arising out of the Terms shall be brought in the courts or tribunals at Mumbai in India and irrevocably submit themselves to the jurisdiction of such courts and tribunals. Bank may, however, in its absolute discretion, commence any legal action or proceedings arising out of the Terms in any other court, tribunal or other appropriate forum, and the user here by consents to that jurisdiction. Any provision of the Terms that is prohibited or unenforceable in any jurisdiction shall, as to such jurisdiction, be ineffective to the extent of prohibition or unenforceability but shall not invalidate the remaining provisions of the Terms or affect such provision in any other jurisdiction.

Disclosure: a) The Customer hereby irrevocably authorises the Bank to disclose, as and when the Bank is required to do so in order to comply with the applicable laws or when the Bank regards such disclosure as necessary or expedient, (including but not limited to disclosures for the purpose of credit review of any Account, service/s or credit facilities received by the Customer from the Bank whether singly or jointly with others or otherwise), any information relating to the Customer, his/her Account(s) or other assets or credit facilities whatsoever held on the Customer's behalf to: • the Head office, affiliates, or any other branches or subsidiaries of • his/her auditors, professional advisers and any other person(s) under a duty of confidentiality to the Bank; vendors, installers, maintainers or servicers of the Bank's computer systems; • any exchange, market, or other authority or regulatory body having jurisdiction over the Bank, its head office or any other branch of Bank or over any transactions effected by the Customer or the Customer's Account; • any party entitled to make such demand or request; • any person with whom the Bank contracts or proposes to contract with regard to the sale or transfer or sharing of any of its rights, obligations or risks under the Terms; • any person (including any agent, contractor or third party service provider) with whom the Bank contracts or proposes to contract with regard to the provision of services in respect of the Customer's Account(s) or Facilities (as the case may be) or in connection with the operation of the Bank's business; • any person employed with, or engaged as an agent by, the Bank or its head office or affiliates, including any relationship officers for the purposes of or in connection with interactions with the Customers or providing services to the Customers or processing transactions pertaining to the Customers' accounts or Facilities; and • to enable the Bank to centralise or outsource its data processing and other administrative operations) to the

घोषणा

हमने इस आवेदन पत्र में उल्लिखित शर्तों के साथ-साथ गैर-ट्यक्तिगत खाते को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों और विभिन्न सविधाओं / सेवाओं जैसे मोबाइल बैंकिंग, कॉपीरेट इंटरनेट बैंकिंग, डेविट सह एटीएम कार्ड और ऐसी अन्य सेवाओं को पढ़ा, समझा और यहां सहमित व्यक्त की है, जैसा कि www.utkarsh.bank पर प्रदर्शित किया गया है और इसका पालन करने के लिए सहमत हैं। हम समझते हैं कि उक्त नियम एवं शर्त समय-समय पर संशोधन के अधीन हैं और हम ऐसे परिवर्तनों के बारे में खद को अपडेट रखने और समय-समय पर लाग नियमों और शर्तों से बंधे रहने के लिए सहमत हैं। हम पुष्टि करते हैं कि मेरे/हमारे बोर्ड/फर्म के सभी भागीदारों/प्रबंध समिति के सभी सदस्यों द्वारा अनुमोदित अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता खाते को संचालित करने के लिए अधिकृत हैं। हम सहमत हैं और समझते हैं कि उत्कर्ष लघु वित बैंक लिमिटेड / संबद्ध इकाइयों को बिना कोई कारण दिए 🛮 किए किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार है। हम सहमत हैं और समझते हैं कि उत्कर्ष लघु वित बैंक लिमिटेड आवेदन और उसके साथ प्रदान किए गए दस्तावेजों को बनाए रखने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसमें फोटोग्राफ भी शामिल हैं, और हमें वापस नहीं करेगा। हम आगे इस बात से सहमत हैं कि हमारे द्वारा दी गई कोई भी झूठी / भ्रामक जानकारी दिया जाना, या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को दबाया जाना हमारे खाते को बंद किए जाने और आगे की कार्रवाई किए जाने का कराण बन जाएगा। यदि हमारे द्वारा यहां किए गए अभ्यावेदन और घोषणाओं में से कोई भी गलत, झूठ या क्षामक है तो हम यहां उत्कर्ष लघु वित बैंक और उनके उत्तराधिकारियों या समनुदेशितों को सीनपूर्ति किए रखने के लिए भी सहमत हैं । a) यह कि आवेदन फॉर्म में दिए गए सभी विवरण और जानकारी और वहां संदर्शित या प्रदान किए गए सभी सभी मामलों में असली, सही, पूर्ण और अद्यतित हैं और हमने कोई जानकारी नहीं छुपाई है। हम सहमत हैं और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड / इसके सहयोगियों को आवश्यक कोई भी अन्य जानकारी प्रदान करने का वचन देते हैं, b)हमारे खिलाफ कोई दिवालियापन शुरू नहीं किया गया है और न ही हमें कभी दिवालिया घोषित किया गया है, ८) के हमने किसी भी समय किसी अन्य बैंक/संस्थान से हमारे दवारा लिए गए किसी भी ऋण के तहत चुक नहीं की है, या भारतीय रिज़र्व बैंक दवारा निर्धारित समय-समय पर लागू का नियमों/ विशानिर्देशों का गैर- अनुपालन नहीं किया है। वो कि हमने गैर-ट्यक्तिगत खाते और हमारे द्वारा प्राप्त की जाने वाली अन्य सभी सुविधाओं पर लागू प्रभारों को पढ़ा और सहमत किया है और एतद्ववारा बँक द्वारा समय-समय पर संशोधित प्रभारों को वहन करने के लिए सहमत हैं। e) हमने उत्कर्ष लघु वित बँक की वेबसाइट पर सूचीबद्ध उत्कर्ष लघु वित बैंक गैर-ट्यक्तिगत खाते के तहत उपलब्ध सुविधाओं को पढ़ा और समझ है। हमने प्रभारों की अनुसूची का भी अध्ययन किया है और समझते हैं कि रियायतों के लिए पात्र होने के लिए, हमें न्यूनतम औसत शेष राशि बनाए रखनी होगी, जैसा कि प्रभारों की अनुसूची में दर्शीया गया है और हमारे द्वारा मासिक/तिमाही/छमाही आधार पर सहमति व्यक्त की गई है और यदि हम ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो हम शुल्कों की अनुसूची में दर्शाए अनुसार प्रत्येक माह/तिमाही शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। हम यह भी समझते हैं कि खाते को जारी रखना उत्कर्ष लघ् वित बैंक के विवेकाधिकार पर है और यदि बैंक खाते के संचालन से असंतुष्ट है, तो उत्कर्ष लघु वित बैंक के पास मुझे 15 दिनों का नोटिस देने के बाद खाता बंद करने या हमें दी गई सभी या किसी भी सेवा शुरूक में रियायतें वापस लेने और / या हमारे द्वारा प्राप्त सेवाओं के लिए उत्कर्ष लघु वित बैंक की लागू दरों को प्रभारित करने का अधिकार है। मैं/ हम यहां यह घोषणा करता हूं करते हैं कि व्यवसाय से पेशवर होने पर उक्त खाते का उपयोग विशेष रूप से हमारे स्वयं के लेनदेन के लिए किया जाएगा, न कि हमारे ग्राहकों की ओर से। +(विनियमित और पर्यवेक्षित व्यक्तियों और इकाइयों के लिए लागु नहीं) । मैंहम बैंक के साथ अपने संबंधों की स्थापना के संबंध में किसी भी प्रासगिक क्षेत्राधिकार में लागु कानुनों और विनयमों और बैंक द्वारा प्रदान किए गए विभीन्न गैर-व्यक्तिगत खाता उत्पादों के तहत मेरे/हमारे द्वारा किए गए किसी भी/सभी लेन-देन के लिए सभी फेमा नियमों, विनियमों या अधिसुचनाओं का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे और बैंक को ऐसी सभी कार्रवाहयों, कार्यवाहियों, दावों, हानियों, क्षातियों, लागतों और व्ययों (वकील और ग्राहक के आधार पर कानूनी लागतों सहित) से क्षातिपूरित करेंगे और क्षतिपूरित बनाए रखेंगे जो ऐसे किसी भी लागू कानूनों / विनियमों का पालन करने में किसी भी विफलता के संबंध में बँक के विरुद्ध लगाई गई या बँक द्वारा सहन की गई या बँक को हुई हों। हम एतदद्वारा उत्कर्ष लघु वित बँक को वितीय संस्थानोंक्रीडिट ब्यूरो/एजेंसियों/वैधानिक निकायों/ऐसे अन्य व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत और व्यावसायिक जानकारी सहित प्रदान की गई सभी सूचनाओं/आंकड़ों का जितना आवश्यक हो उस सीमा तक आदान-प्रदान करने, साझा करने या बंटवारा करने के लिए अधिकृत करते हैं, ताकि बैंक को विभिन्न लागू कानूनों, विनियमों, और मानकों के तहत अपने दायित्वों का पालन करने में सुविधा हो सके। हम उत्कर्ष लघु वित बैंक लिमिटेड या उसके एजेंट्रांप्रतिनिधियों को उक्त उद्देश्य के लिए यहां प्रदान की गई जानकारी का उपयोग करने/साझा करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराएंगे। हम उत्कर्ष लघु वित बैंक को अपने संचार पते में किसी भी परिवर्तन के बारे में हर समय सुचित करेंगे और बैंक को हमारे संचार पते में किसी भी ऐसे परिवर्तन को अपडेट करने के लिए अधिकृत करेंगे, जिसके बारे में बैंक को मेरे द्वारा सूचित किया जा सकता है और / या बैंक के ध्यान में लाया जा सकता है और एतद्द्वारा उत्कर्ष लघु वित बैंक को ऐसे बदले हुए / परिवर्तित पते पर हमसे संपर्क करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए पुरी तरह से जिम्मेदार होंगे कि उत्कर्ष लघु वित बैंक को दो सप्ताह के शीतर संचार के लिए सही पते के बारे में सुचित किया गया हो। हम किसी भी गलत संचार पते को प्रदान करने और / या हमारे संचार पते में परिवर्तन / बदलाव को सूचित करने में हमारी ओर से विफलता के कारण उत्कर्ष लघु वित बँक को होने वाली किसी भी धोखाधड़ी या नुकसान के खिलाफ उसे क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत हैं। आवेदक को उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बँक लिमिटेड, उसके समूह की कंपनियों, एजेंटों/प्रतिनिधियों से कोई आपति नहीं है कि वे उत्कर्ष लघु वित बैंक/इसके समूह की कंपनियों/अन्य इकाइयों द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न उत्पादों, प्रस्तावों और सेवाओं के बारे में हमें किसी भी माध्यम (जिसमें टेलीफोन कॉल/एसएमएस/ई-मेल इत्यादि माध्यम शामिल हैं) से जानकारी प्रदान करें और उत्कर्ष लघु वित बैंक/उसके समृह की कंपनियों/इसके एजेंटों/इसके प्रतिनिधियों को उपर्युक्त उद्देश्य के लिए अधिकृत करते हैं। हम समझते हैं कि उत्कर्ष लघु वित बैंक, सीकेवाईसी रजिस्ट्री के साथ ग्राहक और इकाई के केवाईसी सहित सभी जानकारी साझा करने के लिए बाध्य हैं। इसके अलावा हम समझते हैं कि बैंक/शाखा द्वारा किए गए किसी भी वादे के बावजूद, बैंक/शाखा लिखित रूप में प्रदान किए गए सभी वैधानिक अनुरोधी/मांगों का सम्मान करने के लिए बाध्य है और हम वैधानिक अनुरोधी के इस तरह के अनुपालन के कारण किसी भी चेक वापसी /व्यवसाय के नुकसान के लिए बैंक/शाखा को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे।

अप्रत्याशित घटनाः इसमें निहित बँक के दायित्व ऐसी किसी भी घटना के अधीन होंगे, जिसके परिणामस्वरूप बँक को अपने दायित्वों को पूरा करने में रोकथाम या देरी या रुकावट होगी, यदि ऐसी रोकथाम, देरी या रुकावट किसी अप्रत्याशित घटना के कारण होती हैं, जिसमें बँक के उचित नियंत्रण से परे कोई भी घटना शामिल होगी, जैसे कि किसी भी संचार प्रणाली की अनुपलब्धता, तोड़फोड़, आग, बाढ़, विस्फोट, दैवीय आपदा, नागरिक हंगामा, हड़ताल या किसी भी प्रकार की औद्योगिक कार्रवाई, दंगे, विद्राह, युद्ध या सरकारी कार्रवाईयां, कानून में परिवर्तन और नियामक प्रकृति के अन्य संबद्ध कार्य] तो जब तक कि ऐसा कोई कारण या उसका प्रभाव बना रहता है (बशर्ते कि यह किसी भी बकाया राशि पर ब्याज के उपार्जन को रोक नहीं पाएगा जो इस प्रावधान के बाद भी होगा) और उसके बाद एक उचित अवधि के दौरान जिसमें ऐसे किसी भी दायित्व को पूरा करने में वह सक्षम नहीं हैं, तब तक बैंक को चूककर्ता नहीं माना जाएगा। यहां बताए गए कारणों से दायित्वों को पूरा करने में असमर्थता के कारण किसी भी पक्ष से उत्पन्न किसी भी कार्रवाई या दावे के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

कोई ऋणभार नहीं: याहुक बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना बैंक के साथ अपने किसी भी खाता/ खाते या उसमें पड़े किसी भी धन के उपर या उसके खिलाफ कोई ऋणभार या तीसरे पक्ष के हित को सृजित नहीं करेगा या सृजित करने की अनुमति नहीं देगा। याहक बैंक के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना बैंक के साथ अपना नाम संबद्ध नहीं करेगा/ करेंगे।

बैंकरों के लिए यहणाधिकार और सेट ऑफ का निर्धारण - जमा/अधिम खातों पर यहणाधिकार को अंकन, बैंकर के पास प्रतिभृतियों जमाराशों पर एक सामान्य ग्रहणाधिकार होता है जब तक िक इसके विपरीत कोई अनुबंध व्यक्त या निहित न हो । बैंकर के ग्रहणाधिकार को अधिकार को सीमा के कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाता है जो मुकदमा दायर करने के लिए एक विशेष समय अवधि निर्धारित करता है। इस तरह सीमा की अवधि समाप्त हो जाने पर भी प्रतिभृति पर बैंकर का ग्रहणाधिकार जारी रहता है। इसलिए, बैंकर प्रतिभृति को अपने पास बाला एख सकता है। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है के बैंकर को ग्रास ग्राहक के बचत खाते / जमा कि प्रता के प्रयोग उसके पास पड़े धन पर तब किया जा सकता है जब यह इस कार्य के लिए अलग से निर्धारित हो। जब रही होता है। ऐसे मामालों में बैंकर का अधिकार है। बैंकर के ग्रहणाधिकार के अधिकार का प्रयोग उसके पास पड़े धन पर तब किया जा सकता है जब यह इस कार्य के लिए अलग से निर्धारित हो। जब रही होता है। ऐसे मामालों में वैंकर का अधिकार है। बैंकर के ग्रहणाधिकार के अधिकार को प्रता मार्ग ते अपने पर तब किया जा सकता है जब यह इस कार्य के लिए अलग से निर्धार हो। बोंकर के अधिकार को लिया जा सकता है जब एक स्वा के जिल्हा के लिया जा सकता है जिल्हा के लिया जा अधिकार के अधिकार को लिया जा सकता है। अपने के अलग लिया जा निर्हा पर लेने के लिए सावधि जमा रसीद पर सावधि जमा रसीद पर साख पत्र गारंटी पत्र पर मार्जिन प्रप्त के लिए हाज वसली हैत. अकित करना प्रतिभाशिया को जा हिता हो। हो कर प्रतिभित्त के लिए हाज वसली हैत. अकित करना पाहिए।

शासी कानून: भारत के कानून इन शर्तों को नियंत्रित करेंगे। पक्षकार इस बात से सहमत हैं कि शर्तों से उत्पन्न होने वाली किसी भी कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही को भारत में मुंबई में अदालतों या न्यायाधिकरणों में लाया जाएगा। तथापि, बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार में शर्तों से उत्पन्न होने वाली कोई भी कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही किसी अन्य न्यायालय, अधिकरण या अन्य उपयुक्त मंच में शुरू कर सकता है और उपयोगकर्ता एतद्द्वारा उस क्षेत्राधिकार के लिए अपनी सहमित व्यक्त करता है। शर्तों का ऐसा कोई भी प्रावधान जो किसी भी अधिकार क्षेत्र में निषद्ध या अप्रवर्तनीय हो, ऐसे अधिकार क्षेत्र के अनुसार, निषेध या अप्रवर्तनीयता की सीमा तक अप्रभावी होगा, लेकिन शर्तों के शेष प्रावधानों को अमान्य नहीं करेगा या किसी अन्य अधिकार क्षेत्र में ऐसे प्रावधान को प्रभावित नहीं करेगा।

আমি এই আরেদন প্রপত্তাত জ্বেম্ম কৰা চৰ্তাৱলী আৰু লগতে অ-ব্যক্তিগত একাউন্ট নিয়ন্ত্রণ কৰা চৰ্তাৱলী আৰু বিভিন্ন সুবিধা/সেৱা যেনে মোবাইল বেঙ্কিং, কর্পোনেট ইন্টাবনেট বেঙ্কিং, ভেনিট তথা এটিএম কার্ড আৰু উৎকর্ষ ক্ষুদ্র বিত্ত বেঙ্কৰ অ-ব্যক্তিগত একাউন্টৰ অধীনত উপলব্ধ এনে অন্যান্য সেৱা আৰু সেইবোৰ পালন কৰাৰ বিষয়ে বুজি পাইছো আৰু ইয়াত সম্মত হৈছো। আমি বুজি পাওঁ যে উক্ত চৰ্তাৱলী আৰু নিয়মাৱলী সময়ে সময়ে সংশোধন সাপেক্ষে আৰু আমি নিজকে এনে পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে জ্ঞাত হৈ থাকিবলৈ আৰু সময়ে সময়ে বলবং থকা চৰ্তাৱলী আৰু নিয়মাৱলীৰ দ্বাৰা দায়ৰন্ধ হৈ থাকিবলৈ সম্মত হৈছো। আমি নিশ্চিত কৰো যে মোৰংআমাৰ বোৰ্ড/ফাৰ্মৰ সকলো অংশীদাৰাপৰিচালনা সমিতিৰ সকলো সদস্যৰ দ্বাৰা অনুমোদিত স্বাক্ষৰকাৰীসকল, একাউ-উটো পৰিচালনা কৰিবলৈ কৰ্তৃত্বপ্ৰাপ্ত। আমি সন্মত আৰু বুজি পাইছো যে উৎকৰ্ষ স্থাল ফাইনেন্স বেঙ্ক লিমিটেড/ সহযোগী কোনো কাৰণ প্ৰদান কৰাকৈ যিকোনো আবেদন নাকচ কৰাৰ অধিকাৰ সংৰক্ষিত বাখে। আমি সলত আৰু বুজি পাইছো যে, উৎকৰ্ষ সাল ফাইনেন্স বেঙ্ক লিমিটেডে আৱেদনটো ধৰি ৰখাৰ অধিকাৰ সংৰক্ষিত ৰাখে, আৰু ইয়াৰ সৈতে প্ৰদান কৰা নথিপত্ৰ, ফটোগ্ৰাফসহ, আৰু সেইবোৰ আমাক ঘূৰাই নিদিব। আমি আৰু সলত যে আমাৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা যিকোনো মিছাৰিক্ৰান্তিকৰ তথা, বা যিকোনো বস্তুগত তথা লুকুৱাই থ'লে আমাৰ একাউটে ৰশ্ধ আৰু পৰৱৰ্তী পদক্ষেপৰ বাবে আমি দায়বন্ধ হ'ম। আমি ইয়াত উৎকৰ্য স্ম'ল ফাইনেপ্সেৰংক আৰু তেওঁলোকৰ উত্তৰাধিকাৰী বা আৱন্টনকাৰীসকলক ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ সত্মত হৈছে৷ যদি আমাৰ অধীনত ইয়াত কৰা যিকোনো প্ৰতিনিধিত্ব আৰু যোষণা, ইয়াৰ যিকোনো বিৱৰণত অশুৰূ, মিছা বা বিভ্ৰান্তিকৰ হয়৷ আমি ইয়াত নিশ্চিত/সম্মত: a) যে আৱেদন প্ৰপত্ৰত দিয়া সকলো বিৱৰণ আৰু তথা আৰু তাত প্ৰেৰণ কৰা বা প্ৰদান কৰা সকলো নথিপত্ৰ) সকলো ক্ষেত্ৰত সঁচা, শুদ্ধ, সম্পূৰ্ণ আৰু নুতুন আৰু আমি কোনো তথ্য লুকোৱাই ৰখা নাই। আমি উৎকৰ্ষ সূল ফাইনেন্স বেঙ্ক লিমিটেড/ইয়াৰ সহযোগী সংস্থাসমূহক প্ৰয়োজন হ'ব পৰা যিকোনো অধিক তথ্য প্ৰদান কৰিবলৈ সম্মত,চ) এইয়া যে, আমাৰ বিৰুদ্ধে কোনো দেউলিয়া বুলি ঘোষণা কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই বা আমাক কেতিয়াও দেউলীয়া বুলি বিচাৰ কৰা হোৱা নাই,৫) এইয়া যে, আমি আন কোনো বস্কু/প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা লোৱা কোনো ঋণৰ অধীনত কোনো সময়তে ঋণ পৰিশোধ কৰা নাই, বা ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেল্কে প্ৰস্তুত কৰা অনুসৰি সময়ে সময়ে প্ৰযোজ্য নিয়ম/নিয়মাৱলী/নিৰ্দেশনা পালন কৰা নাই,d) এইয়া যে, আমি অ-ব্যক্তিগত একাউ-উ আৰু আমাৰ দ্বাৰা প্ৰাপ্ত কৰিবলগা আন সকলো সুবিধাৰ বাবে প্ৰযোজ্য গুৰুংবাৰৰ বিষয়ে পঢ়িছোঁ আৰু সন্মত হৈছো আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা বেৰুৰ দ্বাৰা সময়ে সময়ে সংশোধিত মাচুল বহন কৰিবলৈ সমাত হৈছো৷৷৷৩ উৎকৰ্ষ ক্ষুদ্ৰ বিত্ত বেঙ্কৰ অ-ব্যক্তিগত একাউ-উৰ অধীনত উপলব্ধ সুবিধাবোৰ আমি উৎকৰ্ষ ক্ষুদ্ৰ বিত্ত বেঙ্ক ৱেবছাইটত তালিকাভুক্ত কৰা অনুসৰি পঢ়িছোঁ আৰু বুজি পাইছো৷ আমি মাচুলৰ সময়সূচীও পৰীক্ষা কৰিছো আৰু বুজি পাইছো যে ৰেহাইৰ বাবে যোগ্য হ'বলৈ, আমি নিম্নতম গড় বেলেন্স ৰজাই ৰাখিৰ লাগিব, মাচুলৰ অনুসূচিত উল্লেখ কৰা অনুসৰি আৰু আমি মাহিলী/তিনিমহীয়া,অৰ্ধ বাৰ্ধিক আধাৰত সন্মত হ'ম আৰু খদি আমি এনে কৰাত বিকল হওঁ, আমি মাচুলৰ সময়সূচীত উল্লেখ কৰা অনুসৰি প্ৰতি মাহে/তিনিমাহত মাচুল পৰিশোধ কৰিবলৈ দায়বন্ধ হ'ম। আমি এইটোও বুল্লি পাওঁযে একাউ-চটো অব্যাহত ৰখাটো উৎকৰ্ষ ক্ষুদ্ৰ বিত্ত বেঙ্কৰ একমাত্ৰ বিত্তেকান্ত আছে আৰু যদি বেঙ্ক একাউন্টটোৰ পৰিচালনাত অসন্তুষ্ট হয়, উৎকৰ্ম ক্ষুদ্ৰ বিত্ত বেঙ্কে মোক 15 দিনৰ জাননী দিয়াৰ পিছত একাউন্টটো বন্ধ কৰাৰ বা আমাক প্ৰদান কৰা সকলো বা যিকোনো সেৱা মাচুলত বেহাই প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ আৰু বা আমাক প্ৰযোজ্য সেৱাৰ বাবে উৎকৰ্ম স্মূল ফাইনেন্স বেঙ্কৰ মাচল লোৱাৰ অধিকাৰ আছে। মই/আমি ইয়াত ঘোষণা কৰিছো যে জীৱিকাৰ পিছত পেছাদাৰী হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, উক্ত একাউ-উটো কেৱল আমাৰ নিজৰ লেনদেনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব, আমাৰ গ্ৰাহকৰ বাবে নহয়। *(নিয়ন্ত্ৰিত আৰু তত্বাৱধান কৰা ব্যক্তি আৰু প্ৰতিষ্ঠানবোৰৰ বাবে প্ৰযোজ্য নহয়)। বেঙ্কৰ সৈতে মোৰ/আমাৰ সম্পৰ্ক স্থাপনৰ সম্পৰ্ভত যিকোনো প্ৰাসন্তিক অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য আইন আৰু নিয়মাৱলীৰ অধীনত থকা সকলো FEMA নিয়ম, নিয়মাৱলী বা অধিসূচনাৰ সম্পূৰ্ণ অনুপালন নিশ্চিত কৰাৰ বাবে আৰু বেঙ্কে আগবঢ়োৱা বিভিন্ন অ-ব্যক্তিগত একাউ-ট প্ৰভাক্টৰ অধীনত মোৰ/আমি কৰা যিকোনো/সকলো লেনদেনৰ বাবে মই/আমি একমাত্ৰ দায়ৰদ্ধ হ'ম আৰু এনে কোনো প্ৰযোজ্য আইন/নিয়মাৱলী পালন কৰাত যিকোনো বিফলতাৰ সন্দৰ্ভত বেঙ্কে অনা বা ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব পৰা সকলো কাৰ্য, প্ৰক্ৰিয়া, দাবী, লোকচান, ক্ষতি, ব্যয় আৰু খৰচ (অধিবক্তা আৰু প্ৰাহকৰ আধাৰত আইনী ব্যয় সহ) ক্ষতিপূৰণ আৰু প্ৰতিপূৰ্তি দিবা আমি ইয়াত উৎকৰ্ষ ক্ষুদ্ৰ বিভ বেঙ্কক বিভিন্ন প্ৰযোজ্য আইন, নিয়মাৱলী, আৰু মানদণ্ডৰ অধীনত বেঙ্কক ইয়াৰ দায়বন্ধতা পালন কৰাত সহায় কৰাৰ বাবে বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান/ক্ৰেডিট ব্যুৰে/সংস্থা/আইনী সংস্থা/এনে ব্যক্তিৰ সৈতে ব্যক্তিগত আৰু ব্যৱসায়িক তথ্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰি ইয়াত প্ৰদান কৰা সকলো তথ্য খবৰ বিনিময়, ভাগ বতৰা বা আংশিক কৰাৰ কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিছো। আমি উৎকৰ্ষ সূল ফাইনেন্স বেঙ্ক লিমিটেড বা ইয়াৰ এজেকী,প্ৰতিনিধিসকলক উক্ত উদ্দেশ্যৰ বাবে ইয়াত প্ৰদান কৰা তথ্য ব্যৱহাৰ/ভাগ-বতৰা কৰাৰ বাবে দায়বন্ধ নকৰোঁ। আমি উৎকৰ্ষ ক্ষুদ্ৰ বিত্ত বেঞ্কক আমাৰ যোগাযোগ ঠিকনাত যিকোনো পৰিৱৰ্তন/সালসলনি সম্পৰ্কে সকলো সময়তে অৱগত কৰিম আৰু বেঞ্কক আমাৰ যোগাযোগ ঠিকনাত এনে যিকোনো পৰিৱৰ্তন/সালসলনি আপডেট কৰিবলৈ কৰ্তৃত্ব দিম যিখিনি বেঙ্কক মোৰ দ্বাৰা অৱগত কৰা হ'ব আৰু বাঁবেঙ্কৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰা হ'ব আৰু ইয়াত উৎকৰ্ষ ক্ষুদ্ৰ বিত্ত বেঙ্কক এনে পৰিৱৰ্তিত/সলনি কৰা ঠিকনাৰ বিষয়ে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিম। উৎকৰ্ষ স্মা'ল ফাইনেপ বেংকক দসপ্তাহৰ ভিতৰত যোগাযোগৰ গাবে সঠিক ঠিকনাৰ বিষয়ে অৱগত কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ আমি একমাত্ৰ দায়বদ্ধ হ'ম। আমি উৎকৰ্ষ ক্ষন্ত্ৰ বিস্ত বেঙ্কক কৰা যিকোনো প্ৰৱঞ্চনা বা উৎকৰ্ষ ক্ষন্ত্ৰ বিস্ত বেঙক যিকোনো ভূল যোগাযোগৰ ঠিকনা প্ৰদান কৰাৰ বাবে আখুবা আমাৰ যোগাযোগ ঠিকনাত পৰিৱৰ্তন/সালসলনিৰ বিষয়ে জনোৱাত আমাৰ ফালৰ পৰা বিফল হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো ক্ষতিৰ বিৰুদ্ধে ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ সম্মত হৈছো। উৎকৰ্ম স্থাল ফাইনেস'বেঙ্ক লিমিটেড, ইয়াৰ গোট কোম্পানী, এজেন্ট/প্ৰতিনিমিসকলে যিকোনো মাধ্যমৰ জৰিয়তে উৎকৰ্ম কুম্ম বিন্ত বেঙ্ক / ইয়াৰ গোট কোম্পানী/ অন্যান্য প্ৰতিষ্ঠানৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা বিভিন্ন প্ৰভান্ত, অফাৰ আৰু সেৱাৰ বিষয়ে আমাক তথ্য প্ৰদান কৰাৰ বাবে আবেদনকাৰী/সকলৰ কোনো আপন্তি নাই (টেলিফোন কল / SMS/ ই-মেইল) আৰু উৎকৰ্ষ কুন্ত বিত্ত বেঙ্ক / ইয়াৰ বিজেন্ট/ইয়াৰ প্ৰতিনিধিসকলক কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰা। আমি বুজি পাওঁ যে উৎকৰ্ষ কুন্ত বিত্ত বেঙ্কে গ্ৰাহকৰ কেৱাইটি আৰ চিকেৱাইচি ৰেজিষ্টাৰ সৈতে সংস্থাকে ধৰি সকলো তথ্য ভাগ-বতৰা কৰাৰ বাবে দায়বদ্ধা লগতে আমি বিজি পাওঁ যে বেঙ্ক/শাখাই যিয়েই নহওঁক বেঙ্ক/শাখাই লিখিতভাৱে প্ৰদান কৰা সকলো বিধিবদ্ধ অনৰোধ/দাবী সন্মান কৰাৰ দায়িত্বৰদ্ধ আৰ আইনী অনৰোধতনসৰণ কৰাৰ বাবে যিকোনো চেক ৰিটাৰ্গব্যৱসায়ৰ লোকচানৰ বাবে আমি বেঙ্ক/শাখাক দায়বদ্ধ নকৰোঁ।

অপ্ৰত্যাশিত ঘটনা: ইয়াত সন্নিবিষ্ট বেঙৰ দায়বন্ধতাবোৰ এনে ধৰণৰ প্ৰতিবোধ, বিলম্ব বা বাধা অপ্ৰত্যাশিত ঘটনা (য'ত অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব বেঙৰ যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত যিকোনো ঘটনা, যাৰ ভিতৰত আছে, সীমাবন্ধতা অবিহনে, কোনো যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ অনুপলন্ধতা, ধ্বংসাথক, জুই, বানপানী, বিস্ফোৰণ, ঈশ্বৰৰ কাৰ্যকলাপ, নাগৰিকৰ হাই-উৰুমি, ধৰ্মঘট বা যিকোনো ধৰণৰ উদ্যোগিক কাৰ্য, দাঙ্গা, বিদ্ৰোহ, যুদ্ধ বা চৰকাৰৰ কাৰ্যকলাপ, আইনৰ পৰিৱৰ্তন আৰু নিয়ন্ত্ৰ প্ৰকৃতিৰ অন্যান্য সহযোগী কাৰ্য] ঘটনাৰ ফলত হ'লে ইয়াৰ দায়বন্ধতা বোৰ প্ৰতিবোধ বা বিলম্ব বা বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব, তেনেহ'লে বেঙক এনে কোনো কাৰণ বা ইয়াৰ প্ৰভাৱ অব্যাহত থকালৈকে (মুদিহে ই পৰিশোধ কৰিব লগা যিকোনো বকেয়া পৰিমাণৰ ওপৰত সূত ৰখা প্ৰতিহত নকৰে কিন্তু এই ব্যৱস্থাৰ বাবে, আৰু তাৰ পিছত এক যুক্তিসঙ্গত সময়ত অবিকল্পিত বুলি গণ্য কৰা নহ'ব যাৰ সৈতে এনে কোনো বাধ্যবাধকতা নাথাকে আৰু পূৰণ কৰিব নোৱাৰে। বেঙ্কে ইয়াত উল্লেখ কৰা কাৰণবোৰৰ বাবে দায়বন্ধতা পালন কৰিবলৈ অঞ্চম হোৱাৰ ফলত যিকোনো পক্ষৰ পৰা কোনো পদক্ষেপ বা দাখীৰ বাবে দায়বন্ধ নতথা

কোনো দায়বন্ধতা নাই: গ্ৰাহকে বেষ্কৰ আগতীয়া লিখিত সন্মতি অবিহনে বেষ্ক বা ইয়াত পৰি থকা যিকোনো ধনৰ সৈতে যিকোনো একাউ-উৰ (বোৰ) ওপৰত বা বিপক্ষে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিবলৈ বা অনুমতি নিদিবা গ্ৰাহকে বেষ্কৰ আগতীয়া লিখিত অনুমোদন অবিহনে তেওঁলোকৰ নাম/বোৰ বেষ্কৰ সৈতে সংযুক্ত নকৰিব।
বেংকাৰৰ লিয়েন আৰু ছেট অক - জমা/ অগ্ৰিম একাউ-উৰ ওপৰত লিয়েন চিক্তিক কৰা এজন বেংকাৰৰ ইয়াৰ দ্বাৰা ধাৰণ কৰা চিকিউবিটি/ জমাৰ ওপৰত সাধাৰণ অধিগ্ৰহণ থাকে যদিহে ইয়াৰ বিপৰীতে কোনো চুক্তি প্ৰকাশ বা বুজাই দিয়া নহয়। বেংকাৰৰ লিয়েনৰ অধিকাৰ সীমাবন্ধতাৰ আইনৰ দ্বাৰা নিষিদ্ধ নহয়।
কৰাৰ বাবে এক নিৰ্দিষ্ঠ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰে। সেয়েহে সীমাবন্ধতাৰ খ্যাদ উকলি যোৱাটো ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বেংকাৰৰ অধিগ্ৰহণ অব্যাহত আছে। সেয়েহে, এজন বেংকাৰে নিৰ্নাপতা ৰজাই ৰাখিব পাৰে। ইয়াত উল্লেখ কৰিব পাৰি যে গ্ৰাহকৰ এইবি/টিভি/টিটি একাউ-উত পৰি থকা ক্ষেত্ৰিত বেজাৰ এজনৰ অধিগ্ৰহণ নাই।
বেন্ধাৰৰ অধিকাৰ, এনে ক্ষেত্ৰত "ছেট অফা'ৰ অধিকাৰ। বেংকাৰৰ লিয়েনৰ অধিকাৰ" তেওঁৰ ওচৰত পৰি থকা ধনৰ ওপৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি যেতিয়ালৈকে এইটো নিৰ্ধানণ কৰা হয়। খ'ত ই এনে এক পৃথক নিৰ্ধাবিত পৰিমাণ হোৱা বন্ধ হৈছে, বেন্ধাৰণ লিয়েনৰ অধিকাৰ" "হেট অফৰ অধিকাৰ" লৈ পুণান্তবিত হয়। নিৰ্ঘাহিতি হানিবিত জমা/ অগ্ৰিম একাউ-ট/বোৰত লিয়েন চিক্তিত কৰা হ'ব পাৰে। যাদী জমা ৰচিদত। একিউ-উত সেইবোৰৰ বিৰুদ্ধে আগতীয়া কৈ প্ৰাপ্ত কৰাৰ উদ্ধেশো। লকাৰ ভাডাত লোৱাৰ বাবে ম্যাদী জমা ৰচিদত। ক্ৰিটি ক্ষম আমিল আমাৰ কৰাৰ স্বাহ্ম আমিল কৰাৰ বাবে ম্যাদী জমা ৰচিদত। চিটি সীমাত লিয়েন (১) শাখা প্ৰৱন্ধক/আঞ্চলিক

আইন পৰিচালনা: ভাৰতৰ আইনে এই চৰ্তাৱলী নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব। ইয়াত থকা পক্ষবোৰে সন্মত হৈছে যে চৰ্তাৱলীৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা যিকোনো আইনী পদক্ষেপ বা প্ৰক্ৰিয়া ভাৰতৰ মুখাইৰ আদালত বা ন্যায়াধিকৰণত অনা হ'ব আৰু অপৰিৱৰ্তনীয়ভাৱে এনে আদালত আৰু ন্যায়াধিকৰণৰ অধিকাৰ ক্ষেত্ৰত নিজকে দাখিল কৰা হ'ব। অৱশ্যে, বেঙ্কে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ বিবেচনাত, আন যিকোনো আদালত, ন্যায়াধিকৰণ বা অন্যান্য উপযুক্ত সঞ্চত চৰ্তাৱলীৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা যিকোনো আইনী পদক্ষেপ বা প্ৰক্ৰিয়া ভাৰম্ভ কৰিব পাৰে, আৰু ইয়াত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে সেই অধিকাৰ ক্ষেত্ৰত সম্মতি প্ৰদান কৰিব পাৰে। যিকোনো অধিকাৰ ক্ষেত্ৰত নিষিদ্ধ বা বলবং কৰিব নোৱাৰা চৰ্তাৱলীৰ যিকোনো ব্যৱস্থা, এনে অধিকাৰ ক্ষেত্ৰত এনে ব্যৱহাৰ দৰে, নিষিদ্ধকৰণ বা বলবং কৰিব নোৱাৰা পৰিমাণলৈকে অকাৰ্যকৰী হ'ব কিন্তু চৰ্তাৱলীৰ বাকী থকা ব্যৱস্থাবাৰ অধিকাৰ ক্ষেত্ৰত এনে ব্যৱস্থা প্ৰভাৱিত নকৰিব।

প্ৰকাশ: a) প্ৰাহকে ইয়াৰ দ্বাবা বেষক প্ৰযোজ্য আইনবোৰ পালন কৰাৰ বাবে বা যেতিয়াই বৈদ্ধে এনে প্ৰকাশক প্ৰয়োজনীয় বা সমীচীন বুলি গণ্য কৰে, (আনৰ সৈতে বা অন্য কোনো থৰণে একক বা মুটীয়াভাৱে হওঁক বা বেষক পৰা গ্ৰাহকে প্ৰাপ্ত কৰা যিকোনো একাউন্ট, সেৱাৰা ক্ৰেভিট সুবিধাৰ ক্ৰেভিট সুবিধাৰ কৈতে সম্পৰ্কত বিকোনো তথা প্ৰকাশ কৰিবলৈ অপৰিৱৰ্তনীয়ভাৱে কৰ্তৃত্ব প্ৰধান কৰে; বেষক প্ৰতাভিটন অধাৰিল, সহযোগী, বা তেওঁৰ অভিটন, পেছাদাৰী পৰামৰ্শদাতা আৰু আন মিকোনো বাছিল • আন মিকোনো শাখাৰা সহায়ক কোম্পানীন বুল কেলাপনীন ইন্তৰ ক্ৰেভিটন, পেছাদাৰী পৰামৰ্শদাতা আৰু আন মিকোনো বাছিল • আন মিকোনো শাখাৰ ওপৰত বা গ্ৰাহক একাউন্টন অধীৰ প্ৰভাৱ দিয়ে; যিকোনো লোকৰ হ' যিকোনো বিনিময়, বজাৰ, বা আন কৰ্তৃপক্ষ বা নিয়ামক সংস্থাৰ •; এনে দাবী বা অনুবোধ কৰাৰ অধিকাৰ থকা যিকোনো পাজৰ হ' যেকোনো বুলিৰ সৈতে কেছে ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় বিকোনো অধিকাৰ, দায়বক্ৰ তা বিপাশকৰ বিকী বা স্থানান্তৰ বা ভাগত ৰ সন্ধৰ্ভৰ কৰা প্ৰভাৱ দিয়ে; যিকোনো বাছিল (সিকোনো প্ৰকিল) কৰাৰ প্ৰপ্ৰাৱ বিকাৰে না অধিকাৰ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ বিয়াৰ সংস্থাত হ'বল প্ৰপ্ৰাৱ কৰাৰ প্ৰভাৱ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ বিয়াৰ সংস্থান • এনে দাবী বা অনুবাধ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ কৰাৰ প্ৰতাৱ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ বিয়াৰ সংস্থান হ'বলে দাবিল বিকাৰে প্ৰস্তাৱ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ বিযায়ৰ সংস্থান • এনে দেবলৈ প্ৰস্তাৱ বা প্ৰস্তাৱ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ বিয়াৰ সংস্থা কৰাৰ প্ৰস্তাৱ বিয়াৰ সংস্থা কৰাৰ প্ৰস্তাৱ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ বিয়াৰ সংস্থা কৰাৰ প্ৰস্তাৱ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়ে যেনেকৈ হ'ব পাৰে, বা বেষক বৰু বাহাসায়ৰ সন্ধাননৰ বিন্দা সন্ধানৰ বিৰুদ্ধ বিৰুদ্ধ বিষদাৰ সংস্থা কৰাৰ বিয়াৰ সংস্থা কৰাৰ প্ৰস্তাৱ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়ে যেনেকৈ হ'ব পাৰে, বা বেষক বৰু বাবসায়ৰ সংস্থানৰ সংস্থাকৰ সৈতে বাৰ্তিক কৰিবলৈ সক্ষম কৰিবলৈ। তিন্তৰ হ'বা বুলি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ কৰাৰ বিয়াৰ কৰাৰ বিয়াৰ কৰাৰ বিয়াৰ কৰাৰ বিয়াৰ সংস্থা বিষদাৰ কৰাৰ বিয়াৰ সংস্থা বিষদাৰ কৰাৰ বিয়াৰ সংস্থা বিষদাৰ কৰাৰ বিয়াৰ সংস্থা বিষদাৰ কৰাৰ বিয়াৰ কৰাৰ বিয়াৰ সংস্থা বিষদাৰ কৰাৰ বিয়া

H) Profile of Authorised Signatory(ies) to access and operate the account* (As per the applicable authorization of respective entity) (please sign in black ink only)

কাৰ্যালয়/কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি বিপিত ঘূৰাই দিয়া গেৰান্টি পত্ৰ (b) চেক (c) চিকিউৰিটি মুকলি/ সলনি (d) ঋণ পত্ৰৰ অধীনত পৰিশোধ (e) আন যিকোনো উদ্দেশ্যৰ বাবে সূত পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে চিহ্নিত কৰিব লাগে।

(please use another Annexure if the number of authorised signatories are more than 4) latest passport size latest passport size photograph here photograph here Mr./Mrs./Ms./Dr.: _ Mr./Mrs./Ms./Dr.: _ Designation: Designation: _ Please paste Please paste latest passport size latest passport size photograph here photograph here (35mm x 35mm) (35mm x 35mm) Mr./Mrs./Ms./Dr.: _ Mr./Mrs./Ms./Dr.: __ Designation: _ Designation: _

(यदि अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की संख्या 4	के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) की प्रोफाइल* (संबंधित इकाई के 4 से अधिक है तो कृपया एक अन्य अनुलग्नक का उपयोग करें)	7	
कृपया नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो यहाँ चिपकाएँ (35 मिमी x 35 मिमी)	्रहस्ताक्षर श्री /श्रीमती / सुश्री / डॉ.:	कृपया नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो यहाँ चिपकाएँ (35 मिमी x 35 मिमी)	<u>€</u> हस्ताक्षर श्री /श्रीमती / सुश्री / डॉ.:
	पदनाम:	_	पदनामः
कृपया नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो यहाँ चिपकाएँ (35 मिमी x 35 मिमी)	्र हस्ताक्षर श्री /श्रीमती / सुश्री / डॉ.:	कृषया नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो यहाँ चिपकाएँ (35 मिमी x 35 मिमी)	 Æ हस्ताक्षर श्री /श्रीमती / सुश्री / डॉ∴
	पदनामः		पदनामः
) একাউণ্টটো প্ৰাপ্ত আৰু পৰিচালনা কৰিবলৈ কৰ্তৃত্বঃ (অনুগ্ৰহ কৰি আন এটা পৰিশিষ্ট ব্যৱহাৰ কৰক যদি কণ্	প্ৰাপ্ত স্বাক্ষৰকাৰীৰ প্ৰফাইল * (সংশ্লিষ্ট প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰযোজ্য অনুমোদন অনুসৰি) (অনু ৰ্যত্তপাপ সক্ষৰকাৰীৰ সংখ্যা 4 তাকৈ অধিক হয়)	গ্ৰহ কৰি কেৱল ক'লা চিয়াহীৰে স্বাক্ষৰ কৰক)	
অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াত শেহতীয়া পাছপোট আকাৰৰ ফটো পেট কৰক (35 যিমি x 35 মিমি)	শ্র চহী শ্রীমুত/শ্রীমুক্তা/ শ্রীমতী/ ডO:	অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াত শেহতীয়া পাছপোট আকাৰৰ ফটো পেষ্ট কৰক (35 বিনি x 35 বিনি)	শ্রিযুত/শ্রীযুক্তা/ শ্রীমতী/ ডO:
	পদবী:	_	পদবী:
অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াত শেহতীয়া পাছপোট আকাৰৰ ফটো পেট কৰক (35 বিমি x 35 বিমি)	প্র চহী শ্রীযুত/শ্রীযুক্তা/ শ্রীমতী/ ড0:	অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াত শেহতীয়া পাছপোট আকাৰৰ ফটো পেন্ধ কৰক (35 বিনি x 35 বিনি)	প্র চহী প্রীযুক/শ্রীযুক্তা/ শ্রীমতী/ ভO:
	બપવી:		
OPERATING INSTRUCTION*: Mode of Operation: Single	ly Severally (Any one) Jointly	KARTA As per board re	solution Others (please specify)
संचालन निर्देश*: कार्रवाई का तरीका: एकल		कर्ता बोर्ड के प्रस्ताव	
অপাৰেটিং নির্দেশনা*: অপাৰেচনৰ মোড: একক		কাটা বাৰ্ড বিজলিউশ্বন অ	
CREDIT FACILITIES*: //We	do not enjoy any credit facilities with other banks	We enjoy the following 'Credit facilities' with other	r banks (NOC to be provided from other banks)
No.	Bank Name & Branch	Type of Facility	Amount (₹ In Lakhs)
2			

We hereby contrary, having received the POINT in an untramperal valued condition and mentioned deliverable have been received by	क्रेडिट सुविधाएं*:	हम अन्य बैंकों के साथ किसी भी ऋण सुविधा का आनंद नहीं	ं लेते हैं 🔃 हम अन्य बैंकों के साथ निम्नलिखित 'क्रेडिट स्	विधाएं' प्राप्त करते हैं (अन्य बैंकों से अनापति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना ह
The process of process and p	संख्या	बैंक का नाम और शाखा	सुविधा का प्रकार	राशि (₹ लाख में)
Site given:	1			
The DECLARATION: THE DECLARAT	2			
## COCK STATURY COLOR STATURY	ডিট সবিধা * :	মই/আমি আন বেংকৰ পৰা কোনো ঋণ সবিধা উপভোগ নকৰোঁ	মই/আমি আন বেংকৰ পৰা নিম্নলিখিত 'ক্ৰেডিট সবিধা' উপ	ভোগ কৰোঁ ডোন বেন্ধৰ পৰা প্ৰদান কৰিবলগা এন ও চি)
HER DECLARATION:				
HER DECLARATION: (K) Declaration: (M) The heavy confirm, having received the PGRV in an untangened/vested condition and mentioned deliverable have been received by		(दरकव माम आर्बू गाया	সুৰিবাৰ প্ৰকাৰ	পাৰ্মাণ (পাৰ্থ≎ ₹)
HER DECLARATION: KD beclaration: TWo breatly exceeded the PGRX in an untarreport/secolar confidence and mentioned deformable have been received by				
Kine Section [15] We hereby confirm, During received the POOL in an untempered/sealed condition and mentioned deliverable have been received by				
Here through channels mentioned: Email SNG Phone Calls Who have understood the detailed Teme 6 Conditions and Change Shouture of the mentioned Product as explained to me by the Bank staff. Who have understood the detailed Teme 6 Conditions and Change Shouture of the mentioned Product as explained to me by the Bank staff. Who have understood the detailed Teme 6 Conditions and Change Shouture of the mentioned Product as explained to me by the Bank staff. Who have understood the detailed Teme 6 Conditions and Change Shouture of the mentioned Product as explained to me by the Bank staff. Who have the information of the time are a shall available to Plants whether the Bank staff. Plants staff Authorized Signatory(less) (fullisher Shout of the work of the distribution at Rate Observation (Ref. 2) and Change Signatory(less) (fullisher Shout of the work of the Shout Signatory(less) (fullisher Shout of the work of the Shout Signatory (less) Plants staff Signatory(less) (fullisher Shout of the work of the Shout Signatory (less) Plants staff Signatory(less) (fullisher Shout of the Work of the Shout Signatory (less) Plants staff Signatory(less) (fullisher Shout of the Work of the Shout Signatory (less) Plants staff Signatory(less) (fullisher Shout of the Work of the Shout Signatory (less) Plants staff Signatory(less) (full s	GK Declaration:	, having received the PGKN in an untampered/sealed condition and n	nentioned deliverable have been received by	(Name)
We have understood the detailed Tarms & Conditions and Charge Structure of the mentioned Product as explained to me by the Blank staff. We have been informed that the same is also available on Bank's website www.undersh.bank." Automated Structure Automate	onsent for obtaining	ng information on other products and services*	re hereby agree to UTKARSH Small Finance Bank/Subsidian	ries/Holding/Affiliates/Agents contacting me/us for latest products, serv
We have been informed that the same is also available on Bank's workelve www.unfarah.bank." Account Title	offers through chann	els mentioned: E-mail SMS Phor	ne Calls	
Authorised Signaturyless (Basharyless) (Bas	I/ We have understo	od the detailed Terms & Conditions and Charge Structure of the men	tioned Product as explained to me by the Bank staff.	
Please sign Autorized Signatory(see) (Autorized Signatory(see) (Aut		M M V V V V		
Authorised Signatorylies ((Bubber Seal of Entity) required) व्य घोषणा:	ate.	For	Account II	tte
Authorised Signatorylies ((Bubber Seal of Entity) required) व्य घोषणा:				
Authorised Signatorylies ((Bubber Seal of Entity) required) व्य घोषणा:			Pi ·	
(Rubber Seal of Entry required) प्राचार प्रिक्त है कि पीजीकेयन को बिसा उंड्राइश्होंसबंद दियति में प्राप्त किया गया है और उन्नेवियत विदरण योग्य वस्तु इनके द्वारा प्राप्त की गई है? (नाम) वागत पत				
श्रीके घोषणा:				
মান্ধ বুলিল কিয়া যায়। ই কি যাহ জঁক কী বীৰমান্ত www.utkarsh.bank पर भी उपलब्ध है।' ইনাক	उत्पादों, सेवाओं और	अॉं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सहमति* 🛛 🗎 मैंग ऑफ़र के लिए मुझसे संपर्क करने के लिए सहमति व्यक्त करता हूँ/व	करते हैं: ईमेल एसएमएस	फोन
কৃষ্য হা हस्ताक्षर करें प्राचिकृत हस्ताक्षरकर्ता (इकाई की रवर सील आवश्यक है) प्राच (पांचवा: क्रिक्ट (पांचवा: क्रिकट (पांच		-	- " -	
স্যান্য যোষণা:	देनांक: D D	M M Y Y Y Y → </td <td>खाता शीर्षः</td> <td>Б</td>	खाता शीर्षः	Б
স্যান্য যোষণা:				
স্যান্য যোষণা:				
(इकाई की रवर सील आवश्यक है) IJITU ঘোষণা: জিকে ঘোষণা: Y N ইংআমি ইয়াৰ দ্বাৰা নিশ্চিত কৰো, শিজিকেএন এটা অসংলাগুটীল কৰা অৱস্থাত প্ৰাপ্ত কৰাৰ শিহত আৰু উল্লেখ কৰা প্ৰেপন কৰিবপৰাৰ যোগাতাৰে প্ৰাপ্ত কৰা হৈছে				
জকৈ ঘোষণা: Y N ইংআমি ইয়াৰ ধুবা নিশ্চত কৰা, পিজিকেএন এটা অসংলগ্মটীল কৰা অৱস্থাত প্ৰপ্ত কৰাৰ পিছত আৰু উল্লেখ কৰা প্ৰেৰণ কৰিবপৰাৰ যোগ্যতাৰে প্ৰপ্ত কৰা হৈছে				
মাক/আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে: ই.মেইল SMS ফোন কলসমূহ মইগ আমি বেজৰ কৰ্মচাদীসকলে মোক বৰ্ণনা কৰা অনুসৰি উল্লেখিত প্ৰভাৱীৰ বিতং চৰ্তাৱলী আৰু নিয়মাৱলী আৰু শুঙ গাঁখনি বুজি পাইছো। টো আমাক জনোৱা হৈছে যে, তদুপৰি সেইয়া বেজৰ ৱেবছাইট www.utkarsh.bankত উপলব্ধ।" একাউণ্টৰ শিৰোনাম একাউণ্টৰ শিৰোনাম	ন্যান্য ঘোষণা: জিকে ঘোষণা: অই/আমি ইয়াৰ দ্বাৰা নিশ্চিত ধ্বাগতম পত্ৰ		কৰিবপৰাৰ যোগ্যতাৰে প্ৰাপ্ত কৰা হৈছে ⁽⁻	নাম)
মাক/আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে: ই.মেইল SMS ফোন কলসমূহ মইগ আমি বেজৰ কৰ্মচাদীসকলে মোক বৰ্ণনা কৰা অনুসৰি উল্লেখিত প্ৰভাৱীৰ বিতং চৰ্তাৱলী আৰু নিয়মাৱলী আৰু শুঙ গাঁখনি বুজি পাইছো। টো আমাক জনোৱা হৈছে যে, তদুপৰি সেইয়া বেজৰ ৱেবছাইট www.utkarsh.bankত উপলব্ধ।" একাউণ্টৰ শিৰোনাম একাউণ্টৰ শিৰোনাম		a foury isoli oliki sata atra umfu*		THE STATE SHOWS FOR THE STATE
ষ্টি) আমাক জনোৱা হৈছে যে, তদুপৰি সেইয়া বেন্ধৰ ৱেবছাইট www.utkarsh.bank'ত উপলদ্ধ।" তাবিখ:				ৰ সেতে সন্মাত হৈছো।যবোৰে ডপ্লেখ কৰা চেনেলবোৰৰ জাৰয়তে শেহতায়া প্ৰভান্ত, সেৱা আৰু ও
গৰিখ: 🔘 🔘 🕅 🕅 Y Y Y Y 🗡 কাৰণ একাউন্টৰ শিৰোনাম			ন বুজি পাইছো।	
		য, তদুপৰি সেইয়া বেঙ্কৰ ৱেবছাইট www.utkarsh.bankত উপলব্ধ।"		
অনুগ্ৰহ কৰি স্বাক্ষৰ কৰক	তাৰিখ: D D	М М Y Y Y A STAN	একাউন্টৰ শিৱে	ধনাম
অনুগ্ৰহ কৰি যাক্ষৰ কৰক				
অনুগ্ৰহ কৰি স্বাক্ষৰ কৰক				
কৰ্তৃত্বপ্ৰাপ্ত ৰাজ্যকৰানী(সমূহ)				

	Document	No.		2			Documer	ıt No.			3			Docume	nt No.				4		Docum	nent No.	
1	Document N	Vame		\dashv			Document	Name			F			Documer	t Name			_			Docume	ent Name	
Customer Cat			Corn	oorate					C	onstitutio	L on Code	*									Doddiii	01101110	
		etail [1.4/0.11									7									
Field Verification		N EIN	۲	unds Parke		LG Cod										1.0	Va C Code	lue Date	D	D	M] LY L	Y Y Y S Code
Account hela	tionship Manage	EIIN			٦	LG COO	e									Γ	Code						3 Code
Customer sign	ned in my presenc	:e*: Emp.	Name							_	اـــال	ــــــا mp. C	ode			┰┖	7"		ignature				
Tele Confirmat			Name							\dashv		mp. C	<u> </u>			╬	┪		Signature				
	I BY THE BRANCH																						
I hereby certify	that this account of the Bank	pening fo											h Small F ad / Banl		ank Limite	ed							
genuineness of	f the customer.		(as alliel	idea iioiii ti	ine to time	s, anu p	enonneu	ide dilige	illog to v	erity tile	D	D	М	М	Y	Υ	Y]			Signat	ure with S	tamn
	ay please be set up best efforts to ider		eneficial o	wner(s) of th	ne said entit	v The de	tails furnis	hed have	heen ver	fied from	_												·
	henever available i			vinor(5) or a	o odia critic	y. The de	tuno rumo	nou nuvo	DOCH VOI	ilica il olii								_					
											EIN:								Signa	ture:			
	पयोग के लिए:																						
काइ क लिए	प्रस्तुत दस्तावेज़		न आर स	— Ť	िबक खात	ा खालन			दस्तावज	का उल्ल)						7					
	दस्तावेज	Н.		2			दस्तावेज	₩.			3			दस्तावे	ज़ स.			_	4		दस्ता	वेज़ सं.	
	दस्तावेज़ का	नाम				ਰ	स्तावेज़ व	न नाम			L		5	स्तावेज	का नाम						दस्तावेज़	न का नाम	
गहक श्रेणी * :	ख्	<u>बु</u> दरा	कॉपॉ	रिट						संगठन	संहिता	+											
गेल्ड सत्यापन	किया गया* Y	N		संख्या जिसमें केया गया	निधियों को												मूल्य	न तिथि	D	D	ММ	Υ	Y
वाता संबंध प्र	बंधक ईआईएन				_	एलजी :	कोड									Ų.	लसी व	ोड				एव	ा ज्ञाईएस व
		LUL											-			Ļ	ĻL			ĻĻĻ		L	
	स्थिति में हस्ताक्षर वि	ए*: कर्मचा	री का नाम								कर्मच	ारी का	कोड				╛		हस्ताक्षर				
.ली पुष्टिकरण	ा किया गया*:	कर्मचा	ारी का नाम								कर्मच	ारी का	कोड						हस्ताक्षर				
शाखा द्वारा घं			\c		× — c × - ×			ww	0	- (»-	उत्व	र्ष लघु	वित्त बैंव	न लिमिटे	ड के लिए								
के केवाईसी दिश	करता हूं कि यह ख गनिर्देशों (समय-सम	ग्य पर संश										ᢇᢅ	ख/ बैंक 3 ा ===================================	ाधिकारी ।		1		1					
के लिए उचित प	ारिश्रम किया गया है										D	D	М	М	Υ	Υ	Υ				स्टाम्प	के साथ ह	ताक्षर
			कता है।			ਵੈਂ। ਜ਼ੁਰੂ 3	मी सार्वःजनि	க சுப ப்	उपज्रही ह	शे प्रस्तत	अधि	कारी व	त नाम:						पद	नाम:			
खाता कृपया सी [,]		ोकों की पर		रे के मर्जनम	प्रमास किए :	6101010	II (IIGOIIVI	47 (VI (I)	34(104)	n, acger										T0TT.			
वाता कृपया सीः इमने उक्त इका	बाएस म स्थापित । ई के लाभकारी माति को सूचना से सत्यार्		हचान करने	ने के सर्वोत्तम	प्रयास किए						ईआ	ईएन: _							644	।।दार			
ाता कृपया सीः मने उक्त इका	ई के लाभकारी माति		हचान करने	ने के सर्वोत्तम	प्रयास किए						ईआ	ईएन: ₋				_			644	।।दार			
ाता कृपया सी मने उक्त इका जए गए ब्यौरों	ई के लाभकारी मार्ति को सूचना से सत्यार्गि		हचान करने	ने के सर्वोत्तम	प्रयास किए						ईआ	ईएन: ₋							हस्त	।।दार			
ाता कृपया सीः मने उक्त इका फए गए ब्यौरों जल दबङ्ग गुज्जर	ई के लाभकारी मार्ति को सूचना से सत्यार्गि	पेत किया	हचान करने गया है।				ৰা দস্তাবেজ উ	(ল্লখ কৰক))		ईआ	ईएन: <u>-</u>							640				
गता कृपया सी मने उक्त इका फए गए ब्यौरों जल दब्ह गुज़्र	ई के लाभकारी माति को सूचना से सत्यार्ग विवेदावार से स्वार्ग	पेत किया	हचान करने गया है।				ৰা দস্তাবেজ উ দস্তাবেজ)		ईआ	ईएन: <u>-</u>		मङाद					4		দন্তাং	বেজ নং	
गता कृपया सी मने उक्त इका फए गए ब्यौरों जल दब्ह गुज़्र	ई के लाभकारी मारि को सूचना से सत्यार्ग वाबब वादव: थिल कबा प्रखादक नाम प्रखादक	पित किया আৰু নম্বৰ (हचान करने गया है।	ংৰংক একাউন্ট			দস্তাবেঙ	নং)			ईएन: <u>-</u>		मस्रोद	জ ৰং								
गाता कृपया सी। मने उक्त इका केए गए ब्यौरों जिल्ला (तक्क गुजर जिल्ला)	ई के लाअकारी माति को सूचना से सत्यार्ग गंबब वादव: चिन कवा महादवक महादवक	पित किया आबू नश्व (नং	हचान करने गया है। जन्भुधर कि	ংকং একাউন্ট				নং)	TO GRAP	3				জ ৰং					att		বেজ নং	
ৱানা কৃষ্যা মীন দেন বৰুৱে হকা ক্ৰম গাং ভথাঁথা ৱৰু বেছ ব্যৱহ ভিচানৰ বাবে দাৰ্গি আহক শ্ৰেণী*:	ई के लाअकारी मारि को सूचना से सत्या विवाद से सत्या विवाद से स्टार्थ विवाद से सिंग्स विवाद से सिंग्स से सिंग्स विवाद से सिंग्स विवाद से सिंग्स से सिंग	पित किया আৰু নম্বৰ (हचान करने गया है। অনুগ্ৰহ কৰি	ংবংক একাউ-ট 2 2 নেট	ট খোলাৰ বাবে		দস্তাবেঙ	নং		সংবিধা				मस्रोद	জ ৰং				4			বেজ নং	
ৱানো কৃষ্যা सी। মন বৰুনে হকা কৈং যাং ভ্যাঁং বৰুন বেক্ক ব্যৱহ তিষ্ঠানৰ বাবে পা হক শ্ৰেণী*: ক্ষুত্ৰ প্ৰমাণীকৰৰ স	ई के लाभकारी माति को सूचना से सत्या विव वाद्य: चिन कवा पछादब्ब पछादब्ब प्रष्टादब्ब	पित किया आबू नश्व (नः	हचान करने गया है। অনুগ্ৰহ কৰি	ংকং একাউন্ট	ট খোলাৰ বাবে	দাখিল কব	দস্তাবেজ দস্তাবেজৰ	নং		সংবিধা	3			मस्रोद	জ ৰং			মান তাৰিখ	4	D [বেজ নং বজৰ নাম	Y
ৱানো কৃষ্যা सी। মন বৰুনে হকা কৈং যাং ভ্যাঁং বৰুন বেক্ক ব্যৱহ তিষ্ঠানৰ বাবে পা হক শ্ৰেণী*: ক্ষুত্ৰ প্ৰমাণীকৰৰ স	ई के लाअकारी मारि को सूचना से सत्या विवाद से सत्या विवाद से स्टार्थ विवाद से सिंग्स विवाद से सिंग्स से सिंग्स विवाद से सिंग्स विवाद से सिंग्स से सिंग	पित किया आबू नश्व (नः	हचान करने गया है। অনুগ্ৰহ কৰি	ংবংক একাউ-ট 2 2 নেট	ট খোলাৰ বাবে		দস্তাবেজ দস্তাবেজৰ	নং		সংবিধা	3			मस्रोद	জ ৰং	এথ	লিচি কোণ	মান তাৰিখ	4	D [বেজ নং বজৰ নাম	Y Y আইএছ কো
ৱানা কৃষ্যা सীন দেন উক্ত হকা ক্রম্ম হাত ভ্যাঁথ্য ব্রল বেক্ষ ব্যবহ ভিচানৰ বাবে দা ্রাহক প্রেণী*:	ई के लाभकारी माति को सूचना से सत्या विव वाद्य: चिन कवा पछादब्ब पछादब्ब प्रष्टादब्ब	चित किया	हचान करने गया है। অনুগ্ৰহ কৰি	ংবংক একাউ-ট 2 2 নেট	ট খোলাৰ বাবে	দাখিল কব	দস্তাবেজ দস্তাবেজৰ	নং		সংবিধা	3			मस्रोद	জ ৰং	@? 		মান তাৰিখ	4	D [বেজ নং বজৰ নাম	Y
ৱানা কৃদযা सী দেন उক্ত কৰা কৈ গণ ভৰ্যীয়াঁ বল বেন্ধ ব্যৱহ ডিষ্ঠানৰ বাবে দা তিষ্ঠানৰ বাবে দা ক্ৰিল্ল প্ৰমাণীকৰন স ক্ৰোপ্ৰমাণীকৰন স ক্ৰোপ্ৰমাণীকৰন স	ई के लाअकारी माति को सूचना से सत्यार्ग गंबन वादव: चिन कवा पड़ादिक नाभ पड़ादिक पड़ादबान पुर्वे पुरवे पुरव पुरवे पुरव पुरव पुरव पुरव पुरव पुरव पुरव पुरव	থান किया আৰু নম্বৰ (নং নাম চুৰা	हचान करने गया है। অনুগ্ৰহ কৰি কপোঁ	ংবংক একাউ-ট 2 2 নেট	ট খোলাৰ বাবে	দাখিল কব	দস্তাবেজ দস্তাবেজৰ	নং		সংবিধা	3 [*	কাড	मस्रोद	জ ৰং	4		মান তাৰিখ	4	D [বেজ নং বজৰ নাম	Y Y Y N N N N N N N N N N N N N N N N N
য়ানা কৃদযা सी। মন বৰুনে হকা কৈ যাৎ ভথাঁথাঁ বৰুন বেন্ধ ব্যৱহ তিষ্ঠানৰ বাবে দা হক শ্ৰেণী*: ক্ষেত্ৰ প্ৰমাণীকৰণ স কোউ-ট সম্পৰ্ক ব যাহকে মোৰ উপঞ্চি	ई के लाअकारी मारि को सूचना से सत्या विव वादव: धन कवा महादिक नाम महादिकाव: भू । पुत्रश्चां पू । पुत्रश्चां पू । पुत्रश्चां पुत्रश्चां के विवादिक ।	থান किया আৰু নম্বৰ (নং নাম চুৰা	हचान करने गया है। অনুগ্ৰহ কৰি কৰ্পোহ চাৰী নাম	ংবংক একাউ-ট 2 2 নেট	ট খোলাৰ বাবে	দাখিল কব	দস্তাবেজ দস্তাবেজৰ	নং		সংবিধা	3 [*	কাড	महादव	क्र नः	41		মান তাৰিখ	4 ি ি ি চিহী	D [বেজ নং বজৰ নাম	Y \ \ \ \ \ \ আইএছ কো
ৱানা কৃদযা सী। দেন उক্ত কৰা কৈ গণ ভ্যাঁথ্য বল বেচ্ছ ব্যৱহ তিষ্ঠানৰ বাবে দা ভ্যাহক শ্রেণী*: ক্ষা প্রমাণীকৰন স কো উপস্থি টাল নিশ্চিতকৰণ : আধাৰ দাবা ঘোষ ই ইয়াৰ দ্বাৰা প্রমাণ	ई के लाअकारी मारि को स्चना से सत्या। विव वाद्य: थन कवा पड़ादब्ब नाम पड़ादब्ब पड़ादब्ब पड़ादब पड़ाद पड्हाद पड्हाद पड़ाद पड्हाद पड़ाद पड़ाद पड़ाद पड्हाद पह्हा	আৰু নম্বৰ (নাম চুৰা	हचान करने गया है। অনুগ্ৰহ কৰি কপোল ভ	ংক একাউন্ট 2 বেট একাউন্ট নম্বৰ প	ট খোলাৰ বাবে বাৰ্ক কৰা পুঁজি। বিহৈছে আবু বেহু আবু বেহু	দাখিল ক এলজি বে এলজি বে জ্ঞাবু আৰা	দস্তাবেজৰ দস্তাবেজৰ কাড	नाम			3 ি ি বিশ্ব বিশ্র বিশ্ব বিশ্র	* * * * * * * * * * * * *	কাড	महादव	क्र नः	41		মান তাৰিখ	4 ি ি ি চিহী	D [বেজ নং বজৰ নাম	Y Y Y N N N N N N N N N N N N N N N N N
আনা কৃদথা सী। মেন ওকৰে হকা কৈ গা ভথাঁবাঁ বল বেন্ধ ব্যৱহ তিষ্ঠানৰ বাবে দা আহক শ্ৰেণী*: ক্ষা প্ৰমাণীকৰণ স কোউ-ট সম্পৰ্ক ব আহকে মোৰ উপন্থি টাল নিশ্চিতকৰণ : আধাৰ দ্বাৰা ঘোষ ই ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰমাণি	ई के लाअकारी मार्ति को सूचना से सत्यार्ग गवब वादव: धन कवा पछादब्ब नाम पछादब्बव: पछादब्बव: पुष्ठावुद्धांभक देखाई-धन जिंच शाकव कविद्दः: मण्डादं	ত্বাবু নম্বৰ (নং নাম চুৰা	हचान करने गया है। অনুগ্ৰহ কৰি কপো ে এ ক্ৰিকাৰ্য নিকাভ প্ৰখন সকলে	ংক একাউন্ট 2 বেট একাউন্ট নম্বৰ প	ট খোলাৰ বাবে বাৰ্ক কৰা পুঁজি। বিহৈছে আবু বেহু আবু বেহু	দাখিল ক এলজি বে এলজি বে জ্ঞাবু আৰা	দস্তাবেজৰ দস্তাবেজৰ কাড	नाम			3 ি ি বিশ্ব বিশ্র বিশ্ব বিশ্র	* * * * * * * * * * * * *	কাড কাড	महादव	क्र नः	4 () () () () () () () () () (মান তাৰিখ	4 ি ি ি চিহী		некса М М	বেজ নং ভাজৰ নাম	Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ৱানা কৃদযা सी। দেন उক্ত কৰা কৈ গণ ভ্যাংঁ বিল বেক্ক ব্যৱহ তিষ্ঠানৰ বাবে দা ভ্যাংক শ্রেণী*: ক্ষর প্রমাণীকৰণ স কোউ-ট সম্পর্ক ব তিল নিশ্চিতকৰণ : আধাৰ দ্বাৰা ঘোষ ই ইয়াৰ চ্বাৰ প্রমাণীপ্ত কনা গৈছে সেমা কাউ-টটো অনুগ্রহ	ई के लाअकारी मारि को सूचना से सत्या विव वादवः विव कवा पछादवक नाम पछादवकवः पछादकवः पुष्ठावकवः पु	আৰু নম্বৰ (নাং নাম চুৰা	हचान करने गया है। অনুগ্ৰহ কৰি কপোৱে এ কিলাৰ নাম বি কোড প্ৰথম সকলে গ্ৰহিকৰ প্ৰকৃত	েবংক একাউন্ট 2 বেট বেট একাউন্ট নম্বৰ প	ট খোলাৰ বাবে গাৰ্ক কৰা পুঁজি। গিইছে আৰু বেহু বাবে যথামধ্য পাঁ	দাখিল কৰ্ এলজি বে এলজি বে জি আৰু আৰ্ব	দন্তাবেজব দন্তাবেজব গাড	নং নাম	অনুসৰি প্ৰাস	জিক নথিপত্র	3 ি ি বিদ্যালয়	* * * * * * * * * * * * *	কাড কাড কাড কাড কাউনেন্স বেশ্ব বঙ্ক বিষয়া	দন্তাবে	क्र नः	مه ا		মান তাৰিখ	4 ি ি ি চিহী		некса М М	বেজ নং বজৰ নাম	
ানো কৃদযা सी। দেব বৰুলে হকা চুম বাত হুমী বাঁ বুল বেক্ক ব্যৱহ তিষ্ঠানৰ বাবে দা হুমাণীকৰণ স কাউ-ট সম্পৰ্ক ব হুমাণীকৰণ ব হুমাণীকৰ	ई के लाअकारी मारि को स्चना से सत्या। विव वादव: चित्र कवा पछादबळ नाम पछादबळ पछादबळव प्रचेट प्रच प्रचेट प्रचेट प्रचेट प्रचेट प्रचेट प्रचेट प्रचेट प्रचेट प्रचेट प्रचेट प्रचेट प्रचेट प्रचेट प्रचेट प्रचेट प्रच प्रच प्रच प्रच प्रच प्रच प्रच प्रच	আৰু নম্বৰ (নাং নাম চুৰা	हचान करने गया है। অনুগ্ৰহ কৰি কপোৱে এ কিলাৰ নাম বি কোড প্ৰথম সকলে গ্ৰহিকৰ প্ৰকৃত	েবংক একাউন্ট 2 বেট বেট একাউন্ট নম্বৰ প	ট খোলাৰ বাবে গাৰ্ক কৰা পুঁজি। গিইছে আৰু বেহু বাবে যথামধ্য পাঁ	দাখিল কৰ্ এলজি বে এলজি বে জি আৰু আৰ্ব	দন্তাবেজব দন্তাবেজব গাড	নং নাম	অনুসৰি প্ৰাস	জিক নথিপত্র	3 [* * * * * * * * * * * * *	কাডকাড	দন্তাবে	क्र नः	4 () () () () () () () () () (মান তাৰিখ	চহী	০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০	मडादव M M	বেজ নং ভাজৰ নাম	P)

M) PGK ACKNOWLEDGEMENT: पीज़ीके पातनीः পিজিকে স্বীকৃতি: Bar Code Number: बार कोड संख्या: বাৰ কোড নম্বৰ: *CIF ID Please affix acknowledgement for PGK *सीआईएफ आईडी नि *চিআইএফ আইডি received from Account Holder. সনুগ্ৰহ কৰি একাউণ্ট ধাৰকৰ পৰা প্ৰাপ্ত कृपया खाता धारक से पीजीके के *Account Number *खाता संख्या *একাউন্ট নম্বৰ (To be filled in by a Bank Official) (बैंक अधिकारी द्वारा भरा जाना है) (বেঙ্ক বিষয়া এজনৰ দ্বাৰা পূৰণ কৰিব লাগিব) N) NOMINATION DETAILS* (ONLY FOR SOLE PROPRIETORSHIP): Yes, I/We wish to nominate No, I/We have been explained about the benefits of the nomination facility. However, I would like to inform you that I do not wish to provide nomination for account. Nomination under section 45 ZA of the Banking Regulation Act, 1949 and rule 2(1) of the Banking Companies (Nomination) Rule 1985 in the respect of bank deposits. Address nominate the following person to whom in the event of my/our/minor's death the amount of the opened Account/Fixed Deposits may be returned by Utkarsh Small Finance Bank Ltd. by the account opening branch. This nomination will be applicable for Savings/Current and Term Deposit. Nominee Name Please tick if nominee address is same as mailing address of the applicant Nominee Age Years Flat No.* & Bldg Name* Road No./Name Landmark* Village/P0* District/City* Pin Code Country* State* Relationship with depositor* if any Date of Birth of Nominee Relationship with Minor (Mandatory in case of minor) (Leave BLANK if nominee is not a minor) As nominee is a minor on this date, I appoint, Name of age Address Relationship with Minor Signature of Applicant / (Proprietor) Without Rubber Stamp of Entity to receive the amount of the deposit in the account on behalf of the nominee in the event of my minor's death during the minority of the nominee Personal detail of the Witness (Thumb impression shall be attested by 2 witness) Witness 1 Name Signature Place_ Date Address Witness 2 Name Signature Date Place Address Where deposit is made in the name of a minor, the nomination should be signed by a person lawfully entitled to act on behalf of the minor. Thumb impression(s) shall be attested by two witnesses. N) नामांकन विवरण* (केवल एकमात्र स्वामित्व के लिए): हाँ, मैं / हम नामित करना चाहते हैं 🔃 नहीं, मुझे /हमें नामांकन सुविधा के लाओं के बारे में समझाया गया है। तथापि, मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि मैं खाते के लिए नामांकन प्रदान नहीं करना चाहता हूं। बैंक जमा के संबंध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 जेडए और बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम 1985 के नियम 2 (1) के तहत नामांकन।

निम्नलिखित व्यक्ति को नामित करें जिसे मेरी /हमारी / अवयस्क की मृत्यु की स्थिति में खोला गया खाता / सावधि जमा की राशि उत्कर्ष लघु वित बैंक लिमिटेड द्वारा खाता खोलने वाली शाखा द्वारा वापस की जा सकती है। यह नामांकन बचत/चालू और सावधि जमा के लिए लागू होगा।

गमिती का नाम																													
यदि नामिती का	पता आवेदक	के पत्राच	ार पते के	समान	है तो कृ	पया वि	टेक क	Ť	ना	मिती की	आयु		ਰਾ	\$															
म्लैट संख्या* और बेल्डिंग नाम*																													
मड़क संख्या/नाम																													
भैंडमार्क*																													
जेला/शहर*											गांव/डा	कघर'	*																
ाज्य∗										:	देश*												पिन	कोड*					
रूभाष											;	जमाव	नर्ता* के र	साथ स यदि को															
ामिती के जन्म की त वयस्क के मामले में अर्वि	निवार्य)	D D	M	M	Υ	Υ	Υ	Υ											31	वयस्व	के स	गथ सं	बंध 🏻						
गिद नामिती अवयस्क नर्ह कि नामिती इस तारीख			ਦ ਸੈਂ Γ																								जिस	की उम्र	
नेयुक्त करता हूं, नाम- ता-]		_								 	⊔∟ यस्क	⊔∟ के सा	⊔∟ थ संबं¹	<u>ម</u>						
— को नामिती की अव	व्यस्कता के दौर	ान मेरे अव	गस्क की मृत	न्यु की सि	थति में न	ामिती ः	की ओर	से खात	ते में ज	मा राशि	प्राप्त कर	रने के	लिए।										आवेत इका	दक / (ई के र	मालिक खर स्टे) के हर टेम्प के	स्ताक्षर, ह बिना		
गक्षी का ट्यक्तिगत ि	विवरण	(भंगठे का	निशान 2 गर	गहों दवाग	मत्यापित '	किया ज	गमा चाहि	tu)																					
ावाह 1 नाम				\$1. 4(41.1)																हर	नाक्षर	-							
ਗ													الـــالـ								थान_				_ दिन	गंक			
						7													_										
वाह 2 नाम																					-ताक्षर								
ता हां अवयस्क के नाम प																			_	Ŧ	थान_				दिन	गंक _			
নয়নৰ বিৱৰণ* (কেৱল এ হয়, মই/আমি মনোনীত জং নিয়ন্ত্ৰণ আইন, 1949-ৰ ধাৰা	ত কৰিব বিচাৰো	মনোনয়ন আৰু	ী নহয়, মনে	ানয়ন সুবিধা						া হৈছে। ত	মৱশ্যে, মই	ই আপো	নাক জনাব	বিচাৰিছেঁ	াঁযে মই এ	একাউন্ট	ৰ বাবে ম	নোনয়ন	প্রদান ক		াৰো । ঠিকনা								
ানয়নৰ বিৱৰণ* (কেৱল এ হয়, মই/আমি মনোনীত হিং নিয়ন্ত্ৰণ আইন, 1949-ৰ ধাৰা ই/আমি	একমাত্ৰ স্বত্বাধিকাৰী চ কৰিব বিচাৰো i 45 Z.Aৰ অধীনত	মনোনয়ন আৰু	নহয়, মনে বেঙ্ক জমাৰ ক্ষে	ানয়ন সুবিধা হত বেঙ্কিং বে নাম	গম্পানীৰ (মটে	নানয়ন) 1	নিয়ম 198:	5-ৰ নিয়ম	72(1)			ঠিকনা	<i>-</i>								ঠিকনা	্ৰান বাবে মাৰ বাবে	প্রভাক	ন হাব।					
ানয়নৰ বিৱৰণ* (কেৱল এ হয়, মই/আমি মনোনীত জিং নিয়ন্ত্ৰণ আইন, 1949-ৰ ধৰা ই/আমি	একমাত্ৰ স্বত্বাধিকাৰী চ কৰিব বিচাৰো i 45 Z.Aৰ অধীনত	মনোনয়ন আৰু	নহয়, মনে বেঙ্ক জমাৰ ক্ষে	ানয়ন সুবিধা হত বেঙ্কিং বে নাম	গম্পানীৰ (মটে	নানয়ন) 1	নিয়ম 198:	5-ৰ নিয়ম	72(1)			ঠিকনা	<i>-</i>								ঠিকনা	মাৰ বাবে	প্রযোজ	 हा इप्बा					1
ানয়নৰ বিৱৰণ* (কেৱল এ হয়, মই/আমি মনোনীত জিং নিয়ন্ত্ৰণ আইন, 1949-ৰ খৰা ই/আমি াৰ/আমাৰ/নাবালকৰ মৃত্যুৰ নেনীত ব্যক্তিৰ নাম	একমাত্ৰ স্বত্বাধিকাৰী চ কৰিব বিচাৰো i 45 ZA -ৰ অধীনত ক্ষেত্ৰত নিম্নলিখিত	নাৰ বাবে): মনোনয়ন আৰু ব্যক্তিজনক ম	নহয়, মনে বেদ্ধ জমাৰ ক্ষে	ানয়ন সুবিধা লত বেঙ্কিং বে নাম	াম্পানীৰ (ম	নানয়ন) i	নিয়ম 198:	5-ৰ নিয়ম	হ(1)।	পজিটৰ পৰি	ন্মাণ উৎক	ঠিকনা	ফাইনেন্স ্রে	বঙ্ক লিমিটে							ঠিকনা	মাৰ বাবে	প্রযোজ	ন্য হ'ব।					
ানয়নৰ বিৱৰণ* (কেৱল এ হয়, মই/আমি মনোনীত ছিং নিয়ন্ত্ৰণ আইন, 1949-ৰ ধৰা ই/আমি াৰ/আমাৰ/নাবালকৰ মৃত্যুৰ (নোনীত ব্যক্তিৰ নাম অনুগ্ৰহ কৰি টক কৰক	একমাত্র স্বত্ত্বাধিকার কর্মান্তর স্বত্ত্বাধিকার করেনি বিচারো এব সেন ব অধীনত ক্ষেত্রত নিমালিখিত যদি মনোনীত ব্য	নাৰ বাবে): মনোনয়ন আৰু ব্যক্তিজনক ম	নহয়, মনে বেদ্ধ জমাৰ ক্ষে	ানয়ন সুবিধা লত বেঙ্কিং বে নাম	াম্পানীৰ (ম	নানয়ন) i	নিয়ম 198:	5-ৰ নিয়ম	হ(1)।		ন্মাণ উৎক	ঠিকনা	<i>-</i>	বঙ্ক লিমিটে							ঠিকনা	মাৰ বাবে	প্রযোজ	त्तर श व।					
ানয়নৰ বিৱৰণ* (কেৱল এ হয়, মই/আমি মনোনীত জৈ নিয়ন্ত্ৰণ আইন, 1949-ৰ থবা ব/আমি ব/আমি ব্যান্ত্ৰণ নাম অনুগ্ৰহ কৰি টক কৰক ট নম্বৰ*আৰু বিগ্ৰলভিজি না	একমাত্র স্বত্ত্বাধিকার কর্মান্তর স্বত্ত্বাধিকার করেনি বিচারো এব সেন ব অধীনত ক্ষেত্রত নিমালিখিত যদি মনোনীত ব্য	নাৰ বাবে): মনোনয়ন আৰু ব্যক্তিজনক ম	নহয়, মনে বেদ্ধ জমাৰ ক্ষে	ানয়ন সুবিধা লত বেঙ্কিং বে নাম	াম্পানীৰ (ম	নানয়ন) i	নিয়ম 198:	5-ৰ নিয়ম	হ(1)।	পজিটৰ পৰি	ন্মাণ উৎক	ঠিকনা	ফাইনেন্স ্রে	বঙ্ক লিমিটে							ঠিকনা	মাৰ বাবে	প্রযোজ	त्तर श्व।					
ানয়নৰ বিৱৰণ* (কেৱল এ হয়, মই/আমি মনোনীত ছিং নিয়ন্ত্ৰণ আইন, 1949-ৰ ধৰা ই/আমি নানীত ব্যক্তিৰ নাম অনুগ্ৰহ কৰি টক কৰক ইট নম্বৰ*আৰু বিগ্ৰলভিজি না	একমাত্র স্বত্ত্বাধিকার কর্মান্তর স্বত্ত্বাধিকার করেনি বিচারো এব সেন ব অধীনত ক্ষেত্রত নিমালিখিত যদি মনোনীত ব্য	নাৰ বাবে): মনোনয়ন আৰু ব্যক্তিজনক ম	নহয়, মনে বেদ্ধ জমাৰ ক্ষে	ানয়ন সুবিধা লত বেঙ্কিং বে নাম	াম্পানীৰ (ম	নানয়ন) i	নিয়ম 198:	5-ৰ নিয়ম	হ(1)।	পজিটৰ পৰি	ন্মাণ উৎক	ঠিকনা	ফাইনেন্স ্রে	বঙ্ক লিমিটে							ঠিকনা	মাৰবাবে	প্রযোজ	स इथा					
ানয়নৰ বিৱৰণ (কেৱল এ হয়, মই/আমি মনোনীত ছিং নিয়ন্ত্ৰণ আইন, 1949-ৰ ধৰা ই/আমি নানীত ব্যক্তিৰ নাম অনুগ্ৰহ কৰি টিক কৰক ইট নম্বৰ+আৰু বিগ্ৰলভিজি না ধান্যম	একমাত্র স্বত্ত্বাধিকার কর্মান্তর স্বত্ত্বাধিকার করেনি বিচারো এব সেন ব অধীনত ক্ষেত্রত নিমালিখিত যদি মনোনীত ব্য	নাৰ বাবে): মনোনয়ন আৰু ব্যক্তিজনক ম	নহয়, মনে বেদ্ধ জমাৰ ক্ষে	ানয়ন সুবিধা লত বেঙ্কিং বে নাম	াম্পানীৰ (ম	নানয়ন) i	নিয়ম 198:	5-ৰ নিয়ম	হ(1)।	পজিটৰ পৰি	ৰমাণ উৎক	ঠিকনা	ক্ষাইনেপ বে	বঙ্ক লিমিটে							ঠিকনা	মাৰ বাবে	প্রযোজ	ग्र रूप।					
ানয়নৰ বিৱৰণ* (কেৱল এ হয়, মই/আমি মনোনীত ছিং নিয়ন্ত্ৰণ আইন, 1949-ৰ থবা ই/আমি াব/আমাৰ/নাবালকৰ মৃত্যুৰ নোনীত ব্যক্তিৰ নাম অনুগ্ৰহ কৰি টক কৰক ছট নম্বৰ*আৰু বিগ্ৰলভিজি না থ নং/নাম প্ৰথমকি* লগ্ৰমকি*	একমাত্র স্বত্ত্বাধিকার কর্মান্তর স্বত্ত্বাধিকার করেনি বিচারো এব সেন ব অধীনত ক্ষেত্রত নিমালিখিত যদি মনোনীত ব্য	নাৰ বাবে): মনোনয়ন আৰু ব্যক্তিজনক ম	নহয়, মনে বেদ্ধ জমাৰ ক্ষে	ানয়ন সুবিধা লত বেঙ্কিং বে নাম	াম্পানীৰ (ম	নানয়ন) i	নিয়ম 198:	5-ৰ নিয়ম	হ(1)।	পজিটৰ পৰি	ন্দ্ৰমাণ উৎক ব বয়স গাঁও/ড	ঠিকনা	ক্ষাইনেপ বে	বঙ্ক লিমিটে							ঠিকনা	মাৰবাবে							
ানয়নৰ বিৱৰণ (কেৱল এ হয়, মই/আমি মনোনীত ছিং নিয়য়ণ আইন, 1949-ৰ খবা ই/আমি াব/আমাব/নাবালকৰ মৃত্যুব (নোনীত ব্যক্তিৰ নাম অনুগ্ৰহ কৰি টক কৰক ছট নম্বৰ আৰু বিগ্ৰপ্ৰভিজি না যাব/নাম	একমাত্র স্বত্ত্বাধিকার কর্মান্তর স্বত্ত্বাধিকার করেনি বিচারো এব সেন ব অধীনত ক্ষেত্রত নিমালিখিত যদি মনোনীত ব্য	নাৰ বাবে): মনোনয়ন আৰু ব্যক্তিজনক ম	নহয়, মনে বেদ্ধ জমাৰ ক্ষে	ানয়ন সুবিধা লত বেঙ্কিং বে নাম	াম্পানীৰ (ম	নানয়ন) i	নিয়ম 198:	5-ৰ নিয়ম	হ(1)।	পজিটৰ পৰি	ৰমাণ উৎক	ঠিকনা	ক্ষাইনেপ এ	বৰঙ্ক লিমিটে	ি						ঠিকনা	মাৰ বাবে		ন্য হ'ব।					
ানয়নৰ বিৱৰণ (কেৱল এ হয়, মই/আমি মনোনীত হিং নিয়ন্ত্ৰণ আইন, 1949-ৰ খবা ই/আমি াৰ/আমাৰ/নাবালকৰ মৃত্যুৰ C নানীত ব্যক্তিৰ নাম অনুপ্ৰহ কৰি টক কৰক হট নম্বৰ আৰু বিপ্ৰপ্ৰতিজি না য নং/নাম শণ্ডমাৰ্ক জ্যা নানীত ব্যক্তিৰ জন্ম তাৰিখ নানীত ব্যক্তিৰ জন্ম তাৰিখ	একমাত্র স্বস্থাধিকার ক কবিব বিচারো 45 ZA -ব কণীনত ক্ষত্রত নিমালিখিত যদি মনোনীত বা	নাৰ বাবে): মনোনয়ন আৰু ব্যক্তিজনক ম	নহয়, মনে বেদ্ধ জমাৰ ক্ষে	ানয়ন সুবিধা লত বেঙ্কিং বে নাম	াম্পানীৰ (ম	নানয়ন) i	নিয়ম 198:	5-ৰ নিয়ম	হ(1)।	পজিটৰ পৰি	ন্দ্ৰমাণ উৎক ব বয়স গাঁও/ড	ঠিকনা	ক্ষাইনেপ বে	বঙ্ক লিমিট	ি					লৈত আৰু	ম্যাদী জ	মাৰবাবে	পিন						
ানয়নৰ বিৱৰণ (কেৱল এ হয়, মই/আমি মনোনীত ছিং নিয়ন্ত্ৰণ আইন, 1949-ৰ ধৰা ই/আমি াৰ/আমাৰ/নাবালকৰ মৃত্যুৰ C নোনীত ব্যক্তিৰ কাম অনুগ্ৰহ কৰি টক কৰক হট নম্বৰ+আৰু বিগ্ৰলভিজি না থ নংনাম লওমাৰ্ক* জ্যুক্ত নোনীত ব্যক্তিৰ জন্ম তাৰিষ বালকৰ ক্ষেত্ৰত বাধ্যতাসূক্ত নোনীত ব্যক্তিৰ জন্ম তাৰিষ বালকৰ ক্ষেত্ৰত বাধ্যতাসূক্ত নোনীত ব্যক্তি নাবালক নহলে খা	একমাত্র স্বস্থাধিকার ক কবিব বিচারো 45 ZA -ব কণীনত ক্ষত্রত নিম্নালিখিত যদি মনোনীত ব্য যদি মনোনীত মন্দি মন্দি মনোনীত ব্য যদি মনোনীত মন্দি মন্	নাৰ বাবে): মনোনয়ন আবু ব্যক্তিজনক ম ক্ৰিলৰ ঠিকনা থ	নহয়, মনেকে জমাব ক্ষে	নামন সুবিধা নাম বিধা নাম কিছিল বি নাম কিছিল বি	াম্পানীৰ (ম	নানয়ন) i	নিয়ম 198:	5-ৰ নিয়ম	হ(1)।	পজিটৰ পৰি	ন্দ্ৰমাণ উৎক ব বয়স গাঁও/ড	ঠিকনা	ক্ষাইনেপ এ	বঙ্ক লিমিট	টডে ঘ্ৰা					লৈত আৰু	ম্যাদী জ		পিন						
ানয়নৰ বিৱৰণ কৈৱল এ তুয়, মই/আমি মনোনীত ছিং নিয়ন্ত্ৰণ আইন, 1949-ৰ ধৰা ই/আমি াৰ/আমাৰ/নাবালকৰ মৃত্যুৰ েনানীত ব্যক্তিৰ নাম অনুগ্ৰহ কৰি টক কৰক ছট নম্বৰ*আৰু বিগ্ৰলভিজি না থ নাংনাম শণ্ডমাৰ্ক* জি নানীত ব্যক্তিৰ জন্ম তাৰিষ বালকৰ ক্ষেত্ৰত বাধ্যতামূলক) নোনীত ব্যক্তিৰ জন্ম তাৰিষ বালকৰ ক্ষেত্ৰত বাধ্যতামূলক) নোনীত ব্যক্তিৰ নাবালক নহলে খা	একমাত্র স্বস্থাধিকার ক কবিব বিচারো 45 ZA -ব কণীনত ক্ষত্রত নিম্নালিখিত যদি মনোনীত ব্য যদি মনোনীত মন্দি মন্দি মনোনীত ব্য যদি মনোনীত মন্দি মন্	াৰ বাবে): মনোনয়ন আবু ব্যক্তিজনক ম	নহয়, মনেকে জমাব ক্ষে	নামন সুবিধা নাম বিধা নাম কিছিল বি নাম কিছিল বি	াম্পানীৰ (ম	নানয়ন) বি	নিয়ম 198:	5-ৰ নিয়ম	হ(1)।	পজিটৰ পৰি	ন্দ্ৰমাণ উৎক ব বয়স গাঁও/ড	ঠিকনা	ক্ষাইনেপ এ	বঙ্ক লিমিট	টডে ঘ্ৰা					লৈত আৰু	ম্যাদী জ		পিন					বয়সৰ	
ানয়নৰ বিৱৰণ (কেৱল এ হয়, মই/আমি মনোনীত ছিং নিয়ন্ত্ৰণ আইন, 1949-ৰ ধৰা ই/আমি াৰ/আমাৰ/নাবালকৰ মৃত্যুৰ C নোনীত ব্যক্তিৰ নাম অনুগ্ৰহ কৰি টক কৰক ষ্ট নম্বৰ*আৰু বিগ্ৰলভিজি না থ নং/নাম শণ্ডমাৰ্ক* জ্যা কানীত ব্যক্তিৰ জন্ম তাৰিখ বাধাকৰৰ ক্ষেত্ৰত বাধাতামূলক) নোনীত ব্যক্তিৰ জন্ম তাৰিখ বাধাকৰৰ ক্ষেত্ৰত বাধাতামূলক) নোনীত ব্যক্তি নাবাক নহলে খা ই তাৰিখত মনোনীত ব্যক্তি গ্ৰহ	একমাত্র স্বস্থাধিকার ক কবিব বিচারো 45 ZA -ব কণীনত ক্ষত্রত নিম্নালিখিত যদি মনোনীত ব্য যদি মনোনীত মন্দি মন্দি মনোনীত ব্য যদি মনোনীত মন্দি মন্	াৰ বাবে): মনোনয়ন আবু ব্যক্তিজনক ম	নহয়, মনেকে জমাব ক্ষে	নামন সুবিধা নাম বিধা নাম কিছিল বি নাম কিছিল বি	াম্পানীৰ (ম	নানয়ন) বি	নিয়ম 198:	5-ৰ নিয়ম	হ(1)।	পজিটৰ পৰি	ন্দ্ৰমাণ উৎক ব বয়স গাঁও/ড	ঠিকনা	ক্ষাইনেপ এ	বঙ্ক লিমিট	টডে ঘ্ৰা					নাব	ম্যাদী জ		পিন					বয়সৰ	
ানয়নৰ বিৱৰণ (কেৱল এ হয়, মই/আমি মনোনীত ছিং নিয়ন্ত্ৰণ আইন, 1949-ৰ ধৰা ই/আমি াৰ/আমাৰ/নাবালকৰ মৃত্যুৰ C নোনীত ব্যক্তিৰ কাম আনুগ্ৰহ কৰি টক কৰক ছট নম্বৰ*আৰু বিগ্ৰলভিজি না থ নং/নাম লণ্ডমাৰ্ক* জ্যা লি নোনীত ব্যক্তিৰ জন্ম তাৰিখ বাধাকৰে ক্ষেত্ৰত বাধাতানুক্ৰ) নোনীত ব্যক্তি নাবাধাতানুক্ৰ নানীত ব্যক্তি নাবাধান্ত ব্যক্তি নাবাধান্ত নানীত ব্যক্তি নাবাধান্ত নানী নাবাধান্ত নানী ব্যক্তি নাবাধান্ত নানী নাবাধান্ত নানী ব্যক্তি নাবাধান্ত নানী	একমাত্র স্বস্থাধিকার ত কবিব বিচাবো কেব্রুত নিম্নালিখিত ক্ষেত্রত নিম্নালিখিত বাস ক্ষেত্রত নিম্নালিখিত বাস ক্ষেত্রত নিম্নালিখিত বাস ক্ষেত্রত নিম্নালিখিত ক্ষেত্রত নিম্ন	নাৰ বাবে): মনোনয়ন আবু ব্যক্তিজনক ম ক্ৰিকেৰ ঠিকনা থ	নহয়, মনেকে জমাব ক্ষে বিদ্যালয় কিবল বানোনীত কৰক মাবেদনকাৰীৰ মাবেদনকাৰীৰ মাবেদনকাৰীৰ মাবেদনকাৰীৰ	নামন সুবিধা নাম ব্যবিধা নাম নাম নাম নাম নাম নাম নাম নাম নাম না	্যান্দানি (মা	নানয়ন) ি ৰ দ্বাৰা ে একে হ	নিয়ম 198:	s-ৰ নিয়ম ডি-ট/ফি	হ(1)।	পজিটৰ পৰি	ন্দ্ৰমাণ উৎক ব বয়স গাঁও/ড	ঠিকনা	ক্ষাইনেপ এ	বঙ্ক লিমিট	টডে ঘ্ৰা					নাব	ম্যাদী জ	The state of the s	পিন পিক	কোড*				বয়সৰ	
ানয়নৰ বিৱৰণ (কেৱল এ হয়, মই/আমি মনোনীত ছিং নিয়ন্ত্ৰণ আইন, 1949-ৰ ধৰা ই/আমি াৰ/আমাৰ/নাবালকৰ মৃত্যুৰ C নোনীত ব্যক্তিৰ নাম অনুগ্ৰহ কৰি টক কৰক ষ্ট নম্বৰ*আৰু বিগ্ৰলভিজি না থ নং/নাম শণ্ডমাৰ্ক* জ্যা কানীত ব্যক্তিৰ জন্ম তাৰিখ বাধাকৰৰ ক্ষেত্ৰত বাধাতামূলক) নোনীত ব্যক্তিৰ জন্ম তাৰিখ বাধাকৰৰ ক্ষেত্ৰত বাধাতামূলক) নোনীত ব্যক্তি নাবাক নহলে খা ই তাৰিখত মনোনীত ব্যক্তি গ্ৰহ	একমাত্র স্বস্থাধিকার ত কবিব বিচাবো কেব্রুত নিম্নালিখিত ক্ষেত্রত নিম্নালিখিত বাস ক্ষেত্রত নিম্নালিখিত বাস ক্ষেত্রত নিম্নালিখিত বাস ক্ষেত্রত নিম্নালিখিত ক্ষেত্রত নিম্ন	নাৰ বাবে): মনোনয়ন আবু ব্যক্তিজনক ম ক্ৰিকেৰ ঠিকনা থ	নহয়, মনেকে জমাব ক্ষে বিদ্যালয় কিব বানোনীত কবৰ আবিদনকাৰীৰ আবিদনকাৰীৰ আবিদনকাৰীৰ আবিদনকাৰীৰ আবিদনকাৰীৰ আবিদনকাৰীৰ	নামন সুবিধা নাম ব্যবিধা নাম নাম নাম নাম নাম নাম নাম নাম নাম না	্যান্দানি (মা	নানয়ন) ি ৰ দ্বাৰা ে একে হ	নিয়ম 198:	s-ৰ নিয়ম ডি-ট/ফি	হ(1)।	পজিটৰ পৰি	ন্দ্ৰমাণ উৎক ব বয়স গাঁও/ড	ঠিকনা	ক্ষাইনেপ এ	বঙ্ক লিমিট	টডে ঘ্ৰা					নাব	ম্যাদী জ	The state of the s	পিন পিক	কোড*		ক্টিক বিশ্বী (বিক্		বয়সৰ	
ানম্যনৰ বিৱৰণ (কেৱল এ হয়, মই/আমি মনোনীত জিং নিয়ন্ত্ৰণ আইন, 1949-ৰ থবা ই/আমি মাৰ/আমাৰ/নাবালকৰ মৃত্যুৰ C নোনীত ব্যক্তিৰ নাম অনুগ্ৰহ কৰি টক কৰক ফুট নম্বৰ-আৰু বিএলডিজি না থ নংগনাম লণ্ডমাৰ্ক কলা/মহানগৰ* জাত কলা/মহানগৰ হ তাৰিখত মনোনীত ব্যক্তিৰ বাবালকৰ ফেৱত বাধ্যতানুক্ক নোনীত ব্যক্তিৰ বাবালক নহ'লেখা ই তাৰিখত মনোনীত ব্যক্তি এই কনা	একমাত্র স্বস্থাধিকার ত কবিব বিচাবো কেব্রুত নিম্নালিখিত ক্ষেত্রত নিম্নালিখিত বাস ক্ষেত্রত নিম্নালিখিত বাস ক্ষেত্রত নিম্নালিখিত বাস ক্ষেত্রত নিম্নালিখিত ক্ষেত্রত নিম্ন	ব্যক্তিজনক ম ব্যক্তিজনক ম ব্যক্তিজনক ম কিনা খ চ চ চ চ চ চ চ চ চ চ চ চ চ চ চ চ চ চ চ	নহয়, মনেকে জমাব ক্ষে বিদ্যালয় কিব বানোনীত কবৰ আবিদনকাৰীৰ আবিদনকাৰীৰ আবিদনকাৰীৰ আবিদনকাৰীৰ আবিদনকাৰীৰ আবিদনকাৰীৰ	নাম সুবিধা নাম সুবিধা নাম নাম নাম নাম নাম নাম নাম নাম নাম না	ফল্মনিব (মে খোলা শাখা	নানয়ন) ি ৰ দ্বাৰা ে একে হ	নিয়ম 198:	s-ৰ নিয়ম ডি-ট/ফি	হ(1)।	পজিটৰ পৰি	ন্দ্ৰমাণ উৎক ব বয়স গাঁও/ড	ঠিকনা	ক্ষাইনেপ এ	বঙ্ক লিমিট	টডে ঘ্ৰা					নাব	ম্যাদী জ	The state of the s	পিন পিক	কোড*				বয়সৰ	
ানম্বনৰ বিৱৰণ (কেৱল এ হয়, মই/আমি মনোনীত ছিং নিয়ন্ত্ৰণ আইন, 1949-ৰ খৰা ই/আমি নাব/আমাৰ/নাবালকৰ মৃত্যুৰ C নোনীত ব্যক্তিৰ নাম অনুগ্ৰহ কৰি টক কৰক ছট নম্বৰ*আৰু বিপ্ৰলভিজি না খ নং/নাম লণ্ডমাৰ্ক* জলা/মহানগৰ* জলা দেনীত ব্যক্তিৰ জন্ম তাৰিখ বাধলকৰ ক্ষেত্ৰ বাধ্যতানুক্ৰ দেনীত ব্যক্তিৰ বাধ্যতানুক্ৰ দেনীত ব্যক্তিৰ বাধ্যতানুক্ৰ দেনীত ব্যক্তি নাবাকক নহ'লে যা ই তাৰিখত মনোনীত ব্যক্তি এই কনা	একমাত্র স্বস্থাধিকার ত কবিব বিচাবো কেব্রুত নিম্নালিখিত ক্ষেত্রত নিম্নালিখিত বাস ক্ষেত্রত নিম্নালিখিত ক্ষে	ব্যক্তিজনক ম ব্যক্তিজনক ম ব্যক্তিজনক ম কিনা খ চ চ চ চ চ চ চ চ চ চ চ চ চ চ চ চ চ চ চ	নহয়, মনেব্ৰু জমাৰ ক্ষেত্ৰ ব্ৰুল্লানীত কৰব আবেদনকাৰীৰ আবিদনকাৰীৰ লিও, নাম	নাম সুবিধা নাম সুবিধা নাম নাম নাম নাম নাম নাম নাম নাম নাম না	ফল্মনিব (মে খোলা শাখা	নানয়ন) ি ৰ দ্বাৰা ে একে হ	নিয়ম 198:	s-ৰ নিয়ম ডি-ট/ফি	হ(1)।	পজিটৰ পৰি	ন্দ্ৰমাণ উৎক ব বয়স গাঁও/ড	ঠিকনা	ক্ষাইনেপ এ	বঙ্ক লিমিট	টডে ঘ্ৰা					নাব	ঠিকনা ম্যাদী জ	The state of the s	পিন পিক	কোড*				বয়সৰ	
ানম্বনৰ বিৱৰণ (কেৱল এ হয়, মই/আমি মনোনীত জিং নিয়ন্ত্ৰণ আইন, 1949-ৰ থবা ই/আমি আৰ-আমাৰ-নাবালকৰ মৃত্যুৰ C নোনীত ব্যক্তিৰ নাম অনুগ্ৰহ কৰি টক কৰক ফুট নম্বৰ-আৰু বিএলডিজি না খে নংনাম লণ্ডমাৰ্ক- জাণ কলা/মহানগৰ* জাণ কলা/মহানগৰ* জাণ ই তাৰিখত সনোনীত ব্যক্তিৰ লামাতান্দক নানীত ব্যক্তিৰ জন্ম তাৰিখ বাবলকৰ ক্ষেত্ৰ বাধ্যতান্দক নানীত ব্যক্তিৰ লামাক নহংলে যা ই তাৰিখত সনোনীত ব্যক্তি এই কনা সনোনীত ব্যক্তিৰ কিবৰণ মনোনীত ব্যক্তিৰ কিবৰণ কনা —————————————————————————————————	একমাত্র স্বস্থাধিকার ত কবিব বিচাবো কেব্রুত নিম্নালিখিত ক্ষেত্রত নিম্নালিখিত বাস ক্ষেত্রত নিম্নালিখিত ক্ষে	ব্যক্তিজনক ম ব্যক্তিজনক ম ব্যক্তিজনক ম কিনা খ চ চ চ চ চ চ চ চ চ চ চ চ চ চ চ চ চ চ চ	নহয়, মনেব্ৰু জমাৰ ক্ষেত্ৰ বিদ্যানীত কৰব আবেদনকাৰীৰ আবিদনকাৰীৰ আবিদনকাৰীৰ আবিদনকাৰীৰ	নাম সুবিধা নাম সুবিধা নাম নাম নাম নাম নাম নাম নাম নাম নাম না	ফল্মনিব (মে খোলা শাখা	নানয়ন) ি ৰ দ্বাৰা ে একে হ	নিয়ম 198:	s-ৰ নিয়ম ডি-ট/ফি	হ(1)।	পজিটৰ পৰি	ন্দ্ৰমাণ উৎক ব বয়স গাঁও/ড	ঠিকনা	ক্ষাইনেপ এ	বঙ্ক লিমিট	টডে ঘ্ৰা					নাব	ঠিকনা ম্যাদী জ	The state of the s	পিন পিক	কোড*		(ধিকাৰী) ব		বয়সৰ	
ানম্যনৰ বিৱৰণ (কেৱল এ হয়, মই/আমি মনোনীত জিং নিয়ন্ত্ৰণ আইন, 1949-ৰ থবা ই/আমি আৰ-আমাৰ-নাবালকৰ মৃত্যুৰ নেনীত ব্যক্তিৰ নাম অনুগ্ৰহ কৰি টক কৰক ফুট নম্বৰ-আৰু বিএলডিজি না থ নংনাম লণ্ডমাৰ্ক- জাণ কলা,মহানগৰ তিলি নেনীত ব্যক্তিৰ জন্ম তাৰিখ বাবলকৰ ক্ষেত্ৰত বাধ্যতামূলক) নেনীত ব্যক্তিৰ জন্ম তাৰিখ বাবলকৰ ক্ষেত্ৰত বাধ্যতামূলক নানীত ব্যক্তি নাবালক নহ'লে যা ই তাৰিখত মনোনীত ব্যক্তি এয় কনা —————————————————————————————————	একমাত্র স্বস্থাধিকার ত কবিব বিচাবো কেব্রুত নিম্নালিখিত ক্ষেত্রত নিম্নালিখিত বাস ক্ষেত্রত নিম্নালিখিত ক্ষে	ব্যক্তিজনক ম ব্যক্তিজনক ম ব্যক্তিজনক ম কিনা থ চিক্তিৰ ঠিকনা থ চিক্তিৰ ঠিকনা থ চিক্তিৰ ঠিকনা থ চিক্তিৰ ঠিকনা থ চিক্তিৰ ঠিকনা থ	নহয়, মনেব্ৰু জমাৰ ক্ষেত্ৰ বিদ্যানীত কৰব আবেদনকাৰীৰ আবিদনকাৰীৰ আবিদনকাৰীৰ আবিদনকাৰীৰ	নাম সুবিধা নাম সুবিধা নাম নাম নাম নাম নাম নাম নাম নাম নাম না	ফল্মনিব (মে খোলা শাখা	নানয়ন) ি ৰ দ্বাৰা ে একে হ	নিয়ম 198:	s-ৰ নিয়ম ডি-ট/ফি	হ(1)।	পজিটৰ পৰি	ন্দ্ৰমাণ উৎক ব বয়স গাঁও/ড	ঠিকনা	ক্ষাইনেপ এ	বঙ্ক লিমিট	টডে ঘ্ৰা					নাব চই ঠাঁ	ম্যাদী জ ম্যাদী জ সকৰ কৈ	The state of the s	পিন পিক	কোড*	নী / (স্বত্ব	(ধিকাৰী) ব		বয়সৰ	
মানমনৰ বিৱৰণ (কেৱল এ হাই, মাই/আমি মনোনীত ব্যক্তিং নিয়ন্ত্ৰণ আইন, 1949-ৰ থাৰা ই/আমি মাৰ/আমাৰ/নাবালকৰ মৃত্যুল (নোনীত ব্যক্তিৰ কাম আৰু বিএলডিজি না ধ্য নং/নাম লপ্তমাৰ্ক জ্ঞান্ত নাৰ্বাৰ্ভ জন্ম তাৰিখ বাবালকৰ ক্ষেত্ৰ বাধাতামূলক) ধনোনীত ব্যক্তি নাবালক নহ'লে খা ইতাৰিখত মনোনীত ব্যক্তি নাবালক নহ'লে খা ইতাৰিখত মনোনীত ব্যক্তি নাবালক নহ'লে খা	একমাত্র স্বস্থাধিকার ত কবিব বিচাবো কেব্রুত নিম্নালিখিত ক্ষেত্রত নিম্নালিখিত বাস ক্ষেত্রত নিম্নালিখিত ক্ষে	ব্যক্তিজনক ম ব্যক্তিজনক ম ব্যক্তিজনক ম কিনা থ চিক্তিৰ ঠিকনা থ চিক্তিৰ ঠিকনা থ চিক্তিৰ ঠিকনা থ চিক্তিৰ ঠিকনা থ চিক্তিৰ ঠিকনা থ	নহয়, মনেব্ৰু জমাৰ ক্ষেত্ৰ বিদ্যানীত কৰব আবেদনকাৰীৰ আবিদনকাৰীৰ আবিদনকাৰীৰ আবিদনকাৰীৰ	নাম সুবিধা নাম সুবিধা নাম নাম নাম নাম নাম নাম নাম নাম নাম না	ফল্মনিব (মে খোলা শাখা	নানয়ন) ি ৰ দ্বাৰা ে একে হ	নিয়ম 198:	s-ৰ নিয়ম ডি-ট/ফি	হ(1)।	পজিটৰ পৰি	ন্দ্ৰমাণ উৎক ব বয়স গাঁও/ড	ঠিকনা	ক্ষাইনেপ এ	বঙ্ক লিমিট	টডে ঘ্ৰা					নাব	ম্যাদী জ ম্যাদী জ সকৰ কৈ	The state of the s	পিন পিক	কোড*	নী / (স্বত্ব	াধিকাৰী)ব		বয়সৰ	

) F/	ATCA / CRS DECLARATIO	N FORN	/I - (NOI	N-INDIVI	DUAL)*:	:										
То	: Utkarsh Small Finance Ban	ık Limited													_	
	Customer ID/Account No:														Bar Code	
	Name:															
	Account Title															
* 0	Ine Input is mandatory															
A)	Is the account holder a G	Governme	nt body/	Internatio	nal Orga	nization/ li	isted com	pany or	rec	cognized	sto	ck exc	hange			
	Yes No															
	If "No", then proceed to place of the state	•	ock exch	nange if v	ou are lis	sted comp	anv								, and proceed to sign the declara	ation
D)								-4141-	1	- 41:-					, and proceed to orgin are decided	
B)	Is the account holder a (I		anciai in	stitution)	tax reside	ent or any	country	otner tna	an II	naia						
	If "yes", then please fill o		CRS Sel	f Certifica	tion Forn	n If "No". ı	proceed t	o point	C							
C)							p. 00000 t	o point	•							
0)	Yes No		ianolai ii	iotitution												
	If "yes", please provide y		if anv													
	If "No", proceed to point															
D)	Are the Substantial owner	ers or cor	ntrolling p	oersons in	the entit	ty or chain	of owne	rship of	res	ident for	tax	purpo	se in an	ус	country outside India or not an Indian citizen	
	Yes No															
	If "yes", (then please fill If "No", proceed to sign t			certificatio	on form).											
				~	-> "											
	फएटीसीए/ सीआरएस घोष प ते: उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंव		•	व्याक्तगत	r)*:											
	ग्राहक आईडी/खाता संख्या:	TOTAL TOTAL													बार कोड	
	नाम:]	
	खाता शीर्षक															
* t	रक इनपुट अनिवार्य है क्या खाताधारक मान्यता	प्राप्त स्व	ॉक एक्स	ाचेंज पर ३	सरकारी वि	नेकाय / 3	अंतर्राष्टीय	ा संगठन	r / :	सचीबदध	कंप	पनी है				
,	हाँ नहीं						X.			K						
	यदि "नहीं", तो बिंदु B प	ार आगे ब	ाढ़ें -													
	यदि "हाँ" है, तो कृपया स			नाम नि	र्देष्ट करें,	, यदि आप	न सूचीबद्	ध कंपर्न	<u> </u>						हैं, और घोषण	। पर हस्ताक्षर करने के लिए आगे बढ़ें
B)	क्या खाता धारक भारत व	के अलावा	किसी 3	भन्य देश	का कर वि	नेवासी (इ	काई / वि	तीय संस	-খা	न) है?						
	हाँ नहीं															
	यदि "हाँ", तो कृपया एफा	एटीसीए /	सीआरए	सस्व प्रमा	ाणन फॉर्म	र्न भरें, यति	दे "नहीं" :	तो बिंदु	C 1	पर आगे	बढ़ें					
C)			तीय संस्थ	थान है?												
	हाँ नहीं															
	यदि "हाँ" है, तो कृपया 3 यदि "नहीं", तो बिंदु D प			न (GIIN)) प्रदान व	करें , यदि व	कोई हो								<u> </u>	
D)	_			उददेश्य के	लिए नि	वासी के र	स्वामित्व	की इका	ई र	ग श्रंखला	में	पर्याप्त	न मालि	कः	या नियंत्रक व्यक्ति हैं या भारतीय नागरिक नहीं हैं	?
	हाँ नहीं							•	•	C						
	यदि "हाँ", (तो कृपया ए	रफएटीसी	ए/सीआर	एस स्व-	प्रमाणन	फॉर्म भरें)									
	यदि "नहीं", तो घोषणा	पर हस्त	ाक्षर कर	रने के लि	ए आगे	बढ़ें										
) এ	ফ.এ.টি.চি.এ./ চি.আৰ.এছ. ঘোষ	াণা প্রপত্র -	(অ-ব্যক্তি) * :												
প্রতি	ঠ: উৎকর্ষ স্মল ফাইনেন্স বেঙ্ক লিমিটে	<u> </u>												_	1	
	গ্ৰাহক আইডি/একাউন্ট নম্বৰ:														বাৰ কোড	
	নাম:															
	একাউন্টৰ শিৰোনাম															
* @	টা ইনপুট বাধ্যতামূলক															
A)	একাউন্ট ধাৰক হৈছে স্বীকৃত ষ্টক	এক্সচেঞ্জত চ	ৰকাৰী সংস্থ	া/ আন্তর্জাতিব	চ সংগঠন/ ত	গলিকাভুক্ত ে	কাম্পানী									
	হয় নহয়															
	যদি "নহয়", তেন্তে B পইণ্ট কৰিং যদি "হয়" অনুগ্ৰহ কৰি ষ্টক এক্সচে			দি আপুনি co	mpany								, তালিক	াভূত	ক্ত হয়, আৰু ঘোষণাপত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ আগবাঢ়ক	
B)						ৰ নিবাসী েল্	5							~ `	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ام	হয় নহয়		জন লে (আও	- or-vinesis 3	-100m) VP	1 171 1711 GM/N										
	যদি "হয়", তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি এয		/চি.আৰ.এছ	্ স্ব প্রমাণপত্র	৷ পূৰণ কৰক	যদি "নহয়",	চি পইন্ট লৈ	যাওক								

ি কাৰ্যনি কৰে বালহাল ক্ৰিন্তি প্ৰতিষ্ঠান কৰে কৰিব ক্ৰিন্তি প্ৰতিষ্ঠান কৰে কৰিব ক্ৰিন্তি প্ৰতিষ্ঠান কৰে কৰিব ক্ৰিন্তি প্ৰতিষ্ঠান কৰিব কৰিব কৰিব কৰিব কৰিব কৰিব কৰিব কৰিব		
हा स्वार्ध के सहस्त हैं। अपने के वर्षरिक प्राचणक के कि स्वार्ध के स्वर्ध के स्वार्ध के स्वर्ध के स्वार्ध के स्वर के स्वर के स्वार्ध के स्वार्ध के स्वार्ध के स्वर		
D) server effect ficencial curve are \$ देण्यन वाद विश्वीन के प्रतिकृष्ण मृत्यमाञ्च परि महिन्न प्रतिकृष्ण मृत्यमाञ्च मृति स्विकृष्ण मृत्यमाञ्च मृतिस स्वार्थ से महिन्न प्रतिकृष्ण मृत्यमाञ्च स्वर्थ से महिन्न प्रतिकृष्ण मृत्यमाञ्च स्वर्थ से महिन्न प्रतिकृष्ण मृत्यमाञ्च मृतिस स्वर्थ से महिन्न प्रतिकृष्ण मृत्यमाञ्च से स्वर्थ से महिन्न प्रतिकृष्ण मृतिस स्वर्थ से महिन्न स्वर्थ से महिन्न प्रतिकृष्ण मृतिस स्वर्थ से महिन्न से सहत कर निवासी से स्वर्य मे महिन्न स्वर्थ से महिन्न स्वर्य से स्वर्य जानकृष्ण मृतिस स्वर्य से स्वर्य जानकृष्ण से स्वर्य से स्वर्य जानकृष्ण मृतिस से स्वर्य से स्वर्य जानकृष्ण मृतिस स्वर्य से स्वर्य जानकृष्ण		
पर न्या न्या न्या न्या न्या न्या न्या न्या	s nirs craftor distance	
Under penalty of perjury, I/We certify that: 1. The applicant is i. Taxable as a US person under the laws of the United States of America ("U.S.") or any state or political subdivision thereof or therein, including the District to Columbia or any other states of the U.S., ii. An estate the income of which is subject to U.S. federal income tax regardless of the source thereof. (This clause is applicable only if the account holder is identified as a US person) 2. The applicant is taxable as a tax resident under the laws of the country outside India (This clause is applicable only if the account holder is a tax resident under the laws of the country outside India (This clause is applicable only if the account holder is a tax resident outside of India) 1. Whe understand that the Bank is relying on this information for the purpose of determining the status of the applicant is taxable as a tax resident outside of India) 1. Whe should seek advice from professional lax advisor for any tax questions. In the applicant is taxable as a tax resident under the laws of the exprise of determining the status of the applicant is not able to offer any tax advice on FATCA or CRS or its impair on the applicant is determined to the state of the applicant is not able to offer any tax advice on FATCA or CRS or its impair on the applicant of the state of the applicant is a tax resident outside of India) 1. Whe agree that as may be required by domestic regulators/atx authorities the Bank may also be required to report, reportable details to CBDT or close or suspend my account. 1. Whe agree that as may be required by domestic regulators/atx authorities the Bank may also be required by domestic regulators/atx authorities the Bank may also be required to report, reportable details to CBDT or close or suspend my account. 1. Whe certify that I/We provide the information on this form and to the best of my/our knowledge and belief the certification is true, correct, and complete including the taxpayer identification number of the applicant. 2	י אונג לה סופס איזוודי הקא	
Under penalty of perjury, I/We certify that: 1. The applicant is i. Taxable as a US person under the laws of the United States of America ("U.S.") or any state or political subdivision thereof or therein, including the District to Columbia or any other states of the U.S., ii. An estate the income of which is subject to U.S. federal income tax regardless of the source thereof. (This clause is applicable only if the account holder is a lax resident outside of India) 1. I/We understand that the Bank is relying on this information for the purpose of determining the status of the account holder is a tax resident outside of India) 1. I/We understand that the Bank is relying on this information for the purpose of determining the status of the applicant in compliance with FATCA/CRS. The Bank is not able to offer any tax advice on FATCA or CRS or its impart on the tapplicant. I/We should seek advice from professional tax advisor for my tax understood in the status of the applicant in compliance with FATCA/CRS. The Bank is not able to offer any tax advice on FATCA or CRS or its impart on the tapplicant. I/We should seek advice from professional tax advisor for my tax understood in the status of the applicant in compliance with FATCA/CRS. The Bank is not able to offer any tax advice on FATCA or CRS or its impart on the applicant. We should seek advice from professional tax advisor for my tax understood in the status of the applicant in compliance with FATCA/CRS. The Bank is not able to offer any tax advice on FATCA or CRS or its impart on the applicant in the status of the applicant in the status of the applicant in compliance with FATCA/CRS. The Bank is not able to offer any tax advice on FATCA or CRS or its impart on the applicant in the status of the applicant in this many advisors of the applicant in the status of the applicant		
Under penalty of perjuny, I/We certify that: 1. The applicant is 1. Taxable as a US person under the laws of the United States of America ("U.S.") or any state or political subdivision thereof or therein, including the District to Columbia or any other states of the U.S., 1ii. An estate the income of which is subject to U.S. federal income tax regardless of the source thereof. (This clause is applicable only if the account holder is identified as a US person) 2. The applicant is taxable as a tax resident under the laws of the country outside India (This clause is applicable only if the account holder is a tax resident outside of India) 1. I/We understand that the Bank is realying an Usin information for the purpose of determining the status of the applicant in compliance with FATCA/CRS. The Bank is not able to offer any tax advice on FATCA or CRS or its impair on the applicant. I/We should seek advice from professional tax advisor for any tax questions. 1i. I/We appear that as may be required by domestic regulators/Raw authorities the Bearm in on the prequired by domestic regulators/Raw authorities the Bearm in any leave required by domestic regulators/Raw authorities the Bearm in any leave required by domestic regulators/Raw authorities the Bearm in a precipicant or export, reportable details to CBDT or close or suspend my account. 1iv. I/We appear that as may be required by domestic regulators/Raw authorities the Bearm may also be required to report, reportable details to CBDT or close or suspend my account. 1iv. I/We provide the information on this form and to the best of my/our knowledge and belief the certification is true, correct, and complete including the taxpayer identification number of the applicant. 1. Alica & a rice, if / Ext xxtriplica accided the provided the information on this form and to the best of my/our knowledge and belief the certification is true, correct, and complete including the taxpayer identification number of the applicant. 1. Alica & a rice identified and in a rice i	TION / गाहक घोषणा / अंटक त्वांस्था	
1. The applicant is i. Taxable as a US person under the laws of the United States of America ("U.S.") or any state or political subdivision thereof or therein, including the District to Columbia or any other states of the U.S., ii. An estate the income of which is subject to U.S. federal income tax regardless of the source thereof. (This clause is applicable only if the account holder is identified as a US person) 2. The applicant is taxable as a tax resident under the laws of the country outside India [This clause is applicable only if the account holder is a tax resident outside of India) i. I/We understand that the Bank is relying on this information for the purpose of determining the status of the applicant in compliance with FATCA/CRS. The Bank is not able to offer any tax advice on FATCA or CRS or its impair on the applicant. I/We should seek advice from professional tax advisor for any tax questions. ii. I/We appret that as may be required by domestic regulators/tax authorities the Bank may also be required to report, reportable details to CBDT or close or suspend my account. iv. I/We certify that I/We provide the information on this form and to the best of my/our knowledge and belief the certification is true, correct, and complete including the taxpayer identification number of the applicant. ### UP ATCA/CRS. ### UP ATCA/CRS. ### UP ATCA/	TOTAL STEEL A STEEL A STEEL ST	
1. आवेदक है i. संयुक्त राज्य अमेरिका ("यू.एस.") या उसके किसी भी राज्य या राजनीतिक उपखंड के कानूनों के तहत एक अमेरिकी व्यक्ति के रूप में कर योग्य, जिसमें डिस्ट्रिक्ट टू कोलंबिया या अमेरिका के कोई अन्य राज्य शामिल हैं।, ii. एक संपति जिसकी आय अमेरिकी संघीय आयकर के अधीन है, चाहे उसका स्रोत कोई भी हो। (यह खंड केवल तभी लागू होता है जब खाताधारक की पहचान अमेरिकी व्यक्ति के रूप में की जाती है) 2. आवेदक भारत के बाहर देश के कानूनों के तहत कर निवासी के रूप में कर योग्य है (यह खंड केवल तभी लागू होता है जब खाता धारक भारत के बाहर कर निवासी हो) i. मैं/हम समझते हैं कि बैंक एफएटीसीए/सीआरएस के अनुपालन में आवेदक की स्थिति निर्धारित करने के उद्देश्य से इस जानकारी पर भरोसा कर रहा है। बैंक एफएटीसीए या सीआरएस या आवेदक पर इसके प्रभाव पर कोई कर सलाह देने में सक्षम नहीं है। मुझे/हमें किसी भी कर प्रश्न के लिए पेशेवर कर सलाहकार से सलाह लेनी चाहिए। ii. यदि इस फॉर्म पर कोई जानकारी या प्रमाणन गलत हो जाता है तो मैं/हम 30 दिनों के भीतर एक नया फॉर्म जमा करने के लिए सहमत हूँ/ हैं। iii. मैं/हम इस बात से सहमत हैं कि जैसा कि घरेलू नियामकों/कर अधिकारियों द्वारा अपेक्षित हो सकता है, बैंक को सीबीडीटी को रिपोर्ट करने योग्य विवरण की रिपोर्ट करने या मेरे खाते को बंद करने या निलंबित करने की भी आवश्यकत हो सकती है। iv. हम प्रमाणित करते हैं कि मैं/हम इस फॉर्म पर जानकारी प्रदान करते हैं और मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार आवेदक की करदाता पहचान संख्या सहित प्रमाणीकरण सत्य, सही और पूर्ण है।	ce thereof. e is applicable only if the account holder is a tax resident outside of India) ig the status of the applicant in compliance with FATCA/CRS. The Bank is not able to offer any tax advice on FATCA ons. form becomes incorrect. also be required to report, reportable details to CBDT or close or suspend my account.	
2. आवेदक भारत के बाहर देश के कानूनों के तहत कर निवासी के रूप में कर योग्य है (यह खंड केवल तभी लागू होता है जब खाता धारक भारत के बाहर कर निवासी हो) i. मैं/हम समझते हैं कि बैंक एफएटीसीए/सीआरएस के अनुपालन में आवेदक की स्थिति निर्धारित करने के उद्देश्य से इस जानकारी पर भरोसा कर रहा है। बैंक एफएटीसीए या सीआरएस या आवेदक पर इसके प्रभाव पर कोई कर सलाह देने में सक्षम नहीं है। मुझे/हमें किसी भी कर प्रश्न के लिए पेशेवर कर सलाहकार से सलाह लेनी चाहिए। ii. यदि इस फॉर्म पर कोई जानकारी या प्रमाणन गलत हो जाता है तो मैं/हम 30 दिनों के भीतर एक नया फॉर्म जमा करने के लिए सहमत हूँ/ हैं। iii. मैं/हम इस बात से सहमत हैं कि जैसा कि घरेलू नियामकों/कर अधिकारियों द्वारा अपेक्षित हो सकता है, बैंक को सीबीडीटी को रिपोर्ट करने योग्य विवरण की रिपोर्ट करने या मेरे खाते को बंद करने या निलंबित करने की भी आवश्यकत हो सकती है। iv. हम प्रमाणित करते हैं कि मैं/हम इस फॉर्म पर जानकारी प्रदान करते हैं और मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार आवेदक की करदाता पहचान संख्या सहित प्रमाणीकरण सत्य, सही और पूर्ण है। शिष्ठा निशाब अविवास अविवास अनुनिव, महे/खानि क्षणिक करवाराः		य शामिल हैं।,
	भी लागू होता है जब खाता धारक भारत के बाहर कर निवासी हो) त करने के उद्देश्य से इस जानकारी पर भरोसा कर रहा है। बैंक एफएटीसीए या सीआरएस या आवेदक पर इसके प्रभाव नी चाहिए। क नया फॉर्म जमा करने के लिए सहमत हूँ/ हैं। 'सकता है, बैंक को सीबीडीटी को रिपोर्ट करने योग्य विवरण की रिपोर्ट करने या मेरे खाते को बंद करने या निलंबित करने	
i. আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ("আমেৰিকা যুক্তৰাজ্ঞা") আইনৰ অধীনত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ব্যক্তি হিচাপে কৰযোগ্য বা ইয়াৰ যিকোনো ৰাজ্য বা ৰাজনৈতিক উপবিভাগ, যাৰ ভিতৰত আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট টু কলম্বিয়া বা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ আন যিকোনো ৰাজ্য,		
ii. এটা সম্পত্তি যাৰ উপাৰ্জন আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কোজাৰেল আয় কৰ সাপেক্ষে ইয়াৰ উৎস নিৰ্বিশেষে হয়। এই ধাৰাটো কেৱল তেতিয়াহে প্ৰযোজ্য হয় যদি একাউ-উ ধাৰকক আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ব্যক্তি হিচাপে চিনাক্ত কৰা হয়) 2. আবেদনকাৰী ভাৰতৰ বাহিৰৰ দেশৰ আইনৰ অধীনত কৰ আৱাসী হিচাপে কৰবোগ্যা (এই ধাৰাটো কেৱল তেতিয়াহে প্ৰযোজ্য হয় যদি একাউ-উ ধাৰক ভাৰতৰ বাহিৰৰ কৰ বাসিন্দা হয়) 1. মই,আমি বুজি পাইছো যে এফ.এ.টি,চি.এ.চি.আৰ.এছ অনুসৰণ কৰি আবেদনকাৰীৰ স্থিতি নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে বেঙ্কে এই তথ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আছে।বেঙ্কে এছ.এ.টি,চি.এ. বা চি.আৰ.এছ. বা আবেদনকাৰীৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ ওপৰত কোনো কৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াব নোৱাৰে। মই/আমি যিকোনো প্ৰপ্ৰধ বাবে পেছালিনী কৰ উপদেষ্টাৰ পৰা পৰামৰ্শ লগে। ii. যদি এই প্ৰপত্ৰৰ কোনো তথ্য বা প্ৰমাণপত্ৰ অণ্ডেছ হয় তেন্তে মই/আমি 30 দিনৰ ভিতৰত নতুন প্ৰপত্ৰ এখন দাখিল কৰিবলৈ সম্যত হৈছো। iii. মই/আমি সম্যত যে ঘৰুৱা নিয়ন্ত্ৰপ্ৰৰ কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি বেঙ্কে চিকিউটিক প্ৰতিবেদন, প্ৰতিবেদনযোগ্য বিৱৰণ বা যোৰ একাউ-উ বন্ধ বা নিলম্বন কৰিব লাগিব পাৰে। iv. মই/আমি প্ৰমাণিত কৰোঁ যে মই/আমি এই প্ৰপত্ৰৰ তথ্য প্ৰদান কৰোঁ আৰু মোৰ/আমাৰ সৰ্বপ্ৰেষ্ঠ জ্ঞান আৰু বিশ্বাস অনুসৰি আবেদনকাৰীৰ কৰদাতা চিনাক্তকৰণ নম্বৰকে ধৰি সকলো প্ৰমাণপত্ৰ সঁচা, শুদ্ধ আৰু সম্পূৰ্ণ হয়।	i একাউ-ট ধাৰক ভাৰতৰ বাহিৰৰ কৰ বাসিন্দা হয়) যুই তথ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আছে। বেঙ্কে এফ.এ.টি.চি.এ. বা চি.আৰ.এছ. বা আবেদনকাৰীৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ ওপৰত কোনো কৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াব নোৱ দয়ত হৈছো। মোৰ একাউ-ট বন্ধ বা নিলম্বন কৰিব লাগিব পাৰে।	াব নোৱাৰে। মই/আমি যিকোনো কৰ
Name of the Entity হুকাई কা লাম প্ৰতিষ্ঠানৰ নাম		
Please sign as per MOP / कुपया एमओपी के अनुसार हस्ताक्षर करें / जनुधर कवि धम ७.१% जनुभवि शाकव कवक	DP / करागा गामभोगी के भन्नमार टान्नाश्चर करों / अवशंश कबि तप ४ वि अवशंष शंका कबक	
Authorised Signatory(ies) (Rubber Seal of Entity required) एक या एक से अधिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ती (इकाई की रबर सील आवश्यक) कर्ज्प्रथा शाक्षनकर्ती (त्रम्) (अट्याबनीय अधिकानन वन्न क्रील) कर्ज्प्रथा शाक्षनकर्ती (त्रम्) (अट्याबनीय अधिकानन वन्न क्रील)	d Signatory(ies) (Rubber Seal of Entity required) क प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ती (इकाई की रबर सील आवश्यक)	
A OVALOVALI EDOBATANT OLID /		
ACKNOWLEDGMENT SLIP / पावती पर्ची / স্বীকৃতি স্লিপ Reference Number:	,	Yes No
संदर्भ संख्या:	देनांकित D D M M M Y Y Y Y Y न	हाँ नहीं
Bank official name बैंक का आधिकारिक नाम वैंक अधिकारी ईआईएन	बैंक अधिकारी ईआईएन	
বেংকৰ অফিচিয়েল নাম বংক অফিচিয়েল ইআইএন বংক অফিচিয়েল ইআইএন বিল দাম্বাদ্য / প্রাৰম্ভিক পুঁজি :	বেংক আঝাচয়েল ইআইএন	
Cash नकद Y N चेक संख्या	राशि (₹)*	
नशन पर एक नथन जियाश (रॅं)* Product Name 3त्पाद का नाम अजाहें कांज अधिकारी के हस्ताक्षर अजाहें कांज अधिकारी के हस्ताक्षर भाषा उन्हर्म के साथ बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर	Product Code Signature of Bank official along with B उत्पाद कोड शाखा स्टाम्प के साथ बैंक अधिकारी	नारी के हस्ताक्षर [ं]

Account No.	
खाता सं.	
একাউন্ট নম্বৰ	

ओवीडी नाम*:_

Barcode*	
बारकोड*	
বাৰকোড*	

Mandatory in case used as an additional Annexure

	"अतिरिक्त अनुलग्नक के रूप में उपयोग किए जाने वाले मामले में अनिवार्य "অভिनेक्ष পरिनिष्ठ रिशाल गुढ़क्ठ राम रामाजामूनक
PERSONAL DETAILS* (Authorised Signatory/Partner/Proprietor/Director/F	POA/LOA/Trustee/Beneficiaries/Senior Management)
; allowed organics (), allowed organics (), allowed organics (),	or y to the state of the state
Account Title / Name:	
Signatory 1: In Case of Signatory is an existing customer CIF ID CKYC Nur	ober V N
1. Prefix Authorised Signatory Details (First Name) Middle	
Designation*	Relationship Signatory Beneficial Owner
DIN No. (Applicable only in case of Ptt/Public Ltd. & LLP) Category* ST SC	OBC GEN Gender Male Female Third
Marital Status* Single Married Others Qualification: Pos	t Graduate Under Graduate Others
Occupation* Salaried Self-Employed PEP (Politically Exposed Person) Others	
Source of Income* Salary Agriculture Business Income Investment	ncome Others
Gross Annual Income (₹)*	> 5 - 7.5 Lakh
Date of Birth* D D M M Y Y Y Place of Birth*	Religion*
Mother's Maiden Name* Father	er's Name*
Flat No.* & Bldg Name*	
Road No./Name	
Landmark	
City* Village/P0*	District PIN Code*
State* Country*	Nationality*
PAN No. Form 60 Y	N Mobile Number*
E-Mail Id	
OVD Details*:	
OVD No.*: OVD No.*	
OVD Name*: OVD Name	e*:
व्यक्तिगत विवरण * (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / भागीदार / मालिक / निदेशक	/ ਧੀਮੀਸ਼ / ਸਕਮੀਸ਼ / ਟਸ਼ਟੀ / ਕਮਮਾਈ / ਰਹਿਣਨ ਧੁਕੰਬਰ\
المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة	Filance Colonic Fig. 6 Filancial Fig. 6 Address
खाता शीर्षक / नाम:	
हस्ताक्षरकर्ता 1: यदि हस्ताक्षरकर्ता एक मौजूदा ग्राहक है सीआईएफ आईडी	
1. पूर्वलम्न अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता विवरण (प्रथम नाम) मध्य	
पदनाम*	संबंध 🔃 हस्ताक्षरकर्ता 🔃 लाभकारी स्वामी
डीआईएन संख्या (केवल प्राइवेट/पब्लिक लिमिटेड वर्ग सुन्सूचित अनुसूचित अनुसूचित आनुसूचित	त अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य लिंग पुरुष स्त्री तीसरा
	ट ग्रेजुएट 🔲 ग्रेजुएट 🔲 अन्य
व्यवसाय* वितनभोगी स्व - नियोजित पीईपी (राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति) अन्य	
आय का स्रोत* वितन कृषि विवासायिक आय निवेश आय	अन्य
सकल वार्षिक आय (₹)*	
जन्म तिथि* D D M M Y Y Y Y जन्म स्थान*	धर्म*
	का नाम*
फ्लैट संख्या* और बिल्डिंग नाम*	
सड़क संख्या/नाम	
लैंडमार्क	
शहर*	जिला पिन कोड*
राज्य* देश*	राष्ट्रीयता*
पैन संख्या	N मोबाइल नंबर*
ई-मेल आईडी	
भोवीडी विवरण*:	

ओवीडी नाम*:

ব্যক্তিগত বিৱৰণ* (কৰ্তৃত্প্ৰাপ্ত স্বাক্ষৰকাৰী/অংশীদাৰ/স্বত্বাধিকাৰী/সঞ্চালক/পি.ও.এ./এল.ও.এ./ট্ৰাষ্টী/হিতাধিকাৰী/জ্যেষ্ঠ ব্যৱস্থাপনা)
company for Connection 1 when
একাউ-উৰ শিৰোমা/ নাম:
স্বাক্ষৰকাৰীৰ ক্ষেত্ৰত এজন বিদ্যমান গ্ৰাহক চিআইএফ আইডি চিকেৱাইটি নখৰ Y N
তিপ্তসর্গ তিপ্তস্কর্গ তিপ্তস
পদবী* সম্পর্ক বিশ্বাস্থান বিশ্বাস্থান বিশ্বাস্থ্য বিশ
ভিতাহর্থন নম্বর বিশ্ব বি
বৈবাহিক শ্বিতি* অবিবাহিত আন্যান্যবেৰ অৰ্হতা: স্নাতকোত্তৰ স্নাতক স্নাতকৰ তলত আন্যান্য
জীৱিকা* বিতনভোগী স্থ-নিয়োজিত পিইপি (ৰাজনৈতিকভাৱে উন্মুক্ত ব্যক্তি) অন্যান্যবোৰ উপাৰ্জনৰ উৎস* বিতন কৃষি ব্যৱসায়িক উপাৰ্জন বিনিয়োগৰ উপাৰ্জন অন্যান্যবোৰ
উপার্জনৰ উৎস* ব্রুতন ুক্ষি ুরারসায়িক উপার্জন ুর্বিয়োগৰ উপার্জন ুর্বিয়াগৰ উপার্জন ুর্বিয়াগৰ উপার্জন ুর্বাহ্ব মুঠ বার্ষিক উপার্জন (₹)* <50,000 ু 50,000 - 1 লাখ
জন্মৰ তাবিখ* D D M M Y Y Y Y
মাতৃৰ প্ৰথম নাম* পিতৃৰ নাম* পিতৃৰ নাম*
(\$\tilde{\text{\$\exiting{\$\text{\$\exitit{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
আৰু বিএলভিজি নাম* পথ নংনাম
লেওমার্ক ি বিশ্বামার বিশ্ব
নগৰ [*]
বাজ্য*
পেন নং প্ৰপত্ৰ 60 Y N মবহিল নম্বৰ*
\$-cuign align
ওভিডি বিৱৰণ [*] :
ওভিডি নম্বৰ*:
ওভিডি নাম [*] : ওভিডি নাম [*] :
Cinnatana 2.
Signatory 2: In Case of Signatory is an existing customer CIF ID CKYC Number Y N CKYC Number Y N
1. Prefix Authorised Signatory Details (First Name) Middle Name Last Name
Designation* Relationship Signatory Beneficial Owner
DIN No. (Applicable only in case of Pvtr/Public Ltd. 8 LLP) Category* ST SC OBC GEN Gender Male Female Third
Marital Status* Single Married Others Qualification: Post Graduate Graduate Under Graduate Others
Occupation* Salaried Self-Employed PEP (Politically Exposed Person) Others
Source of Income* Salary Agriculture Business Income Investment Income Others
Gross Annual Income (₹)*
Source of Income* Salary Agriculture Business Income Investment Income Others Gross Annual Income (₹)* <50,000
womer's walden name.
Flat No.* & Bidg Name*
Road No./Name
City* District PIN Code*
State* Country* Nationality*
PAN No. Form 60 Y N Mobile Number*
E-Mail Id
OVD Details*: OVD No.*: OVD No.*:
945 No
OVD Name*:

यदि हस्ताक्षरकर्ता एक मौजूदा ग्राहक है सीआईएफ आईडी सीकेवाईसी संख्या Y N N मध्य नाम कुलनाम
पदनाम* संबंध हस्ताक्षरकर्ता लाभकारी स्वामी
डीआईएन संख्या (केवल प्राइवेट/पब्लिक लिमिटेड वर्ग अनुसूचित अनुसूचित अनुसूचित अन्य सामान्य लिंग पुरुष स्त्री तीसरा
वैवाहिक स्थिति* अविवाहित अन्य योग्यताः पोस्ट ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट अन्य
व्यवसाय* वितनभोगी स्व - नियोजित पीईपी (राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति) अन्य
आय का स्रोत* वितन कृषि व्यावसायिक आय निवेश आय अन्य
सकल वार्षिक आय (₹)*
जन्म तिथि* DDMMYYYY जन्म स्थान* धर्म* धर्म*
माँ का विवाहपूर्व नाम*
फ्लैट संख्या* और बिल्डिंग नाम*
सड़क संख्या/नाम
तेंडमार्क
शहर* जिला पिन कोड* पिन कोड
राज्य* देश* राष्ट्रीयता*
पैन संख्या पॉर्म 60 📉 🔃 मोबाइल नंबर*
ई-मेल आईडी
<mark>ओवीडी विवरण*:</mark> ओवीडी
संख्या:*
ओवीडी नाम*: ओवीडी नाम*:
শ্বাক্ষৰকাৰী 2: স্বাক্ষৰকাৰীৰ ক্ষেত্ৰত এজন বিদ্যমান গ্ৰাহক চিআইএফ আইডি চিকোৰ চিকোইটে নম্বৰ সি N
1, উপসর্গ কর্তৃত্বপ্রাপ্ত বাস্ক্রক্রনীয় বিরবণ (প্রথম নাম) যথানাম অন্তিম নাম
পদবী* যাজৰকাৰী আভজনক গৰাকী
ভিআইএন নম্বৰ ি তি বিজ্ঞান কৰিছে বিজ্ঞান কৰ
বৈৰাহিক শ্বিতি* অবিৰাহিত অন্যান্যবোৰ অহ্তা: স্নাতকোত্তৰ স্নাতক তলত অন্যান্
জীৱিকা* বিতনভোগী খ্ৰ-নিয়োজিত পিইপি (ৰাজনৈতিকভাৱে উন্মুক্ত ব্যক্তি) আন্যান্যবোৰ
উপার্জনৰ উৎস* বিতন ুক্ষি ুব্যৱসায়িক উপার্জন ুবিনিয়োগৰ উপার্জন ুব্যবস্থান
মুঠ বার্ষিক উপার্জন (₹)*
জন্ম তাৰিখ* D D M M Y Y Y Y Sen হান* ধৰ্ম*
মাতৃৰ প্ৰথম নাম*
ুষ্টের নম্বৰ* আব বিএপডিজি নাম*
পথ নংনাম লেণ্ডমার্ক
পথ নংনাম লেওমার্ক নগর* গাঁও/ভাকঘর* জিলা পিন কোড* বাজ্যা নগর* বাজ্যা স্বিন্ধান্ত স্বিন্ধ
পথ নংশাম লেওমার্ক নগর* গাঁও/ভাকহৰ* জিলা পিন কোড*
পথ নংনাম লেও মার্ক নগর' গাঁও/ভাক্তরব' বাজা' পেন নং প্রথম কি স্থান বিশ্ব
পথ নংনাম লেওমার্ক নগর* গীওড়াকছর* জিলা পিন কোড* বিজ্ঞান পেন নং থপন নং থপন নং ইনেইল আইডি উত্তি বিরবণ*:
পথ নংনাম লেও মার্ক নগর' গাঁও/ভাক্তরব' বাজা' পেন নং প্রথম কি স্থান বিশ্ব
পথ নংনাম লেওমার্ক নগর* গীওড়াকছর* জিলা পিন কোড* বিজ্ঞান পেন নং থপন নং থপন নং ইনেইল আইডি উত্তি বিরবণ*:
পথ নংনাম শেওমার্ক নগর শ্বি ন্যা শিব কোল শিব ক
পথ নংশাম পথ নংশাম পথ নংশাম বিজ্ঞান কিল
পথ নানে। পেও বার্কে গাঁও ভাল্থয়ার্ক গাঁও ভাল্থযার্ক গাঁও ভাল্থযার্ক গাঁও ভাল্থযার্ক গাঁও ভাল্থযার্ক গাঁও ভাল্থযার্ক গাঁও ভাল্থযা
পথ নংশাম পথ নংশাম পথ নংশাম বিজ্ঞান কিল
পথ নানে। পেও বার্কে গাঁও ভাল্থয়ার্ক গাঁও ভাল্থযার্ক গাঁও ভাল্থযার্ক গাঁও ভাল্থযার্ক গাঁও ভাল্থযার্ক গাঁও ভাল্থযার্ক গাঁও ভাল্থযা
পথ নদেশ গীও,ভাকথৰ বাজা দেশ বাজা বাজা দেশ বাজা বাজা দেশ বাজা বাজা দেশ বাজা বাজ

Occupation* Salaried Self-Employed PEP (Politically Exposed Person) Others	
Source of Income* Salary Agriculture Business Income Investment Income Others	
Gross Annual Income (₹)* <50,000	kh > 10 Lakh
Date of Birth* D D M M Y Y Y Place of Birth* Religion*	ш
Mother's Maiden Name* Father's Name* Father's Name*	APPITARE I
Flat No.* 8 Bldg Name*	
Road No./Name	
Landmark	
City* Village/PO* District PIN Co	de*
State* Country* Nationality*	
PAN No. Form 60 Y N Mobile Number*	
E-Mail Id	
OVD Details*:	
0VD No.*: 0VD No.*:	
OVD Name*:	
हस्ताक्षरकर्ता 3:	
यदि हस्ताक्षरकर्ता एक मौजूदा ग्राहक है सीआईएफ आईडी सीकेवाईसी संख्या 🕎 🔃	
1. पूर्वलग्न	कुलनाम
पदनाम [*]	तरकर्ता लाभकारी स्वामी
ने अनुसूचित अन्य सामान्य विस् प्रमुख	स्त्री तीसरा
डा.आइ.एन संख्या <u> और एलएलपी के मामले में लागू</u> वंग <u>जनजाति जाति पिछड़ा वर्ग ^{लागान्य} । लग पुरुष</u> वैवाहिक स्थिति* अविवाहित विवाहित अन्य <u></u> योग्यताः पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट	अन्य
व्यवसाय* वितनभोगी स्व - नियोजित पीईपी (राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति) अन्य	
आय का स्रोत* वेतन कृषि व्यावसायिक आय निवेश आय अन्य	
सकल वार्षिक आय (₹)*	ख
जन्म तिथि* DDMM YYYY जन्म स्थान* धर्म*	,
माँ का विवाहपूर्व नाम*	
पतैद संख्या [*] और बिल्डिंग नाम [*]	
सड़क संख्या/नाम	
लैंडमार्क	
शहर* गांव/डाकघर* जिला पिन व	नोड*
राज्य* देश* राष्ट्रीयता*	
पैन संख्या	
ई-मेल आईडी	
भोवीडी विवरण*: भोवीडी	
तायाः। संख्याः*	
ओवीडी नाम*: ओवीडी नाम*:	
शंकवरांवै 3:	
স্বাক্ষকবাৰীৰ ক্ষেত্ৰত এজন বিদ্যমান গ্ৰাহক চিআইএফ আইডি চিকেৱাইচি নম্বৰ Y N	অন্তিম নাম
1. উপস্প কর্তৃত্বপ্রাপ্ত বাক্ষকবর্গনি বিরবণ (প্রথম নাম)	SIGN THE
পদবী*	াৰী লাভজনক গৰাকী
ভিআইএন নম্বৰ (বেৰণ প্ৰাইভেটপাৱিক লিফিটভ বেৰণি জনজাতি জাতি সাধাৰণ পুৰুষ	মহিলা তৃতীয়
ভিআইএন নম্মৰ (কেলা প্ৰহণে প্ৰায়েটে) প্ৰেণ্ডল কৰাজাতি জনজাতি জ্বালাজি প্ৰায়েক পৰি পুৰুষ জ্বলাজি জনজাতি জ্বলাজি প্ৰায়েক পৰি প্ৰায়েক প্ৰয়েক প্ৰায়েক প্ৰয়েক প্ৰায়েক প্ৰয়েক প্ৰায়েক প্ৰয়েক প্ৰায়েক প্ৰায়ে	46.0
ভিআইএন নম্বৰ আনু প্ৰন্ত্ৰাপিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজ্য বেশা। জনজাতি আতি শাণাৰণ । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।	अन्यान्य
ভিআহ্ এন নম্বৰ ব্যালিক বিষয় প্ৰায় প্ৰবিশ্ব ক্ষিত্ৰত প্ৰযোজ্য বিশ্ব বি	
ভাষাহত্ৰন মন্বৰ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	
ভিআহন্তন নম্বৰ আনু প্ৰভাৱন্তিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজ্য বিবাহিত অন্যান্যবোৰ অহঁতা: স্লাভক কলত স্লাভক কলত জীৱিকা* বিবাহিত পিইপি (ৰাজনৈতিকভাৱে উন্মুক্ত ব্যক্তি) অন্যান্যবোৰ	जन्मानम्
ভবাহতান মৰৰ	અન્યાન્ય

Section Sect	ফ্লেট নম্বৰ* আৰু বিএলডিজি নাম*																																
Page	পথ নং/নাম																																
Control Cont	লেণ্ডমার্ক																																
Contract	নগৰ*							গাঁও/ড	কঘৰ [*]									জিলা								পিন কো	⊌*						
Control Cont	ৰাজ্য*							দে*	t *												ৰাষ্ট্ৰ	ীয়তা <mark>*</mark>											
Additional Add	পেন নং													প্রপত্র 6	50 Y	N]				ম'বাইল	নম্বৰ <mark>*</mark>						٦ī	٦ï				
### ### #### #########################	ই-মেইল আইডি								╗														Ť	Ï	Ϊ	ΞÏ		Ti	ΠÏ	$\vec{\Box}$	ı Ti		\Box
CPC Namber	└───│└───│└ ॐভিডি বিৱৰণ*:																								_								
COC Number Care of Signatury is an existing contamer CIFED COC Number Linds. Actual and Signatury State Company* ST ST ERC ERC Consequence Actual and Signatury Description Company* ST ST ERC ERC Consequence Actual and Signatury Description Company* ST ST ERC ERC Consequence Description Desc	ওভিডি নম্বৰ*:													9	ভিডি নম্ব	∢* :																	
Control Separatory is an existing customer CIFED COOK Florenber CI															-00																		
Caregory Secretary Secre	ওভাড নাম^:													_	ওাভাড	নাম^:																	
Caregory Secretary Secre	Signatory 4:																																
Mode Storms Sequence Mode Storms Mod		isting cus	tomer	CIF	ID									С	CKYC N	umber	rY	N															
	1. Prefix	Authorise	d Signa	tory Det	ails (Firs	st Name)					_																ast N	lame					_
Marie	Designation*																					Rela	tionsh	nip _	S	ignato	ry		F	Benef	icial 0	wner	
Cooperior Salaries Self-Employed PEP (Principle Exposed Pessar) Others O	DIN No.										(Catego	ry*	ST	SC		OBC	GEN					Gen	der	Mal	е	Fe	emale	\Box	Thin	'd		
Business horome Soling Approximate Business horome Investment horame Others Oth	Marital Status* Single		Ma	rried		0:	thers			_	(Qualific	cation	n: [Po	ost Gra	aduate	, [_ Gi	aduat	e		Unde	r Gradi	uate	Ė	7 0)thers				_	
See of terms	Occupation* Salari	ed	Self	f-Emplo	oyed	PI	EP (Poli	tically	Expos	sed Per	rson)			Othe	ers				_														
All food Birth	Source of Income*	Salar	У		Ag	riculture			Bus	iness I	ncom	ie		Inve	estmen	t Inco	me		Ot	hers													
Father's Nation Name*	Gross Annual Income (₹)*	<50,	000		50,	.000 - 1 La	akh		>1	- 3 Lal	ch			> 3	8 - 5 La	kh			>	5 - 7.	5 Lakh	1] > 7.	5 - 10	0 Lakh	1] > 10	0 Laki	.h		
Set No. * 6 Bidg Name* Coad No. Anne Anne	Date of Birth*	D D	М	М	Y	′ Y	Υ	Υ			Р	lace o	f Birtl	h*										Re	ligior	n*							
Set No. * 6 Bidg Name* Coad No. Anne Anne	Mother's Maiden Name*	$\neg \neg $			<u> </u>		\Box								Fat	her's l	Name [*]	+								╗			$\neg \vdash$	\neg	\Box		
South No. Name andmark Village.PD	<u> </u>				一;		┰							Т				┢					╬	╬	╬	╁	╬	╬	╦	ポ	寸	╗	\equiv
andmark					井	_			H					╬	Н									壯	╬	╬	╬	╬	╬	井	井	井	=
Title VillageP0	<u> </u>				L	_ _]							<u> </u>	╬		묶	井	井	井	井	井	=
Nationality* Nationality* Note that the second of the s	<u> </u>									\square							<u> </u>							<u> </u>	JL		_ _	井	井	井	井	╣	=
AN No. Form 80 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	_						-]	Jistrict					_	_	PI 	IN Code	e* [井	井	井	ᆜ	ᆜ	=
Modil d VVD Details*: OVD Non*: OVD Name*: OVD Na	State*		1					Cou	ıntry*															4	Ļ	_ _	4	井	井	4	ᆜ	ᆜ	=
UVD Name": OVD Name": OVD Name": OVD Name": OVD Name": OVD Name": OVD Name": OVD Name": OVD Name": OVD Name": OVD Name": OVD Name": OVD Name": OVD Name": OVD Name": OVD Name": OVD Name": OVD Name": OVD Name": OVD Name": OVD Name OVD Name OVD Name OVD Name OVD Name OV	PAN No.						Щ	Щ	Щ					Form 6	60 Y	N	<u> </u>			Mobi	le Nu	mber [*]	•	<u> </u>	ļ	<u> </u>	<u>JĻ</u>	<u> </u>	<u> </u>	_	$\underline{\square}$		\square
0VD Non*: 0VD Non*: 0VD Name*: 0VD Name*: 0VD Name*: <td>E-Mail Id</td> <td></td>	E-Mail Id																																
OVD Name*: OVD Name*: OVD Name*: अस्वाधारकर्ता 4: प्रतिहासरकर्ता ५: प्रदेश स्थानस्थलती विध्या (प्राम नाम) मध्य नाम क्षृत्रवाम संबंध हस्तासरकर्ता (प्राम नाम) मध्य नाम क्षृत्रवाम संबंध हस्तासरकर्ता (लामनाम) मध्य नाम क्षित्र पुष्प स्वी तीसरा अस्य स्थानमा विद्यानमाम संबंध हस्तासरकर्ता (लामनाम) स्व निर्माण अस्य स्थानमा संबंध हस्तासरकर्ता (लामनाम) स्व निर्माण अस्य स्थानमा संबंध हस्तासरकर्ता (लामनाम) स्व निर्माण संबंध हस्तासरकर्ता (लामनाम) स्व निर्माण संबंध हस्तासरकर्ता (लामनाम) स्व निर्माण संबंध हस्तासरकर्ता (लामनाम) संबध हस्तासरकर्ता (लामनाम) संबध हस्तासरकर्ता (लामनाम) संवध हस्तासरक्ता (लामनाम)	OVD Details*:				1									_						1				1		1		ı—		1	1		
प्रस्तासफलती 4: 1. पूर्वतान अधिकृत हरनासफलती विवरण (पयम नाम) मध्य नाम कृतनाम प्रताम अधिकृत हरनासफलती विवरण (पयम नाम) मध्य नाम कृतनाम संबंध हरनासफलती (नामकारी) स्वामी तिवाहित स्थिति अविवाहित अम्य योग्यताः पोस्ट योजुएट अंडर येजुएट अंडर येजुंट येजुंट अंडर	OVD No.*:													0	VD No	.*:																	
पदि हस्ताक्षरकर्ता एक मौजूरा याहक है सीआईएफ आईडी सीकेवाईसी संख्य प्राप्त माम क्वलाम प्रदेश मध्य गम मध्य गम क्वलाम अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता विवाण (प्रथम नाम) अध्यायका सीत' वेतन विवाण	OVD Name*:													_ 0	VD Na	me*:																	
पदि हस्ताक्षरकर्ता एक मौजूरा याहक है सीआईएफ आईडी सीकेवाईसी संख्य प्राप्त माम क्वलाम प्रदेश मध्य गम मध्य गम क्वलाम अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता विवाण (प्रथम नाम) अध्यायका सीत' वेतन विवाण																																	
1. पूर्वलाम	हस्ताक्षरकर्ता 4:							1					l								1	1		7				—г	—	—ı	<u></u>	—	
सदाम संबंध हस्ताक्षरकर्ता आक्रकारी स्वामी तीआईएन संख्या (केवल पाइटेटपब्लिक लिमिटेड अंतर एवललचे के मामत में लाग) तीआईएन संख्या (केवल पाइटेटपब्लिक लिमिटेड अंतर एवललचे के मामत में लाग) तीआईएन संख्या (केवल पाइटेटपब्लिक लिमिटेड अंतर एवललचे के मामत में लाग) तीताहक स्थित अविवाहित विवाहित अन्य योज्यताः पोस्ट ग्रेजुण्ट अंदर														सीकेव			Υ	N								بالــ		L					
होआईएन संख्या क्षेत्रव पाइन्टेट/पविकाद तिमेटेड और एकएलपी के मामले में तागु वर्ग च अनुस्तित जिसरा जनजाति जाति पिछड़ा को सामान्य तिम पुरुष स्वी तीसरा वागु विवाहित विवाहित अन्य योग्यता: पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट अंजुएट अंजुएट अन्य स्वाता वेतानकोगी स्व - नियंजित पीईपी (राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति) अन्य माय का स्रोत वेतान कृषि व्यावसायिक आय निवेश आय अन्य उत्तन विवाहित वेतान कृषि व्यावसायिक आय निवेश आय अन्य उत्तन विवाहित वेतान कृषि व्यावसायिक आय निवेश आय अन्य उत्तन विवाहित वेतान कृषि व्यावसायिक आय निवेश आय अन्य उत्तन विवाहित वेतान कृषि व्यावसायिक आय निवेश आय अन्य उत्तन तिथि वेतान विवाहित वेतान विवाहित वेतान	1. प्रवलग्न	जावकृत र		7(11 140	1(9) (9)																						3/(1011						
होआईएन संख्या क्षेत्रव पाइन्टेट/पविकाद तिमेटेड और एकएलपी के मामले में तागु वर्ग च अनुस्तित जिसरा जनजाति जाति पिछड़ा को सामान्य तिम पुरुष स्वी तीसरा वागु विवाहित विवाहित अन्य योग्यता: पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट अंजुएट अंजुएट अन्य स्वाता वेतानकोगी स्व - नियंजित पीईपी (राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति) अन्य माय का स्रोत वेतान कृषि व्यावसायिक आय निवेश आय अन्य उत्तन विवाहित वेतान कृषि व्यावसायिक आय निवेश आय अन्य उत्तन विवाहित वेतान कृषि व्यावसायिक आय निवेश आय अन्य उत्तन विवाहित वेतान कृषि व्यावसायिक आय निवेश आय अन्य उत्तन विवाहित वेतान कृषि व्यावसायिक आय निवेश आय अन्य उत्तन तिथि वेतान विवाहित वेतान विवाहित वेतान	पदनाम*																			_		_	।_ संब	 iध	ᆜ┖ ᄀᇙ	। स्ताक्षर	। रकर्ता			। लाभक	ा गरी स्व	——। वामी	
सेवाहिक स्थित					<u> </u>								गर्ग* [अनुसूचि	ोत अनु	सूचित	अन्य		0100=21	7									ᆜ.				
स्यवसाय वेतनभोगी स्व - नियोजित पोईपी (राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति) अन्य अभय का स्रोत वेतन कृषि व्यावसायिक आय निवेश आय अन्य अन्य का वार्षिक आय (१) < <50,000								लपी के	मामले	में लागू)				-				वर्ग े		_						<u> </u>	_				axi		
HI का स्रोत वेतन कृषि व्यावसायिक आय निवेश आय अन्य सकल वार्षिक आय (१) < 50,000	· 📙	-	=		\	\Box		- 00		+		- 				स्ट ग्र	ाजुएट	L	ਗੁ	जुएट			अडर	ग्रजुएट		L		1न्य <u>_</u>				_	
सकत वर्षिक आय (₹)*		¬ "		- ।नय			इपा (स	जनात	1) -	_				— Г	¬														
जन्म तिथि* D D M M Y Y Y Y जन्म स्थान* पं का विवाहपूर्व नाम* नहेंद संख्या* और बिल्डिंग नाम* नहेंद संख्या/नाम नहेंद संख्या/नाम नहेंद संख्या/नाम नहेंद संख्या/नाम नहेंद संख्या जिला पिता का नाम* पित का नाम* प्राप्त	_				_		ma		1			ય						L	=		जाम			1 ~ 7	5 1	೧ ಮಾಕ			7 _{~ 10}	೧ ವರ್ಷ	न		
माँ का विवाहपूर्व नाम पिता का नाम पिता का नाम विवाहपूर्व नाम विवाहपूर्य नाम विवाहपूर नाम विवाहपूर्य नाम विवाहपूर्य नाम विवाहपूर नाम विवाहपूर नाम विवाहपूर्य नाम विवाहपूर्य नाम विवाहपूर्य			1 🗔			,000 - 1 M	ilei] /	- 3 MI				-) - J (AI	u				J - 7.) MIG] - 1.									
स्तेट संख्या* और बेल्डिंग नाम* सड़क संख्या/नाम सड़क संख्या/नाम सड़क संख्या/नाम सहक संख्या सहस्या	_] [Y		<u> </u>	Y				जन्म र	⊬थान' 						1	1		1		7	리다.	_ _	71	_	 _				=
बेल्डिंग नाम* सड़क संख्यांनाम तंडमार्क सहर* गांव/डाकघर* जिला पिन कोउ* तिन संख्या पॉर्म 60 Y N मोबाइल नंबर*	_	_	Щ	\square	<u> </u>	_ _	Щ	Щ	Щ					Щ	पित ग	ना का	नाम* 11			Ļ				<u> </u>	ļL	<u> </u>	<u> </u>	ᆙ	<u> </u>	ᆜ		_	\square
मेंडमार्क शहर* गांव/डाकघर* जिला पिन कोड* ाज्य* देश* पाँक्ट्रीयता* मोंबाइल नंबर*	फ्लंट संख्या* और बिल्डिंग नाम*			\sqcup					Ш						Ш					Ш								<u>_L</u>	<u>_ </u> L	<u>_ </u>			
गंव/डाकघर* जिला पिन कोड* पिन कोड* जिला पिन कोड* जिला पिन कोड जिला जिला जिला पिन कोड जिला जिला जिला जिला जिला जिला जिला जिला	सड़क संख्या/नाम																																
ाज्य* देश*	नेंडमार्क —																																
ोन संख्या	शहर*						ग	ia/डाक	 घर*									जिला						Ī	पि		5 *	T		T		T	
ोन संख्या	राज्य*						Ħ										j				राष्टी	यता*		T			٦Ħ	╗	朮	٦ï	T	黹	\equiv
	<u> </u>						$\forall \neg$						τ	फॉर्म ६	60 Y	N]			मोर				╬			╬	╬	ポ	井	=#	黹	\equiv
10¢311					<u> </u>			믺	ᆛ				<u> П</u> Г			لتب ،							눆				廾	廾		<u> </u>			\dashv
	₂ -লপ সাহিহা																								ШL						Ш		Ш

ओवीडी विवरण*: ओवीडी	
संख्या:*	
जापांडा नान	সাধাচা গাল .
স্বাক্ষৰকাৰী 4:	
স্বাক্ষৰকাৰীৰ ক্ষেত্ৰত এজন বিদ্যুহ	
1. উপসৰ্গ	কর্তৃত্বপ্রাপ্ত বাক্ষকবাদীৰ বিবেশ (প্রথম নাম) মধ্যনাম মধ্যনাম
পদবী*	সম্পৰ্ক যথাক্ষৰকাৰী লাভজনক গৰাকী
ডিআইএন নম্বৰ	(কেলে প্রাইণ্ডট/পারিক নিবিটেড প্রেণী [®] জনজাতি অনুসূচীত পিছ-পরা সাধারণ লিঙ্গ পুরুষ মহিলা তৃতীয় অনু এংএলপিন ক্ষেত্র প্রযোজ্য
বৈবাহিক স্থিতি*	অধিবাহিত বিবাহিত অন্যান্যবোৰ অহঁতা: স্নাতকোত্তৰ স্নাতক তলত অন্যান্য
জীৱিকা*	বেতনভোগী স্ব-নিয়োজিত পিইপি (ৰাজনৈতিকভাৱে উন্মুক্ত ব্যক্তি) অন্যান্যবোৰ
উপাৰ্জনৰ উৎস <mark>*</mark>	বেতন ুকৃষি ুব্যৱসায়িক উপার্জন ুবিনিয়োগৰ উপার্জন ুবনিয়োগৰ উপার্জন
মুঠ বাৰ্ষিক উপাৰ্জন (₹)*	<50,000
জন্মৰ তাৰিখ <mark>*</mark>	D D M M Y Y Y Y Sen श्रा श्रा * 40°
মাতৃৰ প্ৰথম নাম <mark>*</mark>	পিতৃৰ নাম*
ফ্লেট নম্বৰ* আৰু বিএলডিজি নাম*	
পথ নং∕নাম	
লণ্ডমার্ক	
নগৰ <mark>*</mark>	গাঁও/ভাকঘৰ* জিলা পিন কোড*
ৰাজ্য *	দেশ* বিষ্টায়তা*
পেন নং	প্রপত্ত 60 Y N মবাইল নম্বৰ*
ই-মেইল আইডি	
ওভিডি বিৱৰণ*:	
ওভিডি নম্বৰ*:	ওভিড নঘৰ*:
ওভিডি নাম <mark>*</mark> :	ଓଡ଼ିତ ନାਸ*:
	Please sign / कृपया हस्ताक्षर करें / अनुश्र किन शास्त्र करें
	Authorised Signatory(ies) (Rubber Seal of Entity required)
	प्राधिकृत हस्ताक्षारकर्ता (इकाई की रबर सील आवश्यक है) কর্তৃত্বপ্রাপ্ত স্বাক্ষনকাৰী (আই) (প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানন নবন চীল)
	For Utkarsh Small Finance Bank use only / उत्कर्ष लघु <mark>वित्त बैंक के लिए केवल उपयोग करें</mark> / উৎকৰ্ষৰ সা'ল ফাইনেস বেঙ্কে কেৱল ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে
N COURT	
Name of Officia: _ अधिकारी का नाम:	
কাৰ্য্যালয়ৰ নাম:	
EIN: ईआईएन:	Dated DDDMMMYYYYY दिनांकित Signature with Stamp
ইআইএন:	णविथं स्टाम्स के साथ हस्ताक्षर
	স্বাক্ষৰ ৰ সৈতে ষ্টাম্প